

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]
No. 453]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2006, भाग 14, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2006, PART 14, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2006

का.आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1537(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), तारीख 26 अक्टूबर, 2005, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुशी नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के 9.000 कि.मी. से 360.570 कि.मी. (लखनऊ - उत्तर प्रदेश / बिहार सीमा सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (बोड़ा करने) के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 नवम्बर, 2005 को "दैनिक जागरण" और तारीख 26 नवम्बर, 2005 को "आज" में प्रकाशित किया गया था ;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे सतंगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम व्वा धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर इससे सलंगन अक्सूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के 9.000 कि.मी. से 360.570 कि.मी. तक (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कुशी नगर	हाटा	(1) सुबुधिया खुर्द	1	सरकारी	गैर कृषि	0.026	नाला
				81	सरकारी	गैर कृषि	0.015	नाली
				85	निजी	कृषि	0.025	रामाकान्त पुत्र हरगुन ग्रामवासी
				93	निजी	कृषि	0.130	माता वदल पुत्र रामअवध सा० शहर गोरखपुर व गेना पुत्र उदित सा० जमुआन
				119	सरकारी	गैर कृषि	0.015	रास्ता
				120	निजी	कृषि	0.066	दिग्विजय सिंह पुत्र लखनवहादुर सिंह नि० नवापार
				124	सरकारी	गैर कृषि	0.020	नाला
				130	सरकारी	गैर कृषि	0.283	पक्की सड़क
				169	सरकारी	गैर कृषि	0.044	रास्ता
				170	सरकारी	गैर कृषि	0.003	बंजर
				178	सरकारी	गैर कृषि	0.020	नाली
			(2) भगवानपुर बुजूर्ग	382	निजी	कृषि	0.260	लालसा व सुखनन्दन पुत्रगण महंगू ग्रामवासी, बंजर
				455	निजी	कृषि	0.038	नदी, मझने, मुस्मात बलकेशिया बेवा दल्लू निवासी ग्राम सुबुधिया खुर्द
				467	सरकारी	गैर कृषि	0.013	सड़क, रामलखन पुत्र रामयादी ग्रामवासी, सुभाष पुत्र राजधारी सा० देवरिया आदि। कपिल देव व रामभवन पुत्रगण जसई आदि।
				478	सरकारी	गैर कृषि	0.038	नदी, मझने, मुस्मात बलकेशिया बेवा दल्लू निवासी ग्राम सुबुधिया खुर्द
			(3) चकनील कण्ठ	1	सरकारी	गैर कृषि	0.084	नदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2	निजी	कृषि	0.076	जयन्त्री व बैजनाथ व श्रीनिवास व छबिलाल पुत्रगण अलगु व रामचन्द्र व विश्वनाथ व सीताराम पुत्रगण पलकधारी, दिनेश पुत्र नन्दलाल व श्रीमती नबुजन जौजे मजहर अली ग्रामवासी, पुरुषोत्तम व हरि व जगरनाथ व प्रसाद पुत्रगण जददु ग्रामवासी
				8	निजी	कृषि	0.058	पुरषोत्तम व हरि व जगरनाथ व प्रसाद पुत्रगण जददु ग्रामवासी
				9	निजी	कृषि	0.025	अमरनाथ व शेषनाथ व भुपेन्द्रनाथ पुत्रगण शिवकुमार सा० बेलवा खुर्द, तप्पा केवटली जिला गोरखपुर व जगरनाथ पुत्र जददु व बृजलाल पुत्र पलकधारी ग्रामवासी
				10	निजी	कृषि	0.029	अमरनाथ व शेषनाथ व भुपेन्द्रनाथ पुत्रगण शिवकुमार नि० ग्राम बेलवा खुर्द, तप्पा केवटली जिला गोरखपुर व बृजराज पुत्र पलकधारी ग्रामवासी
				11	सरकारी	गैर कृषि	0.068	मरघट
				15	निजी	कृषि	0.040	सत्तार व गफफार पुत्रगण मोलहू ग्राम रामुडीहा
				24	सरकारी	गैर कृषि	0.005	रास्ता
				28	निजी	कृषि	0.034	मंजीद पुत्र अहमद ग्रामवासी, व सीताराम पुत्र पलकधारी, अलाउद्दी पुत्र तालुकदार व श्रीमती रुमाली देवी पत्नी. जगदेव प्रसाद यादव रावतपार तहसील सदर गोरखपुर हाल मुकाम चकनील कंठ
				29	निजी	कृषि	0.057	अलगु जयन्त्री व बैजनाथ व श्रीनिवास व छबिलाल पुत्रगण अलगु ग्रामवासी
				49	सरकारी	गैर कृषि	0.028	खाद गढदा
				50	निजी	कृषि	0.011	रामदरस बलिराज ग्राम बढया खुर्द
				69	सरकारी	गैर कृषि	0.033	कब्रिस्तान
				217	निजी	कृषि	0.021	रामवदन व नन्दू व छोटेलाल पुत्रगण विपत व लालदेई पत्नी विपत ग्राम बढया बुजुर्ग
				218	निजी	कृषि	0.026	गुप्तार पुत्र अलगु ग्राम बढया खुर्द, महातम व रंगलाल पुत्रगण रमेश व रामवृक्ष व रामप्यारे व रामप्रताप व राधेश्याम व सुनील कुमार पुत्रगण सोभी व जानकी देवी बेवा सोभी ग्रामवासी
				219	निजी	कृषि	0.028	सोनमती स्त्री त्रिवेणी व प्रधान पुत्र भगवती व छेदी व रामवृक्ष व बिहारी व सुरेश व हिरदेश पुत्रगण बदरी ग्राम बढया खुर्द व गोविन्द पुत्र काशी ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				220	निजी	कृषि	0.032	भीष्म पुत्र मथुरा व खेदु व राम भवन पुत्रगण सुकई व रामअशिश व रामआसेर व रामनिवास पुत्रगण मंगल व जंगली व मंगली व सीताराम व हरिलाल पुत्रगण रामराज व रामअधार पुत्र चतुरी व नेउर व पुत्र पालकी व विकार प्रसाद व अशाक कुमार व राजेश्वर लाल व पुत्रगण भूलन व विरेन्द्र कुमार पुत्र बसंत नि० ग्राम सुकरौली
				224	निजी	कृषि	0.018	सोभी व महातम व रंगलाल पुत्रगण रमेशर व ईश्वर व जगन्नाथ पुत्रगण रामवरण ग्राम बढ़या बुजुर्ग
				225	निजी	कृषि	0.008	रामवृक्ष पुत्र सोभी व रामानन्द पुत्र महतम व मनोज कुमार पुत्र रंगलाल सा० चकनिल कंठ
				271	निजी	कृषि	0.032	पुरुषोत्तम व बगेनाथ व हृदेश पुत्रगण मोतीचन्द व विजय कुमार पुत्र सुर्य लाल व मु० छोहाडी वेवा सुर्यलाल ग्राम बढ़या बुजुर्ग
				272	निजी	कृषि	0.138	आशा नन्द यादव पुत्र रामप्रताप व शेषनाथ पुत्र शिव कुमार नि० ग्राम बढ़या खुर्द
				273	निजी	कृषि	0.005	श्रीमती सोनमती पत्नी मेवा लाल सा० बढ़या बुजुर्ग व महातम पुत्र रमेशर सा० चकनील कंठ
				274	सरकारी	गैर कृषि	0.002	सर्वटर रोड
				278	निजी	कृषि	0.002	मुसी व विजुली व शंकर व सरवन पुत्र गण टिपू व त्रिलोक व ओमप्रकाश पुत्रगण सूरत व महापाल व जैपाल व धर्मपाल पुत्रगण मूरत ग्राम सुकरौली
				281	निजी	कृषि	0.002	मुराली पुत्र नन्दन व प्रताप व नेबूलाल व श्रीनिवास पुत्रगण मुटुर व अर्जुन पुत्र काशी व त्रिलोक व ओमप्रकाश पुत्रगण सूरत व महापाल व जैपाल व धर्मपाल पुत्रगण मूरत व मुन्शी व विजुली शंकर व सरवन पुत्रगण टिपू ग्राम सुकरौली
			(4) बढ़या खुर्द	63	निजी	कृषि	0.040	रामअधार पुत्र कौशल ग्राम चकनिल कण्ठ, श्रीमती बेलासी जौजे रामघुमावन ग्रामवासी व श्रीमती प्राणमती पत्नी अच्छेलाल साकिम विशुनपुर कैथवलिया (विन्दुसार), गोवरी पुत्र विपत व मोसमात कुसमावती पत्नी रामवृक्ष व बृजमोहन नावालिक उम्र 10 वर्ष साकिम मोसमात कुसमावती माता स्वयं
				71	निजी	कृषि	0.034	श्रीकिशुन पुत्र अगरदी ग्रामवासी
				75	निजी	कृषि	0.058	रामाशंकर आदि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				77	निजी	कृषि	0.042	गौरीशंकर व विजय चन्द व सुन्दर व वीकेलाल पुत्रगण बल्ली ग्रामवासी
				78	निजी	कृषि	0.030	रामनगिना उर्फ गोजई व रामाज्ञा पुत्रगण कीनई ग्रामवासी
				79	निजी	कृषि	0.032	हरिलाल, रामसूचीत आदि
				81	सरकारी	गैर कृषि	0.011	खाद गढ़दा
				97	निजी	गैर कृषि	0.011	मुराली पुत्र शिवपुजन व पूर्ववासी पुत्र रामलाल ग्रामवासी, मिठाई व चण्डी पुत्रगण चौधी ग्रामवासी, भिष्मपितामह व रमाशंकर पुत्रगण भददर व मंगल व जंगली व रामलक्ष्मण पुत्रगण साई ग्रामवासी, खेदु पुत्र बादू ग्रामवासी, आबादी, रामपत पुत्र स्वरूप व रामदास पुत्र रमा व कंसू पुत्र गण, मु० सुनरी बेबा गणपति व श्रीमती सविता व श्रीमती जानकी पुत्र मनुराम ग्रामवासी रामपति व समपत व रामा व गोपाल पुत्रगण वैद्यनाथ ग्रामवासी रामायण व शम्भु पुत्रगण गुनर व रामायण पुत्र रामजी व गंगा पुत्र रामदास ग्रामवासी व आबादी
				98	सरकारी	गैर कृषि	0.005	नवीन परती
				100	सरकारी	गैर कृषि	0.039	बंजर आबादी
				101	निजी	गैर कृषि	0.047	आबादी, दुलारे व उमाकांत पुत्रगण लुमावन ग्रामवासी, जर्नादन पुत्र कच्छु व मनु व धनु यादव पुत्रगण मेघु व सूरजदेव व सुदर्शन पुत्रगण धुमल व मु० कुसुमावती बेबा अवधेश व रामअवतार व रामाज्ञा व जगरनाथ पुत्रगण नरेश व मु० घरनी बेबा नरेश व हरि पुत्र बुधु ग्रामवासी, श्रीमती वेलासी जैजे राम घुमावन ग्रामवासी
				102	सरकारी	गैर कृषि	0.010	पोखरी
				104	निजी	कृषि	0.059	सचिदानन्द व सारदा व विनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण नित्यानन्द व श्रीमती डोमा धर्मपत्नी स्व० नित्यानन्द ग्रामवासी
				105	निजी	कृषि	0.064	सचिदानन्द व सारदा व विनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण नित्यानन्द व श्रीमती डोमा धर्मपत्नी स्व० नित्यानन्द ग्रामवासी, मोहन व रामवृक्ष पुत्रगण शिवरतन व बिहारीलाल पुत्र दशरथ व रामधारी पुत्र दीपचन्द्र ग्रामवासी, ठाकुर पुत्र मुसई व सीताराम व द्वारिका व काशीनाथ पुत्रगण सुकई, राम सागर व नागेश्वर व पहलाद व सतराज व हंसराज पुत्रगण रामपति व सुदामा व रूपम व बब्बन पुत्रगण महंगु व मु० दीपराजी पत्नी मुन्नी व हरि पुत्र मुन्नी ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				142	निजी	कृषि	0.026	सचिदानन्द व सारदा व विनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण नित्यानन्द व श्रीमती डोमा धर्मपत्नी स्व० श्री नित्यानन्द ग्रामवासी
				145	सरकारी	गैर कृषि	0.013	नहर, विभाग
				146	निजी	कृषि	0.056	दिलजान पुत्र जलिल ग्राम: सुकरौली व श्रीमती गुलाबी देवी जौजे कतबारु साकिम फेजपुर जिला गोरखपुर व श्रीमती तेतरी स्त्री बिशुनदयाल साकिम पकरी
				148	निजी	कृषि	0.033	सचिदानन्द व सारदा व विनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण नित्यानन्द व श्रीमती डोमा धर्मपत्नी स्व० श्री नित्यानन्द ग्रामवासी
				149	निजी	कृषि	0.026	ओम्प्रकाश लालजी व श्रीमती सरोसती देवी जौजे रामशरण साकिम जंगलरसुलत चौरी चौरा हाल मोजे बढया खुर्द व जयमल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह साकिम सुकरौलि व सुभास व रामप्रवेश व विनोद कुमार पुत्रगण सुकई निज ग्राम पिडरा
				150	निजी	कृषि	0.038	पारसनाथ पुत्र रामरूप साकिम बसन्तपुर व परसुराम उर्फ ककवाल जिला देवरिया, मु० कौशल्या जौजे रामदास व सतन्द्र नाथ व सलेन्द्र नाथ पुत्रगण हृदयनाथ व श्यामकरण ना०वा० पुत्र तारकेश्वर लायत व श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जौजे तारकेश्वर माता खुर्द ग्रामवासी
				151	निजी	कृषि	0.006	जयसिंह व राजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामाज्ञया सिंह व रामआश्रय व रामगोविन्द पुत्रगण केदारनाथ साकिम सुकरौलि
				166	निजी	कृषि	0.034	श्रीमती सुमित्रा देवी जौजे प्रमोद साकिम सुकरौलि व अमेरिका व चन्दीका पुत्रगण रामाश्रय ग्राम मुण्डेरा व तगई पुत्र मनोहर व शिवचन्द्र व सुदामा पुत्रगण कौलेसर ग्रामवासी
				174	निजी	कृषि	0.032	श्रीमती सुभावती स्त्री मार्कण्डेय व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी महेन्द्र सिंह साकिम सुकरौली व ग्राम विसम्भरपुर, चन्द्रभान पुत्र भिखारी ग्राम सुकरौलि, जोखई व सिरी पुत्रगण गब्बु सुकरौलि व रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप ग्राम बढया बुजुर्ग व मुनेसर पुत्र रामप्रसाद साकिम सुकरौलि व रामकिसुन पुत्र रामलगन ग्राम सुकरौलि, फुलमति जौजे ओम्प्रकाश ग्राम सुकरौलि, हिरा व सुदामा पुत्रगण भिखारी ग्राम सुकरौलि, भगौति पुत्र रामनारायण व श्रीमती प्रभावती स्त्री रामकिशोर ग्राम सुकरौलि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				191	निजी	कृषि	0.020	रामलक्षण पुत्र भुपनारायण व अम्बिका पुत्र विश्वनाथ व पारस पुत्र लक्ष्मी ग्राम सुकरौलि व यशोदा देवी स्त्री शंकर व बजरंगी पुत्र रामलखन व दुधई पुत्र खेदु ग्राम पिडरा व श्रीमती सुभावती स्त्री रामप्रीत ग्राम सुकरौलि
				192	निजी	कृषि	0.012	श्रीमती झिनकी स्त्री पारस ग्राम सुकरौलि
				285	सरकारी	गैर कृषि	0.016	नहर
				288	निजी	कृषि	0.060	फुलचन्द पुत्र रामवरन व रुदल व जवाहीर व रामसेवक पुत्रगण काशी ग्रामवासी व प्रेमसागर व रामसागर पुत्रगण अनुराधा सा० पिण्डरा, गोविन्द व भीमवती व रामगोपाल व रामऔतार पुत्रगण सुकादेव व मु० गीता बेबा सुकदेव ग्रामवासी
				342	सरकारी	गैर कृषि	0.017	नवीन परती
				342 / 604	सरकारी	गैर कृषि	0.025	आशा नन्द व विवेकानन्द व सैलेश कुमार पुत्रगण रामप्रताप ग्रा० वा०
				343	सरकारी	गैर कृषि	0.010	खेल का मैदान
				356	निजी	कृषि	0.040	अक्षीवर व रामपरिक्षण पुत्रगण लोदई व भागवत पुत्र चतुर्ग्रण व आशानन्द व विवेका नन्द व सैलेश कुमार पुत्रगण रामप्रताप व बालमुकुन्द व बालगोविन्द व शिवगोविन्द पुत्रगण सन्तु व श्रीनिवास व छोटेला पुत्रगण पतरु ग्रामवासी
				358	निजी	कृषि	0.110	पारस व रामनाथ पुत्रगण गोवर्धन ग्रामवासी
		(5) सुकरौली		313	निजी	गैर कृषि	0.050	श्रीमती चन्द्रावती पत्नी अयोध्या व श्रीमती नेरुदेवी पत्नी चन्द्रभान ग्रा० वा० व सुदीश व सुबाष पुत्र गण शीतल व बाबूनन्दन पुत्र इसरी व अछैबर व हरिद्वार व दुखरन व सुखराम पुत्र गण जीतू व शिव प्रसाद व हीरालाल पुत्र गण रामसुमेर व महातम पुत्र मंगरु असवैर हरिद्वार दुःखहरण सुख वगैरह अयोध्या व कालिका पुत्रगण देवीसरन व फुलमती बेबा भगवती ग्रा० बलुआ
				314	निजी	कृषि	0.040	श्रीमती इन्द्रावती पत्नी अयोध्या व श्रीमती धनेसरा पत्नी मिखारी ग्रा० सुकरौली व राम बृक्ष पुत्र मिखारी ग्रा० बेलवा व जोखू व इन्द्रदेव पुत्र गण मिठठी ग्राम गनेशपुर व अजय कुमार बिजय कुमार पुत्र गण महेन्द्र मणि ग्रा० वा० व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी ग्रा० वासी व विमोद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				354	निजी	कृषि	0.030	बैजनाथ व त्रिबेनी पुत्र गण धरमू व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी गोमल शर्मा सा0 पिपरा उर्फ तिल्ला व हरिचरण व शिवचरण पुत्र गण रामकिशुन ग्रा0 तूठी व सुबाष व गुलाब पुत्र गण गोपी व लखी चन्द्र पुत्र धुरू व श्रीमती सोमारी पत्नी रामबूक्ष व हरी पुत्र रामजी ग्रा0 वा0 व जगदीश व ि
				355	निजी	कृषि	0.010	बैजनाथ व त्रिबेनी पुत्र गण धरमू ग्रा0 वा0
				357	निजी	कृषि	0.020	श्रीमती जोता पत्नी शंकर व रामा व मंगली व शंकर पुत्र गण रामलगन ग्रा0 वा0
				358	निजी	कृषि	0.010	रामानन्द व मंगल व शंकर पुत्र गण रामलगन व परमा पुत्र रामलगन ग्रा0 वा0
				362	सरकारी	गैर कृषि	0.008	होलिका दहन
				363	सरकारी	गैर कृषि	0.015	जल मग्न भूमि
				364	सरकारी	गैर कृषि	0.015	बंजर व आबादी
				370	सरकारी	गैर कृषि	0.035	आबादी
				374	सरकारी	गैर कृषि	0.028	आबादी
				375	सरकारी	गैर कृषि	0.004	बंजर
				380	सरकारी	गैर कृषि	0.005	आबादी
				386	निजी	कृषि	0.045	महेन्द्र व नरेन्द्र व राघबेन्द्र व शैलेन्द्र पुत्र गण इन्द्रासन ग्रा0 सेमरी महेशपुर व अवधेश सिंह पुत्र राम नरेश सिंह ग्राम जगदीश पुर व बिक्रम व बलिराम पुत्र गण विश्वनाथ ग्रा0 वा0 व ध्रुवचन्द्र व मोती चन्द्र व प्रेम चन्द्र पुत्र गण रामबिलास व भगवती पुत्र राम नरायण ग्रा0 गनेशपुर
				387	निजी	गैर कृषि	0.002	प्रदीप पुत्र लक्ष्मी व विश्वनाथ पुत्र सरजू व मेघई पुत्र बघई बिकाऊ पुत्र फेकू व जितई व जिव व शिव व चौथी व गौरी शंकर पुत्र चइतर ग्रा0 वा0
				417	निजी	कृषि	0.090	नरेश व मेवा व श्रीभाषवत पुत्र गण सरयू व दयाराम व बकुनी व जयमल्ल व ओमप्रकाश व सुबाष पुत्र गण सुन्दर व संतोष व राकेश पुत्र इन्द्रजीत व लल्लन पुत्र रामस्वरूप व राम नरायण व मुंशी व सौखी पुत्र गण जंगली व राम विलास पुत्र बल्ली व सोभा पुत्र रामप्रसाद व श्रीमती मेवती पत्नी ि
								ध्रुव चन्द्र मोती चन्द्र व प्रेम चन्द्र पुत्र गण रामबिलास व बलिराम व भजुराम पुत्र गण अछैबर शर्मा ग्रा0 वासी व श्रीलाल पुत्र जयनाथ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				418	निजी	कृषि	0.016	व विन्ध्याचल व रामप्यारे पुत्र गण सुखारी ग्रा० वा० व श्रीमती गायत्री पत्नी रामआसरे ग्रा० वासी व बाबू राम पुत्र सहदेव ग्राम खेतहा व धुवचन्द्र व म
				419	निजी	कृषि	0.012	समदेव पुत्र राजबंशी व रामप्रसाद व रामप्यारे पुत्र गण तपेसवर ग्राम गनेशपुर
				420	सरकारी	गैर कृषि	0.016	नहर
				492	निजी	कृषि	0.046	अनिरुद्ध पुत्र लखन व किशोर व सरवेस्वर पुत्र गण इन्द्रदेव ग्रा० पकड़कूरा तहसील सदर गोरखपुर व डिग्री व उदयमान व त्रिन्दा व लाल प्रताप पुत्र गण गबू व अम्यानंद पुत्र लखन व ओमप्रकाश व साधू शरण पुत्र गण रामसेवक व राम लाल पुत्र गोपी व धुलपती पुत्र योगी व मोती चन्द्र प
				496	निजी	कृषि	0.008	रामविलास आदि
				497	निजी	कृषि	0.005	बिक्रम व बलिराम पुत्र गण शिवनाथ ग्रा० वा० .
				498	निजी	कृषि	0.007	रामसनेही व मिठाई व फुलबदन पुत्र गण सीताराम ग्रा० रामपुर थोहरना व उमलाल व मोती लाल पुत्र जत्तान ग्रा० हुमरी मल्लाव
				499	निजी	कृषि	0.048	चन्द्रमान व खूबलाल व बेग लाल व दिनेश पुत्र गण राम आसरे व मु० धानमती पत्नी रामआश्रय ग्रा० सुकरीली व धुरूहू पुत्र तूफानी व रामबली व हरिहर सुरेन्द्र पुत्र गण रमेश्वर व केदार पुत्र सम सिंगार व प्रेम व मोती लाल पुत्र गण मत्तान ग्रा० हुमरी मल्लाव व रामजीत व लालजी व अशोक प
				500	सरकारी	गैर कृषि	0.015	जूनियर हाईस्कूल
				516/ 632	निजी	कृषि	0.005	सुदामा व बजरंगी व राम नक्षत्र व रामहित व दिनेश पुत्रगण नेउर ग्रा० वा०
				546	सरकारी	गैर कृषि	0.005	आबादी
				547	सरकारी	गैर कृषि	0.034	बंजर
				548	सरकारी	गैर कृषि	0.078	आबादी
				565	निजी	कृषि	0.065	गौतम पुत्र रामअधार व रामप्यारे व रामचन्द्र व रमाशंकर पुत्र हीरा लाल ग्रा० वा० व महात्म व मिठाई भगवत पुत्र नेबू लाल ग्रा० बढया बुजुर्ग व मु० सावित्री देवी पत्नी रमा शंकर ग्रा० वा० व चन्द्रिका व रमेश चन्द्र पुत्र वृद्धि चन्द्र ग्राम बढया बुजुर्ग व चंद्रिका दत्तक पुत्र कन्हइया व बिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				578	निजी	गैर कृषि	0.015	चन्द्र प्रकाश व महेन्द्र व सत्येन्द्र पुत्रगण रामप्यारे व मु० साफ़ी देवी पत्नी रामप्यारे व राम हजुर व सुबाष पुत्रगण विश्व नाथ ग्रा० वा०
				610	सरकारी	गैर कृषि	0.020	आबादी
				612	निजी	कृषि	0.028	कैलाश व केदार पुत्र राजा व ओप्रकाश व बच्चा उर्फ सुरेश सकलू ग्रा० वा० व ईश्वर व प्रहलाद पुत्र रामधन ग्राम रायनपुर व मोती चन्द्र व गणेश पुत्र हरहंगी ग्रा० वा० व राम गोबिन्द पुत्र रामबली ग्रा० लेहनी व रामआधार व राम अवध व राम कवल व लाल जी पुत्र रामसन ग्रा० वा० झारखण्ड
		(6) विशुनपुर उर्फ दूठी		230	सरकारी	गैर कृषि	0.024	पाठशाला (जुनियर हाई स्कूल)
				231	निजी	कृषि	0.013	गब्बुलाल पुत्र शिव प्रसाद व शंकर व प्रद्युम्न व चन्द्रमान पुत्रगण मोतीलाल मु० जादी बेवा मोतीलाल व महेन्द्र पुत्र श्रीनिवास व मु० लाची पत्नी श्रीनिवास व अरुण कुमार बा० व अशोक कुमार ना० वा० उम्र 15 वर्ष संरक्षिका माता स्वयं व श्रीमती सुमित्रा पत्नी कल्पनाथ ग्राम बढया बुजुर्ग व हरिवंश पुत्र रामलगन ग्रा० पिपरा हुमेल व अन्य
				234	सरकारी	गैर कृषि	0.005	रास्ता
				235	निजी	कृषि	0.016	इन्द्रजीत व रामजीत व सुरेन्द्र व रविन्द्र व विरेन्द्र व हरीन्द्र व पुत्रगण अवधू ग्राम महादनपुर सिहूनियाखदेरू पुत्र सुखारी ग्रामवासी, गुलाव व विजई व धुरई व लक्ष्मन पुत्रगण परमेश्वर ग्रा० सेमरी महेशपुर, फारुख पुत्र रहमतुल्लाह व रहीम पुत्र हाजी ग्राम अवरवों, मोती पुत्र वल्देव ग्राम महादनपुर सिहूलिया, रामदुलारे पुत्र गौरी ग्रा० वा०, सरफुद्दीन बा० व अब्बास व मसलुदीन ना० वा० आयु कमशः 15 वर्ष, 11वर्ष संरक्षिका मु० जैदुननिशा माता स्वयं पुत्रगण रहीम ग्राम अवरवों, जयगोविन्द पुत्र वकील लालधर व संजय वा० व नितेश ना० उम्र 8वर्ष संरक्षिका मु० कलावती देवी माता पुत्रगण रामकेवल (पौत्र) व मु० कलावती देवी माता पुत्रगण रामकेवल (वधू) मेहर पुत्र विरखन व जवाहर व नन्दलाल पुत्रगण जगधर ग्राम महादनपुर तिहूलिया
				236	निजी	कृषि	0.006	बबलू पुत्र नुरुलहसन खाँ ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				237	निजी	कृषि	0.005	रामजी सिंह पुत्र शिवराज ग्राम लेहनी श्रीमती कौशिल्या जीजे रामदिनेश ग्राम सवना लक्ष्मण
				238	निजी	कृषि	0.006	रामानन्द पुत्र कमला सिंह ग्राम पटनी
				239	निजी	कृषि	0.006	रामनरेश पुत्र जगत नारायण ग्राम 0 पटनी, चन्द्रमान व खुवलाल व वेगलाल व दिनेश पुत्रगण रामआसरे व मु० धानमती वेवा रामआसरे ग्राम डूमरी,
				240	निजी	कृषि	0.004	रामजी व रामवेलास व रामदुलारे व रघुनाथ पुत्रगण सुनरमन ग्राम पटनी
				241	निजी	कृषि	0.006	रामअवतार पुत्र सुनरमन ग्राम 0 पटनी
				257	निजी	कृषि	0.035	भगौती पुत्र वावूराम व सुखदेव सिंह व फूलवदन सिंह व अमर सिंह पुत्रगण रामसीरी ग्राम रामपुर महारथ
				271	निजी	कृषि	0.043	रामदुलारे पुत्र ओरी व पारसनाथ पुत्र लक्ष्मी ग्राम सुकरौली व ओमप्रकाश पुत्र धूरपति व गांपाल पुत्र कमल ग्राम पिपटा हुमेल व राजकुमार पुत्र भोला ग्राम डूमरी मलाव रमेश पुत्र छेदी ग्राम रुधोपुर
				278	सरकारी	गैर कृषि	0.001	नाली
				280	सरकारी	गैर कृषि	0.001	रामदरश व रामजतन व राजेन्द्र व हरेन्द्र व अर्जुन पुत्र गण जीऊत व मु० भगमानी वेवा जीऊत ग्राम 0वा०
				299	निजी	कृषि	0.015	केदार व रामआधार व सधारे पुत्रगण भगन गुमवासी
				303	निजी	कृषि	0.008	गुलाव पुत्र पूर्णवासी ग्राम मिश्रौली, रामप्रसाद व विहारी पुत्रगण वड़ोही ग्रामवासी
				305	निजी	कृषि	0.080	दुखरन पुत्र मुरत व राजेश्वर पुत्र रामनगीना व पेशकार पुत्र दु.खरन व श्रीमती कलावती जीजे मुख्तार ग्रामवासी व प्रेमसागर पुत्र रामनवल ग्रामवासी व विक्रम पुत्र शिवनाथ ग्राम सुकरौली व गुलाव व विजयलाल पुत्रगण जिउत ग्राम गिदहा धनहॉ व हरेराम व हरेकृष्ण ना०वा० उम्र कम 11 व 8 वर्ष संरक्षिका मु० कबुतरी माता स्वयं पुत्रगण मेवालाल व श्रीमती कबुतरी वेवा मेवालाल व रामआश्रय पुत्र गजाधर ग्राम डूमरी मलाव
								जवाहर व नन्दलाल पुत्रगण जगधर सा० महादनपुर सिहुलिया व वद्रीप्रसाद व सैनी पुत्र वसन्त प्रसाद सैनी ग्राम वासगाँव जिला गोरखपुर, जनार्दन व दिनदयाल व विजयनारायण पुत्रगण दामोदर ग्राम नाउमुन्डा, विरेन्द्र पुत्र विशुनदेव ग्रामवासी, विवेक सिंह पुत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				308	निजी	कृषि	0.047	कमलेश कुमार सिंह व अभिनव कुमार सिंह पुत्र सवेन्द्र कुमार सिंह ग्राम गिदहों धनहों, रामहरख व चन्द्रमान व बब्बन तहसीलदार उर्फ सुधीर पुत्रगण श्यामसुन्दर ग्राम नाउमुन्डा, सुरेश पुत्र जिउत ग्रामवासी, मोतीचन्द्र पुत्र रामलखन व लालजी व रामगति पुत्रगण श्यामवली ग्राम नाउमुन्डा
				311	निजी	कृषि	0.050	श्रीमती दुलारी स्त्री रुदल व श्री मती रेनू पाण्डेय स्त्री सुधीर कुमार व श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्रीकान्त वड्या वुजुर्ग व श्रीमती सन्ति देवी स्त्री रामाबेलास ग्राम डुमरी मलाव व श्रीमती इसरावती देवी जौजे पूरनचन्द ग्राम हाटा व श्रीमती शास्ती देवी स्त्री जयाहरलाल नि० ग्रा० सुकरौली व विश्वकर्मा पुत्र वनवस्ती ग्राम पिपरा हुमेल व सीताराम पुत्र भागवत ग्राम वोंसगोंव हा० मु० सुकरौली व प्रेमलाल व मोतीलाल पुत्रगण मस्तन ग्राम डुमरी मलाव व श्रीमती लक्ष्मीना पत्नी रामपूत।
			(7) पिपरा उर्फ तितला	68	निजी	कृषि	0.012	निजामुद्दीन व समसूद्दीन पुत्र गण ईदन ग्रा० वा० व श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी गणेश चन्द व श्रीमती किरन देवी पत्नी कमलेश दत्त सा० पिपरा हुमेल व श्रीमती लाची देवी पत्नी रामायन सा० मुडेर खादी
				69	निजी	कृषि	0.012	नबी पुत्र सहामत व श्रीमती सुमित्रा जौजे गोमल ग्रा० किशोरी देवी पत्नी लाल धारी सा० पिपरा हुमेल
				70	निजी	कृषि	0.012	परीखन चौहान पुत्र पंचम चौहान ग्राम व राधेश्याम पुत्र भोला ग्रा० डुमरी मलाव व ध्रुवचन्द व मोती चन्द व प्रेमचन्द पुत्र गण रामबिलास ग्रा सुकरौली व श्रीमती रामजी जौजे परीखन ग्रा० पिपरा हुमेल व मो० सरीफ अन्सारी पुत्र कतवारी अली सा०पोना सोन बसरसा तत्पा राजधानी त० व जिला गोरखपुर
				71	निजी	कृषि	0.012	मदन व रामजतन पुत्र गण खेदन ग्रा० वा० व रामआसरे पुत्र श्री भागवत ग्रा० रामपुर सोहरौना व श्रीमती गीता देवी पत्नी बीरेन्द्र प्रसाद नि० ग्रा० मुडेर खाकी
				72	निजी	कृषि	0.011	श्री भागवत व श्रीनिवास पुत्रगण चरितर व श्रीमती धनेसरा पत्नी चरितर ग्रा०वा०।
				74	निजी	कृषि	0.034	सीताराम व कोदई व छोटलाल पुत्र गण विश्वनाथ व सुरेन्द्र पुत्र ब्यपारी ग्रा० व रमेश मोहन पुत्र ठाकुर प्रसाद लाल ग्रा० शहर गारेखपुर मु० अलीनगर व राजाराम पुत्र नेमू व श्रीमती हफीजुन निशा पत्नी अली शेर सा० पिपरा हुसेन
				83	सरकारी	गैर कृषि	0.003	गण्डक नहर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				92	निजी	कृषि	0.010	सुरेश चन्द्र व महेश चन्द्र पुत्र गण बदरी नारायण व श्रीमती सरस्वती पत्नी बृजबिहारी ग्रा० वा० जंगल डुमरी डोयम त० खुटहल परंगा हवेली व कु० अरचना पुत्री बिहारी ग्रा० शहर गोरखपुर मु० अलीनगर व जय प्रकाश व प्रभुनाथ पुत्र गण मुंशी ग्राम वासी व बनवारी पुत्र रामनाथ ग्राम बर्दगोलिया व श्रीनारायण पुत्र लाल बचन व मन्दू ना० 5 वर्ष सं० शकुन्तला माता स्वयं पुत्र विनोद व श्रीमती शकुन्तला पत्नी विनोद ग्रा० मुडेश
				209	सरकारी	गैर कृषि	0.010	नवीन परती
				210	सरकारी	गैर कृषि	0.011	आबादी
				216	सरकारी	गैर कृषि	0.003	रास्ता
				298	निजी	कृषि	0.230	छोट लाल व शिव शंकर पुत्र गण रामघनी सा० मुडेश खागी व श्रीमती सुमित्रा देबी पत्नी जयप्रकाश सा० पदुरी व दुर्गावती देबी पत्नी गोरख ग्रा० कुशमौटा व रामसूरत पुत्र मुसई व शिव शंकर व रमेश पुत्र गण रामजी व श्रीमती बेचना देबी पत्नी रामसूरत व धनुषधारी व तारकेश्वर व भरत व जगत पुत्र गण खदेरी सा० पिपरा हुमेल व हरि नारायण व वृज नारायण व सुरेन्द्र व अशोक पुत्र गण रामाश्रय व सिद्ध पुत्र काशी व राम नरेश पुत्र धुपई सा० मुडेश खागी व रामदेव पुत्र श्रीकिशुन ग्रा० पडरी गौरा व रामदास सिंह पुत्र खुनखुन सिंह ग्रा० मदरसन व रामजी पुत्र बिन्धयाचल व राम सुमेर पुत्र चण्डी सा० लेहनी त० बिन्दुवार व शिवहरी व देबी प्रसाद व सूर्यभान व चंद्रमान पुत्र गण चौकट ग्राम महादनपुर सिहलिया व श्रीमती बिपराजी पत्नी तेज बहादुर ग्रा० समोघर टोला कंचनपुर हा० मु० सुकरीली व गुलाब पुत्र मुनेश्वर सा० डुमरी मलाव व लल्लन शर्मा पुत्र धनू ग्रा० वा०
				312	निजी	कृषि	0.022	सुरेश चंद्र व महेश चन्द्र पुत्र गण बदरी नारायण व श्रीमती सरस्वती पत्नी बृजबिहारीह ग्रा० वा० जंगल डुमरी डोयम त० कुटहल परगना हवेली व कुमारी अरचना पुत्री बिहारी ग्रा० शहर गोरखपुर मु० अलीनगर व वारीश अल्ली पुत्र आशीक अल्ली ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				313	निजी	कृषि	0.035	आद्या पुत्र लल्लन व रामबृक्ष व सुदर्शन पुत्र गण राजाराम व रामकृपाल व रामायन व इन्द्रजीत व बिजयी पुत्र गण बिहारी ग्रा० व बदामी पत्नी शिवचरण व श्रीमती सुमित्रा पत्नी हरीचरण ग्रा० विशुनपुर उर्फ तूठी व लालचन्द व हरीशचन्द व दीपचन्द पुत्र गण जीयूत ग्रा० नाउ मुन्डा व तारकेश्वर पुत्र खदेरू ग्रा० पिपरा हुमेल व हरीशचन्द पुत्र जीउत सा० नाउ मुन्डा व श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी रामबृक्ष ग्रा० पिपरा उर्फ तिल्ला
				314	निजी	कृषि	0.097	धनुषधारी पुत्र पुनवासी ग्रा० वा० व रामआसरे व मदन व रमेश पुत्र गण हरिद्वार व सिंगारी देवी जीजे मुरारी लाल ग्रा० सुकरौली व ज्ञान व रमाशंकर व धुप पुत्र गण फुलन ग्रा० सोना परशुराम उर्फ ककवल जिला देवरिया व रेशमा देवी पत्नी राम मु० शर्मा ग्रा० डुमरी मलाव व परनीला पत्नी नगेन्द्र व कौलासी देवी पत्नी नंदलाल व पावित्री देवी जीजे लोरिक व महेश व दिनेश व गोबिन्द व योगेन्द्र पुत्र गण काशीराम ग्रा० डुमरी मलाव व रामध्यान व अछैवर पुत्र गण ठक ग्रा० चकनरायन व मंगल पुत्र रामलगन सा० रामपुर सौहरौना व जगत पुत्र भीखू सा० मुडेरं खागी व पूनम देवी पत्नी ओमप्रकाश सा० महुअवा खुदं त० व जि० गोरखपुर
				334	सरकारी	गैर कृषि	0.017	गण्डक नहर
				336	निजी	कृषि	0.078	गेना पुत्र जीतन व अंगद व शैलेश पुत्र गण मुनीब व श्रीमती मैना देवी पत्नी उदयभान व बृजराज पुत्र बिन्देश्वरी ग्रा० वा० व इंद्रीस व महबूब पुत्र गण सूधी व श्रीमती मीरा देवी पत्नी दिनेश शर्मा सा० डुमरी मलाव, बसन्तपुर व बिहारी व बिगन पुत्र गण जीरा ग्रा० घोरतप व बन्धन पुत्र पसराम व अक्षय लाल पुत्र सतन व पुनवासी पुत्र नरायण ग्रा० डुमरी मलाव
				425	सरकारी	गैर कृषि	0.009	आबादी
				426	निजी	कृषि	0.020	रमेश व मोहन पुत्र ठाकुर प्रसाद लाल ग्रा० शहर गोरखपुर मु० अलीनगर
				427	निजी	कृषि	0.074	रघुबीर व महाबीर व राप्यारे व किशुनधारी पुत्र गण उधव ग्रा०
				453	सरकारी	गैर कृषि	0.058	नबीन परती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				456	सरकारी	गैर कृषि	0.010	आबादी
				459	निजी	कृषि	0.021	कैलाश व प्रकाश व रामनिवास पुत्र गण निर्मल व श्रीमती बरसाती देवी धर्मपत्नी निर्मल ग्रा० व बिजयी पुत्र बंशलाल ग्राम महादनपुर सिन्धुलिया
				461	निजी	कृषि	0.024	राजेश पुत्र पलदू व अजीत व सुजीत पुत्र गण रामदास व लालमती बेवा सम्हारु ग्रा० वा०
				474	सरकारी	गैर कृषि	0.040	बंजर
				339 / 585	निजी	गैर कृषि	0.074	राधा कन्या इन्टर कालेज, दूरभाष केन्द्र आदि
				429	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चाहात
				475	निजी	कृषि	0.005	लालजी पुत्र रामप्रताप व रामचन्द्र पुत्र हंसा व श्रीमती कटोरा देवी पत्नी रामदुलारे व सुबाष व सरवन पुत्रगण बिल्लर व रजवंता देवी पत्नी रामकवल सा० डुमरी
			(8) डूमरी मलाव	450	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकरोड
				459	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नाली
				460	निजी	कृषि	0.030	रामजतन, तपई पुत्रगण परमेश्वर निवासी ढाढा बुजुर्ग
			(9) ढाढा बुजुर्ग	322	निजी	कृषि	0.075	अरुण शंकर सिंह व बाबू भमिशंकर सिंह ग्रा०वा० व सुधीर कुमार पु० रघुवंश कुमार ग्रा० नि०।
				323	निजी	कृषि	0.160	धनन्जय कुमार सिंह पु० रघुवंश कुमार ग्रा० जम्हारे जि० नौरंगाबाद (बिहार) हालमुकाम ग्रा०वा०।
				342	निजी	कृषि	0.062	बाबू भीमशंकर सिंह पुत्र बाबू भगीती सिंह ग्रा०वा०।
				343	सरकारी	गैर कृषि	0.028	बंजर
				344	निजी	कृषि	0.055	धानमती पत्नी रामवेलास व ठगई पुत्र जगरूप व सुरेश व श्रीराम पु० रामधारी व रामनयन पुत्र सरूप व सुन्दर व मुन्दर पु० सिनकू ग्रा०वा०।
				345	सरकारी	गैर कृषि	0.003	पोखरी
				357	निजी	कृषि	0.068	म० वरेली बेवा बीपत ग्रा०वा०
				358	निजी	कृषि	0.045	श्रीमती दुर्गावती पत्नी लक्ष्मण सा ढाढा बु०
				359	निजी	कृषि	0.046	रामसमुझ पु० भगेलू ग्रा०वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				361	निजी	कृषि	0.053	रामदास पु० इन्द्र ग्रा०वा०, जोखन पु० रामदयाल व मु०मुगा देवा रामदास स्त्री (वारिश)
				362	सरकारी	गैर कृषि	0.008	रास्ता
				370	सरकारी	गैर कृषि	0.003	चकमार्ग
				373	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
				511	निजी	कृषि	0.074	नागेश्वर पुत्र कालिका ग्रा०वा०, मदनलाल व रतनलाल व रामगोपाल पे० महादेव ग्रा०वा० असमहर हा०मु० ढाढा बु०, रमाशंकर व दयाशंकर, कृपाशंकर पे० श्रीधर व हरिशंकर पु० आदित्यनाथ ग्रा०वा०।
				525	निजी	कृषि	0.095	सिधू व बुद्ध पे० पतिराम व बुझावन पु० वंशी, राम सुरेश व रामनरेश रामप्रवेश पे० मोतीलाल, हीरा व प्रहलाद व मिलू पे० गिरधारी ग्रा०वा०, मुवेन्द्र व उपेन्द्र सुरेन्द्र पे० विपिन बिहारी ग्रा०वा०, राजबली पु० बब्बन ग्रा०वा०, कैलाश पुत्र सुरपदेव नि० मानपुर हाल पु० हाटा, श्रीमती जैबुन निशा पत्नी वारिश अली सा० तेलगावा व श्रीमती इन्द्रावती जीजे रामाशम व श्रीमती चन्द्रावती जीजे करोड़ी नि० पटनी, बुद्ध व ठकुरि व तुलसी पे० सन्तू व सूनिल कु०, अनिल कु०, देवानन्द पु० शंकर व महेन्द्र व राम नरायन पे० हरिहर ग्रा०वा०, रामजी पु० मन्तू ग्रा०वा०, रमाशंकर व दयाशंकर, कृपाशंकर पे० श्रीधर व हरिशंकर पु० आदित्यनाथ व तपेन्द्रनाथ निखास पु० निर्मल चन्द ग्रा०वा० व ओमप्रकाश व रामविनोद मल्ल श्रीनिवास मल्ल, हरिविन्दर मल्ल पु०ग० रामअवध मल्ल ग्रा०वा०, सिलिंग भूमि।
				525 / 1575	सरकारी	गैर कृषि	0.061	आवादी
				528	सरकारी	गैर कृषि	0.017	आवादी
				531	निजी	कृषि	0.031	नगेश्वर पु० कालिका ग्रा०वा०, मकेश नरायन पु० पराग ग्रा०वा०, रामशंकर पु० पराग ग्रा०वा०, रमाशंकर व दयाशंकर, कृपाशंकर पे० श्रीधर व हरिशंकर पु० आदित्यनाथ ग्रा०वा०, श्रीकृष्ण पु० मुन्नर ग्रा०वा०, त्रयम्भक पु० पराग ग्रा०वा०, रामचन्द्र पु० वंशी ग्रा०वा०, सुधाकर पु० वंशी ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				532	निजी	कृषि	0.010	ठगई पु० रामअधार ग्रा० वा० ढाढा खुर्द, मैना देवी जीजे पत्रिका ग्रा० रामपुर सोहरीना।
				617	सरकारी	गैर कृषि	0.003	नाली
				651	निजी	कृषि	0.024	कामाख्या नारायण पु० वासदेव ग्रा०वा० हाटा।
				652	सरकारी	गैर कृषि	0.012	बंजर
				655	निजी	कृषि	0.061	शिवाजी चन्द पु० रामकिशोर चन्द नरेहरिगढ जिला गोरखपुर हाटा मु० ढाढा बु०
				674	निजी	कृषि	0.044	राधेश्याम पु० सत्यनारायण ग्रा०वा० व उमाशंकर अजय कु० व हरिद्वार पे० रमानन्द महेडूबेवा राधेश्याम पत्नी बगिश
				703	निजी	कृषि	0.002	तिलकधारी व हीरा पुत्र गण कान्ता जौजी व जयप्रकाश पुत्र गण पलकधारी व जयप्रकाश पुत्र गण पलकधारी ग्रा० वा०
				707	निजी	कृषि	0.019	रामसूरत पुत्र भगीती पु० मुन्द्रिका (लडका), धन्नजय कुमार सिंह पु० रघुवंश कुमार ग्राम जम्हारे जिला नौरंगाबाद (बीहार) हालमुकाम ग्रा०वा०
				708	निजी	कृषि	0.030	भगीली व नर्वदा पु०ग० तप्पी ग्रा०वा०
				723	निजी	कृषि	0.030	अरुण शंकर सिंह व बाबू भमिशंकर सिंह ग्रा०वा० व श्रीमदन पुत्र नादू व अवधविहारी व इन्द्रासन व कैलाश व लक्ष्मण पु० बाबूराम व मिश्रपितामह पुत्र बलभद्र नि० करमहा उपग्राम।
				727	निजी	कृषि	0.040	वनियादी व तपसे, साधू पे० नेपाल, सुरजीत पु० विजय बहादुर अवयस्क पे० साधू बलायत साधू पिता (हकीकी) महेन्द्र श्री भगवत पे० तपसी फेकू पु० सम्भूल ग्रा०वा०
				733	निजी	कृषि	0.042	नागमती पत्नी रामवेलास व ठगई पुत्र जगरूप, सुरेश व श्रीराम पे० रामधारी व रामनयन पुत्र रूप ग्रा०वा०।
				736	निजी	कृषि	0.010	औतार पुत्र गोपी ग्रा०वा०।
				737	निजी	कृषि	0.015	पौहारी पुत्र भुलई ग्रा०वा०
				740	निजी	कृषि	0.020	बेचन पुत्र चौथी ग्रा० वा०
				743	निजी	कृषि	0.032	बाबूलाल व गुल्ली पे० रामलगन व मिश्री सिंह व रामकिशोर सिंह पे० शिवराज व रामलाल व कोदई रामसेवक पे० वंशी व गुलाब पु० जमुना ग्रा०वा० मुख्तार सिंह व रामनेती सिंह पे० रामचन्द्र सा० रोहुआ मछर गांव।
				746	निजी	कृषि	0.031	पौहारी पुत्र जुड़ावन ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				747	सरकारी	गैर कृषि	0.060	नाली गूल
				903	निजी	कृषि	0.050	रामनरेश पुत्र रामअध्व ग्रामवा०, योगेन्द्र व भगवान व रामेश्वर पे० रामकिशुन ग्रामवा०, गिरधारी व भभूती पे० गोवरी व सिगासन व अनन्त पे० वनवारी व रामसनेही व रामनरेश व रामगनेश पे० भगौती ग्रामवा०, बलदेव पु० लालचन्द ग्रामवा० व भोला पु० गोपाल ग्रामवा०, रामगोविन्द पु० जियन ग्रामवा०, हरि प्रसाद पु० सुकई ग्रामवा०, सिलिंग भूमि, आवादी।
				947 / 1566	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बशीर व बकरीदन पुत्रगण डोमा व किस्मत व नजीर व खारीद पुत्रगण जान मोहम्मद व मंजूर व भूलन पुत्रगण शम्भूल व वाहिन पुत्र दिल मोहम्मद व हदीस व मजीद व हामीद व रसीद पुत्रगण बल्ली, जब्बूदीन बेवा लाल मोहम्मद ग्रामवासी
				951	निजी	कृषि	0.002	दुर्गा पुत्र मंगनू कुकुर पुत्र चोकट, भददर पुत्र दीलत व राम सूरत पुत्र अलगू व सूर्यभान राम दुलारे संजय पुत्रगण अलगू
				954	निजी	कृषि	0.017	हरिप्रसाद व मिठाई प्रसाद पे० चन्द्रवली ग्रामवा०।
				1372	सरकारी	गैर कृषि	0.020	नहर
				1409	निजी	कृषि	0.004	भागवान पु० बजी मुन्सी व भभूति व कमला पे० सूत्रधारी ग्रामवा०, सुकदेव, जोगी, गोपाल, राजवंशी, बुधई रामकेवल पे० मिश्री व रामहश, रामरक्षा पे० सुकई सांगारी पिचाड़ी पे० लक्ष्मन नि०ग्राम०,
				1412	सरकारी	गैर कृषि	0.012	आवादी
				1155	सरकारी	गैर कृषि	0.005	दीनानाथ सिंह पु० देवी सिंह ग्रामवा०।
				739	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
			(10) डाढ़ा खुर्द	541	सरकारी	गैर कृषि	0.003	नाली
				684	सरकारी	गैर कृषि	0.004	सुकई व रूपई पु०ग्राम० रामरूप ग्रामवा०।
				725	निजी	कृषि	0.080	बाबू भीमशंकर सिंह पु० बाबू भगौती सिंह ग्रामवा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				727	निजी	कृषि	0.050	वनियादी व तपसे, साधू पे० नैपाल, सुरजीत पु० विजय बहादुर अवयस्क पे० साधू वलायत साधू पिता (हकीकी) महेन्द्र श्री भगवत पे० तपसी फेकू पु० सम्फूल ग्रा०वा०
			(11) थरुआडीह	288	निजी	कृषि	0.058	दुनपुन व धुगुन व सुकई पे० सुन्दर ग्रा०नि०।
				348	निजी	गैर कृषि	0.008	भृगुनाथ व चन्द्रकान्त पे० रामदास, गामा, राजेन्द्र पे० बृजराम त्रिवेनी, हीरा प्रसाद व काशी पे० इन्द्रासन व भगौती पु० रामसेवक व रामनरेश पु० कुवरे ग्रा०नि०, नाली।
				354	सरकारी	गैर कृषि	0.028	रास्ता
				355	निजी	कृषि	0.115	रूपई पु० चन्द्र, रामनरेश, महात्म पे० केशी ग्रा०वा० संतोषचन्द्र पु० चन्द्रिका नि० लक्ष्मीपुर व श्रीमती केवली पत्नी विद्याचल व श्रीमती लक्ष्मीना पत्नी राजेन्द्र श्रीमती मोतीसरा देवी पत्नी छेदी ग्रा०वा० श्रीमती रेशमा देवी जौजे सुरेन्द्र सिंह, सुरेश पु० वंशी मिश्र ढाढा।
				358	निजी	कृषि	0.053	रामहंस व महेश वनवारी व जगदीश पे० देवनन्दन व हीनानाथ व सुमन्त पे० मोहन व श्रीमती हवन्ती पत्नी मोहन ग्रा०वा०। वनधन व जालान पे० राहंस व रामप्यारी बेवा रामहंस ग्रा०वा०।
				359	निजी	कृषि	0.077	भागीरथी पु० विश्वनाथ व श्रीमती केवली देवी पत्नी श्री विद्यमान सिंह ग्रा० थरुआडीह, सेतवान व सुदामा पे० बन्धू सुरेश मेशिया व मोहन मद्देशिया व प्रमोद मद्देशिया पे० जयकिशुन मद्देशिया नि० सोनवरसा।
				361	निजी	कृषि	0.039	बुंधू व रंगलाल रामवेलास पे० विन्देश्वरी व सुरेन्द्र व संजय पे० वैताली श्रीमती देवराजी पत्नी पैताली ग्रा०वा०।
				362	सरकारी	गैर कृषि	0.030	काली स्थान
				363	निजी	कृषि	0.016	कमला प्रसाद पु० रामराज हाटा, श्रीमती सिमिरेखा देवी पत्नी कृपानारायन ग्रा०नि०।
				367	निजी	कृषि	0.048	श्रीमती कौजरिया पत्नी हिरावन ग्रा०वा० रामचन्द्र, वलिचरन पे० रामगस (लड़का) वारिश) व श्रीमती लमती उर्फ लमती जौजे रामप्यारे सा० चतुरचन, दुवरी पु० रामलगन व भावत पु० लोहर व चन्द्रिका पु० रामनाथ लक्षुमन व श्रीनारायन व हरिराम पे० हिरामन ग्रा०नि० श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी बुलजिज, नि० हाटा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				371	सरकारी	गैर कृषि	0.085	बंजर
				289	सरकारी	गैर कृषि	0.020	रास्ता
				327	सरकारी	गैर कृषि	0.050	नवीन परती
				328	सरकारी	गैर कृषि	0.006	चकमार्ग
				329	निजी	कृषि	0.045	भागीरथी पु० विश्वमाथ व श्रीमती केवली देवी पत्नी श्री विन्ध्याचल सिंह ग्रा० धरुआडिह
				330	निजी	कृषि	0.035	श्रीमती कलावती देवी पत्नी हीरा व श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी कन्हैया लाल हाटा, चन्द्रेश व रमेश पु० ग्रा० श्रीकान्त नया० हाटा।
				342	सरकारी	गैर कृषि	0.060	खलिहान
				1145	निजी	कृषि	0.115	जीतन लाल पुत्र राजकिशोर लाल विन्धवासिनी लाल व महातम लाल पुत्र गण भगवती लाल व ललित कुमार पुत्र सुरेश नारायन लाल अमरनाथ लाल पुत्र जगदीश नारायन लाल व श्रीमती सोना देवी पत्नी अशोक कुमार नि० ग्रा० बागनाथ
				1146	निजी	कृषि	0.030	जीतन लाल पुत्र राजकिशोर लाल विन्धवासिनी लाल व महातम लाल पुत्र गण भगवती लाल व ललित कुमार पुत्र सुरेश नारायन लाल अमरनाथ लाल पुत्र जगदीश नारायन लाल व श्रीमती सोना देवी पत्नी अशोक कुमार नि० ग्रा० बागनाथ
				1167	निजी	कृषि	0.008	रामनरेश पुत्र सूर्यवती व रामसुमग पुत्र कुमार व परसन व मैनेजर पुत्र गण मुख्तार व श्रीमती जागी पत्नी मुख्तार ग्रा० नि०
				1170	निजी	कृषि	0.024	बेचू व राधेश्याम व धनश्याम पुत्र गण रानीधि ग्रा० नि०
				1171	निजी	कृषि	0.042	सतनरायन व शिवधर व सत्यदेव पुत्र गण शीतल व रामचन्द्र पुत्र सुखदेव व रामदास पुत्र किशुन व रवीन्द्र व हरीन्द्र व वीरेन्द्र पुत्र गण शिधर व रामनयन पुत्र गागू ग्रा० नि०
				1172	निजी	कृषि	0.049	सतनरायन व शिवधर व सत्यदेव पुत्र गण शीतल व रामचन्द्र पुत्र सुखदेव व रामदास पुत्र किशुन व रवीन्द्र व हरीन्द्र व वीरेन्द्र पुत्र गण शिधर व रामनयन पुत्र गागू ग्रा० नि०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1173	निजी	कृषि	0.064	ऋषश्वर व सुरेश व राजेश पुत्र गण सरयू व भृगुनाथ व गणेश व दिनेश पुत्र गण नर्बदा व जमुना व चंद्रिका व चंद्रकाभान व चन्द्रमणि व उदय भान पुत्र गण रामदेव व अशोक कुमार व विनोद कुमार व विजय कुमार व सरस्वती व अखिलेश ना० उम्र 13 वर्ष सं० श्रीमती सनेना माता पुत्र महेन्द्र व श्रीमती सुनेना पत्नी महेन्द्र ग्रा० वासी व जगदीश व जयराम व अवधेश व संजय व धनजय पुत्र जमुना
				1177	निजी	कृषि	0.032	रामपति उर्फ रमाकान्त पुत्र दिपई व रबीन्द्र बहादुर पुत्र राम नक्षत्र व श्रीमती बिलासी देवी पत्नी रामनक्षत्र नि० रामपुर गौनरिया व महातम उर्फ हरिशंकर पुत्र अष्टंबर नि० रामपुर गौनरिया व चिरई पत्नी रामदरश निवासी धिगौना व छोटलाल व लल्लन पुत्र गण हरिशरन निवासी धरमौली व रामदेव पुत्र परमेश्वर व श्रीमती गायत्री देवी पत्नी सीताराम व राधे वर्मा पुत्र दलसिंहार सा० विक्रम विशुपुर
				1181	निजी	कृषि	0.025	ललीत कुमार पुत्र सुरेश, नारायण लाल, अमरनाथ लाल पुत्रगण जगदीश नारायण लाल, अशोक कुमार पुत्र दयाशंकर लाल निवासी बाघनाथ
				1182	निजी	कृषि	0.025	श्रीमती कुन्ती सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह साकिन बगुईया हरकुल मुकाम थरुआडीह व श्रीमती फुलराजी देवी पत्नी रमाशंकर व श्रीमती मरियम निशा पत्नी हाकिम निवासी सिरसिया पाण्डे व अमरनाथ लाल पुत्र जगदीश नारायण लाल निवासी बाघनाथ
			(12) बागनाथ	71	निजी	कृषि	0.071	राम वक्स, महावीर पुत्रगण सरजू व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामप्यारे व विष्णू दयाल, मुख्तार पुत्रगण राम लारे व लाल जी पुत्र राम जतन नि० थरुआडीह
				72	निजी	कृषि	0.050	राम वक्स महावीर पुत्र गण सरयू व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामप्यारे व विष्णू दयाल मुख्तार पुत्र राम लारे व लाल जी पुत्र राम जतन व परमा व ठगई प्रसाद व राम प्रसाद पुत्र गण वृज भूषण ग्रा० नि० थरुआडीह
				73	निजी	कृषि	0.080	परमा प्रसाद व ठगई प्रसाद राम प्रसाद पुत्र गण वृज भूषण नि० थरुआडीह
				77	निजी	कृषि	0.063	नरसिंह पुत्र परमहंस ग्रा० थरुआडीह श्रीमती अमरावती देवी पत्नी ओंकार नाथ
				80	सरकारी	गैर कृषि	0.001	नाली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				84	निजी	कृषि	0.040	आमप्रकाश पुत्र श्रीचन्द्र श्रीमती गायत्री देवी पत्नी केदार नाथ व श्रीमती किरन देवी पत्नी लाला प्रसाद साकिर मदनपुर हा0मु0 हाटा व साधना जयसवाल पुत्री गया साकिर सिसवा महाराजगंज हाल मुकाम हाटा
				93	निजी	कृषि	0.130	असगर अली पुत्र गुल मुहम्मद ग्रा0 पडरी गुलाब व श्रीनिवास मोहन लाल पुत्र गण रामचन्द्र व बुनेला सिंह सूजीत सिंह पुत्र गण चन्द्रबली सा0 अरजुन डीहा त0 कटौरा व विश्वनाथ पुत्र शिव लोचन ग्रा0 नि0 व लाल जी पुत्र जीयूत व शंकर व राधेश्याम चुन्नी लाल पुत्र गण बल्ली
				134	सरकारी	गैर कृषि	0.072	पशु अस्पताल
				137	सरकारी	गैर कृषि	0.026	डाक बंगला सरकारी राजकिशोर पुत्र छैबर नि0 बागनाथ
				138	निजी	कृषि	0.018	प्रदीप कुमार व वृजेश व प्रमोद व आन्नद कुमार पुत्र गण जीतन लाल लडके व श्रीमती राधिका देवी पत्नी स्व0 जीतन लाल विन्दवासनी लाल व महातम लाल पुत्र गण भगवती लाल ग्रा0 नि0 विशुनजीत व बिनोद कुमार पुत्र गण सूर्य नारायण लाल व अशोक कुमार व मनोज कुमार पुत्र गण हृदय नारायण लाल ललित कुमार पुत्र सुरेश नारायण लाल व अमरनाथ पुत्र जगदीश नारायण लाल ग्राम निवासी व दयाशंकर लाल पुत्र विन्ध्याचल लाल निवासी मुन्डेश लाल
				139	निजी	कृषि	0.020	ललित कुमार पुत्र सुरेश व रामन लाल व अमरनाथ पुत्र जगदीश नारायण लाल ग्राम निवासी व दयाशंकर लाल व विन्ध्याचल लाल ग्राम मुन्डेश लाला व श्रीमती ललिता देवी पत्नी दीपक प्रसाद साकिर विशुनपुरा सिंहपुर
				140	निजी	कृषि	0.032	ललित कुमार पुत्र सुरेश नारायण लाल व अमरनाथ लाल पुत्र जगदीश नारायण लाल ग्रा0 नि0 दया शंकर लाल पुत्र विन्ध्याचल नि0 मुन्डेश लाला व शैलेश कुमार व विरेन्द्र कुमार पुत्र राम जी व अजीत कुमार पुत्र शिवपूजन व उपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण जी ग्रा0 नि0 श्रीमती श्यामादेवी पत्नी गनेश प्रसाद व दीनानाथ पुत्र द्वारिका ग्रा0 निवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				152	निजी	कृषि	0.020	जउत देवी पत्नी बलिभदर व प्रभुनाथ पुत्र चन्द्र सिंह निवासी हाटा व किशोरी लाल पुत्र सूर्यवली लाल व नेबू लाल पुत्र महादेव व हरि लाल पुत्र जगननाथ ग्रा० किस्वा व श्रीमती वास मती पत्नी काशी ग्रा० रामपुर वजुर्ग व श्यामाबिहारी पु० नरसिंह यादव सा० पुरहवा त० परवरपार
				154	निजी	कृषि	0.050	बेचन व महेन्द्र पुत्र छांगुर व मंगल पुत्र शिवटहल ग्रा०वा० श्रीमती अकली देवी पत्नी हीरा प्रसाद सा० थरूआडीह व अवधेश ति० पुत्र रामदरश ति० नि० पिपरा ति० व श्रीमती प्रेमशीला देवी पत्नी श्रीकान्त सिंह, ग्रा० बेलवा व सुरेश कुमार पुत्र श्री किशुन नि० हाटा ।
				155	निजी	कृषि	0.030	श्रीमती अनारी देवी पत्नी शंकर शर्मा निवासी रामपुर बुर्जग हाल मुकाम हाटा व श्रीमती विमला जयसवाल पत्नी कृष्णमोहन साकिन देवरिया हाल मुकाल बागनाथ, श्रीमती कान्ती ती० पुत्री जमुना ती० व राम विलास राम प्यारे अशोक कुमार पुत्र गण श्याम लाल ग्राम निवासी व श्रीमती गेना देवी पत्नी हिरावन सिंह व पु० श्रीनाथ सिंह साकिन बागनाथ गेहन सिंह पुत्र सालिख सिंह सा० चरियाव हाल मुकाम बागनाथ व रमावती देवी पत्नी सुदामा सिंह निवासी सहवागपुर
				158	निजी	गैर कृषि	0.196	अशोक कुमार अनिल कुमार अमित कुमार पुत्रगण रामअषीख लाल ग्रामनिवासी सुधई बृजमोहन पुत्र महावीर व किशोर व उत्तम व बाबूलाल पुत्रगण चोकट व श्रीमती प्रभावती पत्नी उमेश व मेरुन निशा पत्नी मेहदी हसन ग्रामनिवासी व श्रीमती विद्यावती पत्नी कुबेर ग्राम सिसवां हाल मुकाम हाटा, अनिरुद्ध पुत्र बलिराज ग्रामवासी व रामप्रवेश व केशवलाल व रामप्रमोद पुत्र भोला साकिन भेसवा श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी दिवाकर पाण्डे व श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी हजारी लाल व श्रीमती सुनैना देवी पत्नी सूर्यभान व श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी अलगू राव साकिन मिश्र ढाढ़ा श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी लालजी ग्रामवासी श्रीमती गुलेची देवी पत्नी कृपाशंकर लाल उपाध्याय ग्रामवासी जगदीश पुत्र मनरूप रामजी व रामहरक व हरीओम पुत्रगण कोमल श्रीमती लाखी पत्नी कोमल ग्राम रामपुर बुजुर्ग श्रीमती जान्हा पत्नी पत्नी मोती व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>बन्धु व मन्नु पुत्रगण चौकट ग्रामवासी श्रीमती तारादेवी पत्नी श्रीभागवत ग्राम रामपुर पारसनाथ पुत्र घुरहु ग्राम ढाढ़ा खुर्द श्रीमती फुलादेवी पत्नी रामरती ग्रामवासी व विश्व प्रताप व शम्भू प्रताप व कमलेश प्रताप व अजय अवयस्क आयु 15 वर्ष संरक्षिका श्रीमती प्रेमलता पुत्र रमेश व श्रीमती प्रेमलता पत्नी रमेश ग्राम रधिया देवरिया व विरेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद व परमहंस व उमाशंकर पुत्रगण लवट्टु चन्द्रभान व चन्द्रशेखर व उमेश चन्द्र पुत्रगण सुरजुन व चन्द्रिका व उपेन्द्र व नागेन्द्र पुत्रगण पुरजन व श्रीमती उषरा उर्फ इन्द्रायती पत्नी दुर्जन निवासी अर्जुन डिहा श्रीमती बादामी देवी पत्नी राजेन्द्र व श्रीमती असर्फी देवी सबजीत ग्रामवासी व बच्चन पुत्र खुरखुर व शुखी चन्द व गुलाब चन्द पुत्रगण श्यामलाल व रमेश कुमार पुत्र माला प्रसाद व हरीशचन्द्र पुत्र विशुन ग्राम करती जिला बलिया व मारकण्डे व</p> <p>अरविन्द कुमार व बृजेश कुमार व बागीश कुमार पुत्रगण श्याम बिहारी ग्राम कुरमौटा रामआसरे व सुन्दर व रामप्रवेश रामनरेश पुत्रगण बाबूराम ग्रामवासी व श्रीमती रामकली पत्नी उमाशंकर ग्राम अहिरौली तुलादास व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्याम बिहारी ग्राम सुकरौली व रामआसरे व सुन्दर प्रसाद व रामनरेश पुत्रगण बाबूराम ग्रामवासी व रामप्रवेश पुत्र भोला व राजेश व संजय व अरविन्द पुत्रगण हीरा तारा देवी पत्नी हरहंगी व गौरी शंकर व रमाशंकर व अनिल व सुनील व छट्टू लाल पुत्रगण राम गोविन्द (लडके) धरमेन्द्र व विवेक पुत्रगण गिरीजा शंकर (पौत्र) श्रीमती अनारी देवी पत्नी गिरीजा शंकर ग्रामवासी</p>
				183	निजी	गैर कृषि	0.015	श्रीमती कैलाशी पत्नी कैलाश प्रसाद गुप्त
				184	निजी	कृषि	0.010	रमावती देवी पत्नी राम गोविन्द निवासी थरुआडीह व गौरी शंकर रमाशंकर अनिल सुनील व क्षट्टू लाल पुत्र गण राम गोविन्द व धरमेन्द्र व विवेक पुत्र गिरजा शंकर व श्रीमती कलरा देवी पत्नी गिरजा शंकर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				195	निजी	कृषि	0.025	अशोक कुमार अनिल कुमार अमित कुमार पुत्र गण राम अशीश ग्राम निवासी सुधई व ओमप्रकाश व मनोज कुमार पुत्र गण मोती व रमाशंकर व राम रक्षा राम नेती सिंह पुत्र गण मिश्री सिंह निवासी विशुनपुरा , लिलावती देवी पत्नी रामजीत निवासी मोती पाकर कबिल सहा त0 सीलपुल विलायती देवी पत्नी लक्ष्मन व गोपाल पुत्र बगेदन गम निवासी व राआशरे व प्रदुमन पुत्र गण भण्डारी निवासी ढाडाखुरद व मोहन व सुबाष पुत्र गण राम वृक्ष निवासी कटलवा , वृधूराम व राम आधार व केवल व अनिरुध पुत्र गण शकलू निवासी ग्राम खजवा व वीटैन लाल सोहन लाल सोनू व चिन्द्रिका पुत्र गण पुनवासी
				195 / 873	निजी	कृषि	0.010	ओमप्रकाश पुत्रगण मोती ग्रामवासी
				195 / 874	निजी	कृषि	0.005	मिश्री पुत्र माधव निवासी विशुनपुरा
				196	निजी	कृषि	0.070	कैलाश पुत्र दुखी ग्राम हाटा रामपत व रामवचन रामप्रसाद पुत्र गण बैजनाथ निवासी भगवानपुर ,श्रीमती वासमती देवी पत्नी काशी निवासी रामपुर बुर्जग चन्द्रभान पुत्र चिल्लर निवासी करज , श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी रामबचन ग्राम ढाडा बुर्जग व रमाशंकर पुत्र धरम व श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी रमाशंकर व राजेन्द्र बा0 राजेश ना0 उम्र 16 सं0 मु0 इन्द्रवाती मातास्वयं पुत्र गण मिश्र जय श्री राम किशोर व श्री भागवत पुत्र गण दुरबल कैलाश पुत्र सरयू व रामभवन पुत्र मोहर व जयश्री रामअवतार पुत्र गण मूरत ग्रा0 नि0
				197	निजी	कृषि	0.042	कन्हैया व मानिक व सुकुल व प्रहलाद व इन्द्रजीत व दीनानाथ नाबालिग वली माता खुद पुत्रगण जागू व विजय प्रताप व चन्द्र प्रताप पुत्रगण गजाधर सिंह व लाल बाबू व प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामबली निवासी विशुनपुरा व बदरू निशा पत्नी साकिन अली सुभावती पत्नी प्रसिद्ध नारायन वली पुत्र महावीर ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				198	निजी	कृषि	0.100	<p>हीरा रंगी पुत्र गण नरायन , चांदबली व ठगई मु० निशा व इस्लाम व सौदागर व शेर मु० व मु० रफीक फेकू , आम्बिका सिंह व हिरामन बाबू लाल सिंह व साहब सिंह पुत्र सुरजन सिंह शाकिन रामपुर मिश्र व अनिल कुमार सिंह पुत्र लल्लन सिंह व श्रीमती लीलावती विधवा लल्लन सिंह व शरीस सिंह पुत्र मुख्तार सिंह श्रीमती सुराती देवी पत्नी मुख्तार सिंह जगन्नाथ पुत्र श्यामलाल निवासी लक्ष्मीपुर प्रसिद्ध नारायण पुत्र तिलकधारी निवासी पिपरा त० परवरवापार,शंकर प्रसाद व राधेश्याम व चुन्नी लाल पुत्र गण वली व विन्धवासिनी पुत्र छेदी लाल निवासी पिपरासीन त० सांडी मुस्ताक अहमद अजाज अहमद निशार अहमद शफराज अहमद संपित अली अंसारी ग्राम निवासी ,रंगी पुत्र नरायण व रमेश व संजय व अरविन्द पुत्र गण हीरा निवासी ग्राम हरिपुर श्रीमती सुभावती देवी पत्नी प्रसिद्ध नारायण निवासी पिपरा पोस्ट सुकरोली</p>
				199	निजी	कृषि	0.016	<p>अमिका सिंह वहिरामन सिंह व बाबूलाल सिंह व साहब पुत्रगण सुरजन सिंह व अनिल कुमार सिंह पुत्र लल्लन सिंह व श्रीमती लीलावती पत्नी लल्लन सिंह व शक्ति सिंह पुत्र मुख्तार सिंह व श्रीमती सुराती पत्नी मुख्तार सिंह साकिन रामपुर व रामबृक्ष रामरक्षा पुत्रगण बदरी व अमर नाथ व विजय प्रताप पुत्रगण रामरतन निवासी ग्राम थरूआडीह</p>
				201	निजी	कृषि	0.013	<p>रामसकल व गंग व ओम प्रकाश पुत्रगण बंशी व श्रीमती घुरला व बंशी व मोती पुत्रगण धनराज व सीताराम पुत्र रघुवीर साकिन मुन्डेश श्रीमती कलावती पत्नी रणजीत छेदी व नरसिंह पुत्रगण दुखहरन ग्राम मदरहा व अब्दुल अजीज व वलायत हुसेन व अली मोहम्मद पुत्रगण रोजा ग्राम पुडवा श्रीमती मंतरी देवी पत्नी बाबूराम व श्रीमती सुनेना देवी पत्नी रामप्रित साकिन हाटा व जलालुदीन पुत्र सुरजन साकिन लालीपार व श्रीमती विमला देवी पत्नी उमेश साकिन अवरघौरी हाल मुकाम बाघनाथ व राम नारायण व प्रेम नारायण पुत्रगण सीताराम व समोगर व सुधीर सिंह पुत्रगण रामाश्रय सिंह साकिन बरवां</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				204	निजी	कृषि	0.013	बनहू व मन्नू पुत्र गण चोकट व लाल बचन व श्रवण व नेबू लाल व बिजय व विकाउ पुत्र गण..... ग्राम निवासी व राजकिशोर मिश्र पुत्र छेबेर मिश्र निवासी हाटा सन्हू राम अवध पुत्र गण चौथी ग्राम निवासी व राजकिशोर पुत्र छेबेर ग्राम निवासी
				213	निजी	कृषि	0.042	अनुरूध पुत्र बलिराज व रामविलास दीननाथ व रघुनाथ पुत्र गण सुन्दर श्रीमती तीजा देवी पत्नी लाल बहादुर निवासी अहिरौली व श्रीमती विमलावती पत्नी ओमप्रकाश निवासी हाटा व किशोरी देवी पत्नी विश्वनाथ लाल निवासी मुकुन्दपुर व बंका पुत्र रामधरी व चंद्रभूषण व संजय व विकास सुबोध पुत्र गण चंद्रिका व श्रीमती शान्ती देवी व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी गण चंद्रिका साकिन नरायन पुर व अली मो० व अब्दुल कयूम पुत्र गण नियामत युल्ला साकिन पिपरहिया व सलमान व अमीर ना० आयु 10 व 7 वर्ष संरक्षिका मु० मुस्फगुतुकुत माता सेन पुत्र गण अब्दुल्ला पुत्र इन्तजाम निवास सागा हाल मु० हाटा व श्रीमती कुशमवती
				223	निजी	कृषि	0.020	बागीश दत्त व विश्वनाथ पुत्र गण यमुना व सतनरायन पुत्र रामप्यारे ग्राम निवासी विन्धवासिनी पुत्र छेदी लाल निवासी पिपरासी त० साडी
				226	सरकारी	गैर कृषि	0.166	विकास खण्ड
				228	निजी	कृषि	0.050	श्रीमती बादामी देवी पत्नी सुखनंदन निवासी ढाणाखेर श्रीमती मीरा देवी पत्नी प्रेम चन्द्र निवासी हाटा अवधिपति पत्नी रमाशंकर व श्रीमती लीला देवी जयजयराम प्यारे व श्रीमती राम सिंघारी देवी जय जय शिव शंकर निवासी सबना परशुराम श्रीमती प्रभावती देवी व श्रीमती विमला देवी पुत्री गण जय शंकर लाल नलकूप
				248	सरकारी	गैर कृषि	0.181	नहर कालोनी
				252	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नाला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				256	निजी	कृषि	0.024	रामदशरथ व रामरक्षा पुत्र गण सुकई ग्रा० ढाडा बुजुर्ग व दयालाल व रबीन्द्र व छोटेलाल पुत्र गण भीम व शिवमंगल व श्रीराम व बलराम पुत्र गण श्यामाचरण व श्रीमती गुणराजी पत्नी श्यामाचरण ग्रा०वा० धरूआडीह
				260	निजी	कृषि	0.063	महातम पुत्र राम बली ग्राम निवासी कैलास पुत्र लगन निवासी थरूआडीह व शमशूदीन मुनसपफ पुत्र गण अहमद निवासी पिपरावल सिवान श्रीमती कबूतरी पत्नी राधेश्याम सत्यनरायन पुत्र रेखा व ओम प्रकाश पुत्र रामधारी ग्राम निवासी व राजमन प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद साकिन मिश्र ढाडा पुनवासी पुत्र बाबू लाल ग्राम नरायनपुर व सतनरायन पुत्र रेखा व असरफी पुत्र सीरी निवासी ग्राम सिधावल
				475	सरकारी	गैर कृषि	0.038	नहर
				229	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाली
				203	निजी	कृषि	0.004	रामसकल व गंगा व ओमप्रकाश पुत्रगण बंशी वगैरह
		(13) देवरिया		30	निजी	कृषि	0.010	बच्चा सिंह व रबीन्द्र प्रताप सिंह व मदन सिंह पे० कामता व बूजनारायन पुत्र जयमंगल व पुरुषोत्तम व जोगेन्द्र पुत्र सूर्य नरायन पौत्र व तेजबहादुर व बिजय बहादुर पुत्र रघुनंदन व नरसिंह पुत्र महाराज व अमरजीत व युष्टिर व बिनोद व प्रमोद पुत्र दिलराज व शम्भू व त्रिभुवन पुत्र भागवत व श्रीमती चन्द्रप्रभा सिंह व श्रीमती अनीता सिंह पुत्री गण परशुराम व राजकिशोर व धुवनशायन पुत्र सहबजादा व अम्मर व चन्द्रशेखर व अनिरुद्ध व सुबाष पुत्र बंशबहादुर व लाल बंहादुर व रंग बहादुर पुत्र बब्बन ग्रा० वा० व अखिलेश पुत्र बिजय बहादुर व अनिल सिंह पुत्र रामप्रसाद व श्रीमती आशा पत्नी अनिल व मदन गोपाल पुत्र बासुदेव
				32	निजी	कृषि	0.006	सत्यनरायन उर्फ सत्यदेव उर्फ पौहारी व शैलेन्द्र कुमार व संजय कुमार पुत्र राजधारी ग्रा०वा० व श्री राम प्रसाद पुत्र सुदीन सा० रामपुर पौटवा व श्रीमती असमावती देवी स्त्री शत्रुघन सा० मुन्डेरा व श्रीमती आसमा बीबी जौजे मुहम्मद आरीफ छममेखा सा० हाटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				36	निजी	कृषि	0.013	अमर सिंह व चन्द्रशेखर सिंह व सुबाष सिंह व अनुरुद्ध पुत्र बंश बहादुर सिंह ग्रा० वा०
				111	निजी	कृषि	0.028	शान्ती जोजे राजनरायन नि० ग्रा० पटनी व श्रीमती प्रमेश्वरी जोजे रामलाल केडिया नि० हाटा व जुगुल किशोर व गोबिन्द पुत्र बाबू लाल व राधेश्याम व भोला शंकर व इन्द्रकुमार व राजेन्द्र कुमार पुत्र रामबाला(लड़के) व श्रीमती फूलमती जोजे गया ग्रा० वा० व शिवशंकर व हरीशंकर पुत्र विश्वनाथ व श्रीमती मायादेवी पत्नी विश्वनाथ व बिजयनाथ व रामनाथ व बैजनाथ व रघूनाथ पुत्र गंगा नि० हाटा व श्रीमती कान्ती देवी जोजे ओमप्रकाश व श्रीमती चन्द्रकला देवी स्त्री प्रदीप कुमार नि० ढाडा व अखिलेश कुमार सतीश कुमार ना० उम्र 12 वर्ष सं० श्रीमती कमला देवी माता पती बुद्धि लाल व कमला देवी पत्नी बूद्धी लाल व रामकिशुन पुत्र यमुना नि० हाटा व चन्द्रमती व रामबिहारी पुत्र कोमल व चन्द्रमौल पुत्र राजदेव व सुबाष पुत्र लालबचन व राधेश्याम व केदार नाथ पुत्र नरायन व कपिलदेव व श्रीकिशुन पुत्र बाबू लाल ग्रा० वा० व श्रीमती गायत्री देवी स्त्री गोरख प्रसाद नि० हाटा शौकत पुत्र प्रहलाद व मोहम्मद दीन पुत्र चन्द्रबली नि० रामपुर व मिश्री असर्फी जोजे राघव सिंह नि० रायगंज हाल मु० मुजैहना व मुमताज व इनतियाज व अशीष व सिराज पुत्र अब्दुल व श्रीमती अखिया पत्नी अब्दुल ग्रा० नि० व गिरिजा व नेबू लाल व सुरेन्द्र पुत्र गण गया ग्रा० वा०
				227	निजी	कृषि	0.016	तारा देवी जोजे गोबिन्द व प्रेमलता देवी जोजे बाबूलाल साकिन हाटा व नर्बदेस्वर पुत्र परमानन्द निवासी हाटा
				245	निजी	कृषि	0.032	कृष्ण मुरारी व गीता देवी बेवा हरिराम नि० हाटा व कृष्ण मुरारी नाथानी व भरत लाल नि० हाटा
				246	निजी	कृषि	0.034	कृष्ण मुरारी व गीता देवी बेवा हरिराम नि० हाटा
				249	निजी	कृषि	0.042	विशेषर व विश्वनाथ पुत्र गण परानू नि० ग्रा० हाटा व लालबचन व परमंस पुत्र कमला व वशिष्ठ व मैनेजर पुत्र विभूती व अयोध्या पुत्र राम नक्षत्र व अभिषेक पुत्र बंश बहादुर व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी बंश बहादुर नि० ग्रा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				131	निजी	कृषि	0.036	सड़क पी० डब्लू० डी० शिवशंकर व हरीशंकर पुत्रगण विश्वनाथ व श्रीमती माया देवी पत्नी विश्वनाथ व विजय नाथ व बैजनाथ पुत्रगण गंगा निवासी हाटा
				133	निजी	कृषि	0.035	शिवशंकर व हरीशंकर पुत्र विश्वनाथ व श्रीमती मायादेवी पत्नी विश्वनाथ व विजयनाथ व रामनाथ व बैजनाथ व रघुनाथ पुत्र गंगा नि० हाटा
				134	निजी	कृषि	0.028	शिवशंकर व हरीशंकर पुत्र विश्वनाथ व श्रीमती मायादेवी पत्नी विश्वनाथ व विजयनाथ व रामनाथ व बैजनाथ व रघुनाथ पुत्र गंगा नि० हाटा
				135	निजी	कृषि	0.010	रामआश्रय सिंह पुत्र मोती मल्ल व अमर सिंह व चन्द्र शेखर सिंह व वासुदेव सिंह व अनुरुद्ध सिंह पुत्र बंश बहादुर सिंह ग्रा० वा०
				137	निजी	कृषि	0.008	रामप्यारे पुत्र गोपाल ग्रा० वा०
				138	निजी	कृषि	0.008	श्रीमती जोखना जोजे नर्वदेश्वर ग्रा० वा०
				139	निजी	कृषि	0.016	मदन गोपाल सिंह व वरपाल सिंह पुत्र बासुदेव सिंह नि० सिरसिया त०बछौली व सरस्वती देवी जोजे रामआश्रय सिंह नि० बरवा खुर्द
				140	निजी	कृषि	0.020	सुरेश प्रसाद पुत्र पौहारी नि० ग्राम गोपाल पुर व नर्वदेश्वर पुत्र परमानंद नि० ग्रा० हाटा
				142	निजी	कृषि	0.020	श्रीमती सुदामी देवी जोजे सीताराम नि० मुजहना रहीम व श्रीनिवास व श्रीराम पुत्र हरिशंकर ग्रा० वा०
				143	निजी	कृषि	0.016	ब्रम्हानंद व विष्णु कुमार व राजेश कुमार व बिनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्र ठगई ग्रा० वा०
				144	निजी	कृषि	0.047	रमाशंकर पुत्र चानबल्लै व माखन लाल पुत्र मंगल नि० ग्रा० हाटा
				150	निजी	गैर कृषि	0.020	कोमल पुत्र तीर्थराज घ नागेन्द्र व सतेन्द्र व भूपेन्द्र व शैलेन्द्र पुत्रगण चन्द्रभूषण व गोरखनाथ पुत्र विक्रम ग्रामवासी
				152	निजी	कृषि	0.012	कमला पुत्र तीर्थराज घ नागेन्द्र व सतेन्द्र व भूपेन्द्र व राजेन्द्र पुत्र गण चन्द्रभूषण ग्रा०वा०
				153	निजी	कृषि	0.003	इसलाम पुत्र सदल्ली व अब्दुलाह व सफी उल्लाह व जावेद व मंसरी व मु० रफीक पुत्र समुल्लाह व श्रीमती जयतुन निशा पत्नी समीउल्लाह
				154	निजी	कृषि	0.003	प्रमोद कुमार व मनोज व बिनोद कुमार व मनोज कुमार व संजय कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद व जगदीश प्रसाद व राजेश कुमार पुत्र बाबू लाल नि० हाटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				155	निजी	कृषि	0.012	जवाहर पुत्र अलगू व चंद्रिका व सुरेश पुत्र हंसा सिंह निवासी ग्रा० सिरसिया व सिंहासन व रामभवन पुत्र अलख ग्रा० वा० संतोष कुमार पुत्र जयनरायन ग्रा० वा० व रामबिलास व प्रहलाद पुत्र मदन नि० गवनर
				160	निजी	कृषि	0.001	रामप्यारे पुत्र चोकट नि० हाटा व चन्द्रमती व रामबिहारी पुत्र कोमल व चन्द्रमौल पुत्र राजदेव व सुबाष पुत्र लालबचन व राधेश्याम व केदारनाथ पुत्र नरायन पुत्र कपिलदेव व श्रीकिशुन पुत्र बाबू लाल ग्रा० वा०
				161	निजी	कृषि	0.010	करनरूप पुत्र साधवे ग्रा० पैकौली व तीर्थराज पुत्र सुचित नौतन हथियागढ़ व चन्द्रमती व रामबिहारी पुत्र कोमल व चन्द्रमौल पुत्र राजदेव व सुबाष पुत्र लालबचन व राधेश्याम पुत्र नरायन व कपिलदेव व श्रीकिशुन पुत्र बाबूलाल ग्रा० वा०
				169	सरकारी	गैर कृषि	0.002	पोखरी
				230	निजी	गैर कृषि	0.024	अब्दुल्लाह पुत्र आकूबली निवासी हाटा तारा देवी जौजे गोबिन्द व प्रेमलता जौजे बाबूलाल ग्रामवासी हाटा रामआसरे व प्रदुमन पुत्रगण भण्डारी निवासी बेलवनिया
				231	निजी	गैर कृषि	0.016	प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, मनोज कुमार, व संजय कुमार पुत्रगण द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम हाटा
				162	सरकारी	गैर कृषि	0.001	छवर
				166	सरकारी	गैर कृषि	0.002	रास्ता
			(14) हाटा खास	286	निजी	कृषि	0.004	जवाहिर व शाहबजादा योगेन्द्र, पि० रामानन्द नि० रामपुर मिश्री
				287	निजी	कृषि	0.023	मदन लाल व चमन लाल पुत्रगण विश्वनाथ, अमना खातूम पुत्री इमानुलहक ग्रा० नि०, जवाहर लाल, शाहबजादा, योगेन्द्र पुत्रगण रामानन्द सिंह
				297	निजी	कृषि	0.013	फकरे आलम पुत्र मु० कासिम खां ग्रामवासी राबिया खातूम स्त्री अब्दुल हक नि० हाटा, स्माकानत पुत्र बन्धु उर्फ बन्धू नि० पिपरा
				298	निजी	गैर कृषि	0.031	श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा
				329	निजी	कृषि	0.091	कैलाशी व फलमानी स्त्रीगण गया व बदरी व रामचन्द्रर पुत्रगण भगवान ग्रा०वा०, मारकण्डय पुत्र रामबिहारी ग्रा० पटनी, रामदयाल पुत्र रामप्रसाद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				332	निजी	कृषि	0.009	श्रीमती जोहरा पत्नी इकबाल व इसरावती पत्नी कुबर भण्डारी व अनिल कुमार व सुनील कुमार व नागमणि पुत्रगण विश्वनाथ व ध्रुव चन्द्र व मोती अन्न प्रेम चन्द्र पुत्रगण रामदेलाश नि० सुकराली, केदार उमेश जयसिंह व विजय बहादुर पुत्रगण बदरी लाल मुनि पुत्र लगन नि० लक्ष्मीकुण्ड व अछैबर पुत्र खेलावन ग्रा०वा०
				341	निजी	कृषि	0.007	मो० कासिम पुत्र मो० यसुफ ग्रा०वा०
				372	निजी	गैर कृषि	0.018	अखिलेश कुमार पु० पृथ्वीचरन नि० हाटा सुदामा पुत्र विश्वनाथ साकिन रेधन देवरिया व स्वामीनाथ पुत्र गुप्ता नि० पगरा श्रीमती शिवराजी पत्नी चन्द्रिका श्रीमती मालती देवी पत्नी मुदरिका नि० विक्रम विशुनपुर
				373	निजी	गैर कृषि	0.033	याम बिहारी पुत्र चिरकुट, संगत प्रसाद व श्रीप्रसाद व प्रेम नारायन व शाम नारायन पुत्र रामधनी ग्रा०वा० व तैतरी देवी पत्नी कैलाश नि० देवरिया व ऊषा देवी पत्नी खदेरू प्रसाद निवासी अधार छपरा, इन्तयाज अहमद पुत्र और अब्दुल गफ्फार सा० हरैया तप्पा भटनी जिला देवरिया व जैमुल निशा पत्नी व श्री भूष्मद अभीन व मु० सगीर पुत्र अमीन सा० देवरिया
				349	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				499	सरकारी	गैर कृषि	0.048	नहर गण्डक
				523	निजी	गैर कृषि	0.123	रामेशवरे उर्फ कतवारू पुत्र रामकिशुन ग्रा०वा०
				528	सरकारी	गैर कृषि	0.006	नहर
				1	निजी	कृषि	0.057	जयराम, रामनारायन, रामचन्द्र पुत्रगण गुरु दयाल ग्रा०वा०
				2	निजी	कृषि	0.038	जयराम, रामनारायन, रामचन्द्र पुत्रगण गुरु दयाल ग्रा०वा०, मदन लाल राधेश्याम व घनश्याम व कृष्ण मुरारी व विजय कुमार पुत्रगण गुलाब ग्रा०वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				7	निजी	गैर कृषि	0.036	जाहद अली पुत्र मुर्तजा हुसैन सा० डुमरीमलाक व अली मोहम्मद व अब्दु क्यूस पुत्र नियमत उल्लाह नि० पिपरहिया अयूब खालिद खाँ व मोहम्मद अमीन खाँ ना० पुत्र अस्तुल्लाह सा० मादर बलिया हाटा खास नूर फातिमा उर्फ विश्वनाथ व विजय नाथ रामनाथ बैजनाथ रघुनाथ पुत्रगण छट्टू प्रसाद पु० बलदेव प० मंजू देवी पत्नी रघुनाथ ग्रामवासी शंकर लाल पुत्र द्वारिका प्रसाद, योशादानन्द पि० रामचन्द्र व श्रीमती कलमदानी पत्नी रामचन्द्र सा० पटनी
				248	निजी	कृषि	0.015	अब्दुल पुत्र याकूब ग्रा०वा०
				267	निजी	कृषि	0.024	मालवर पुत्र राम औतार नि० पैकौली, हाजी जाहद अली खाँ पुत्र मिट्टू व रिजवानउल्लाह खाँ व जमातुल्ला खाँ व नियामतुल्ला व शफीउल्ला व वसी उल्ला खाँ पि० हाफीज जाहद अली ग्रामवासी व हाज जाहद हली खाँ पुत्र सिद्धु व रिजवानुल्लाह व अमालनुल्ला खाँ व नियामतुल्ला व शमीउल्ला खाँ व वसीउल्ला खाँ पि० जाहद अली खाँ नि० हाटा
				269	निजी	कृषि	0.096	दुर्गा प्रसाद पुत्र नकछेद ग्रा०वा०
				271	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चकमार्ग
				272	निजी	कृषि	0.045	चन्द्रपाल पुत्र कपिल देव व सन्तोष प्रसाद व शिवम ना० उम्र 11 व 7 वर्ष सं० मिथिलेस माता स्वयं रामनरेश ग्रामवासी श्रीमती कौशिल्या पत्नी ब्रह्मानन्द श्रीमती गुजराती, पत्नी त्रिवेनी व राकेश सिंह राजेश कुमार सिंह पि० बुदद्धी सिंह निवासी सोनिया मुंडेश
				276	निजी	गैर कृषि	0.045	चम्पा देवी पत्नी राजदेव निजामुद्दीन व कासीम अली व नसीरुद्दीन व साकिर अली इसराम मुसाहर अली ग्रा०वा०, आबादी
				277	निजी	गैर कृषि	0.035	जयराम पुत्र गुरुदयाल, अनिल कुमार पुत्र रामनरयन व सावित्री देवी पत्नी रामचन्द्र ग्रा०वा० व हरी लाल पुत्र गुचन सा० सुकरौली व मोहन प्रसाद पुत्र चिल्लर सा० दाढ़ बुजुर्ग व धर्मदेव कुमार व जितेन्द्र कुमार पि० गुलाब ग्रा० भिसवा व बन्धु प्रसाद पुत्र बदरी आसन ग्राम अर्जुन डुमरी व चम्पा देवी स्त्री गोरखनाथ निवासी पटनी व मोतीलाल व हीरालाल व नन्दलाल पुत्रगण किशोर व श्रमती सुशीला देवी पत्नी किशोर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				284	निजी	गैर कृषि	0.015	उदासी स्त्री गिरजा शंकर नि० बरवा छत्तर दास, अनिरुद्ध प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद रवीन्द्र प्रसाद पु० ग० सहदेव व अनिरुद्ध पुत्र सहदेव व नागेश व कौलेसर व अनिल कुमार व राजेश व दिनेश पु० ग० रामदेव ग्रा० वा०, ज्योतिष व केशवर व लालवचन पुत्रगण जमुना रमाशंकर जंगबहादुर पु० ग० त्रिवेनी रामनरेश व लालबहादुर लालजी पु० ग० भागवत, जियना पत्नी दुर्गा प्रसाद ग्रामवासी, बाबूलाल व देवलाल पुत्रगण वंशी ग्रामवासी, विनोद कुमार, मनोज कुमार पि० जयराम ग्रा०वा०, आबादी
				1321	सरकारी	गैर कृषि	0.050	नर्वेश्वर पुत्र परमानन्द ग्रामवासी, गुटेली पुत्र बहुरन व हदीश मो० दीन पि० सफायत नि० पिपरा कपूर, मुनीर व मुहरन अली हुसेन व मु० इस्लाम पुत्र नसीम ग्रा०वा०, पतिमुल्लाह पुत्र अब्दुल हाफिज, श्रीकास्त श्रीराम व देवेन्द्रनाथ शिवशंकर वाघसपत पि० रामदेव व भृगुरासन फूलबदन रामआशीष पि० पसराम व अशोक पुत्र जगरनाथ व रंजीत पुत्र प्रहलाद ग्रामवासी व सुदामा व भगत व अनिरुद्ध पुत्र बासदेव, नहर गण्डक
				1126	निजी	कृषि	0.010	मो० मुस्तकीन मो० सकीन मुस्तफा अहमद पि० खुल ग्रामवासी व जगरनाथ व दीनानाथ व कपिलेश्वर पि० विन्ध्याचल नि० पकरोली मालती देवी पत्नी रामचन्द्र ग्रामवासी
				236	सरकारी	गैर कृषि	0.004	पोखरी
				343	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाली
				379	सरकारी	गैर कृषि	0.003	अधिसासी अभियंता विद्युतखण्ड उत्तर प्रदेश राज्य परिषद देवरिया
				1125	निजी	कृषि	0.005	संजय कुमार पुत्र विशुन ग्रामवासी
		(15) सोनबरसा		108	सरकारी	गैर कृषि	0.049	रास्ता
				110	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चकमार्ग
				118	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चकमार्ग
				119	सरकारी	गैर कृषि	0.081	आबादी
				120	निजी	कृषि	0.040	ठगई व चौथा पु०ग० बरदेव ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				164	सरकारी	गैर कृषि	0.026	नहर गण्डक
				175	निजी	कृषि	0.013	अशोक पुत्र केशवर ग्रा०वा०।
				184	निजी	गैर कृषि	0.003	श्रीराम पु० चतुरी व पियारे व जवाहर पु० रामनारायन रामधनी पु० महावीर व फेकू व विजय बहादूर व रामगोपाल व रामसमुझ व सन्तोष पु०ग० रक्षा व विलाभ व मंशा व कैलास पु०ग० जगरनाथ व छक्की लाल पु० सीताराम व कृपा शंकर पु० जैगोविन्द ग्रा०वा०।
				201	निजी	कृषि	0.032	चौथी व ठगई पु०ग० बल्लदेव ग्रा०वा०।
				203	निजी	कृषि	0.016	चौथी व ठगई पु०ग० बल्लदेव ग्रा०वा०।
				204	निजी	कृषि	0.090	रामनरेश व चन्द्रभान पु०ग० रामलाल ग्रा०वा० व गंगासागर व बैजनाथ पु०ग० गोबरी व रीमती लक्ष्मी जौजे राजाराम ग्रा० दादन भटनी व राजेन्द्र व सुरेन्द्र व धीरेन्द्र व सतेन्द्र पु०ग० उदयभान।
				205	निजी	कृषि	0.016	मेवा लाल व भृगुनाथ पु०ग० श्यामनारायन।
				213	निजी	कृषि	0.036	देवनाथ व जगरनाथ पु०ग० रामऔतार नि० पैकौली व श्रीकृष्ण व महिमा पु०ग० रामलाल (लड़के)।
				217	निजी	कृषि	0.080	वसन्ती देवी पत्नी महेन्द्र शुक्ला सा० समोगर, श्रीमती विमला देवी स्त्री अशोक कुमार मणि सा० पटनी व चोकट पु० मंगल व अनुरुध व रमेश कुमार पु०क० चोकट प्रसाद साखड़वा व सुरेन्द्र पु० जेकरन व गौरी पु० श्याम सुन्दर सा० रामपुर मिश्री, निर्मला देवी स्त्री भोलानाथ ग्रा० नि० व चन्द्रभान मणि पु० शिशंकर त्रिपाठी नि० पटनी, श्रीमती प्रेमलता देवी स्त्री बाबूलाल नि०ग्रा० हाटा, भभूती पु० तिरथी व शुकई व घनश्याम व वकील पु०ग० गातिवर ग्रा०वा० व विनोद व मनोज नाथ पु०ग० शुकदेव शर्मा वलायत पिता स्वयं सा० गौनरिया।
				219	निजी	कृषि	0.045	श्रीमती अमारी जौजे भागवत व श्रीमती कैलासी जौजे विक्रम नि०ग्रा० पैकौली, किशोर व प्रहलाद पु०ग० फेकूब चोकट व लल्लन व दरोगा व कपिलदेव व कैलास पु०ग० महरोज व गब्बू पु० रामझा व मेवालाल व इन्नर व रामवेलास व दीन दयाल पु०ग० परिखन व कमलेश पु० कन्हई व भागवत पु० शिवमंगल व रामनैन व राजेन्द्र व रामजीत व सर्वजीत पु०ग० विक्रमा निवासी पमौली।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(16) पैकौली	17	निजी	कृषि	0.067	केशवर पुत्रगण रामदेव व समनरायन व मिठई व बांकलाल पुत्रगण रामपति व कैलाशनाथ व केदार प्रसाद व दशरथ पुत्रगण नगेश व सुदर्शन व महात्म पुत्रगण जगदेव ग्रा०वा० व उमेश पुत्र राम चन्दर, राधेश्याम व पौडारी व गोपाल व वृजेश व दिनेश पुत्रगण सुदामा व श्रीमती खेलन्ती पत्नी सुदामा
				21	निजी	कृषि	0.028	प्रभावती देवी पत्नी हीरा
				22	निजी	कृषि	0.048	शारदा प्रसाद पुत्र कोंकट व कलाश, कपिल देव पुत्रगण महाराज व किसान शिक्षण संस्थान हाटा व अरविन्द शर्मा व शम्भू पुत्रगण दयोग व गब्बू, रामाजा व प्रह्लाद पुत्र फेकू व किशोर व प्रह्लाद व पुत्रगण..... व श्रीमती अदालती देवी पत्नी सुखू नि० ग्राम पटना मिश्रौली व तुफेला का० व अमीर अहमद व जलपेदार अहमद ना० उम्र क्रमश 12 व 11 वर्ष सं० जमरू निशा पुत्रगण गुलाब हुसैन नि०ग्रा० सिसवा
				23	निजी	कृषि	0.032	लालबचन व रमायन पुत्रगण पतिराज व भिखई पुत्र त्रिवेनी व रामभवन, रामकिशोर व रामदरश पुत्रगण बिकाऊ व भभूति पुत्र तिरथी व महात्म पुत्र रमेश, सुकई व धनश्याम व वकील पुत्र मातिवर व श्रीमती विद्या पत्नी दिनेश सिंह नि० ग्रा० मुजहैन राहीम
				41	निजी	कृषि	0.060	केदार व नेवास उर्फ रामनिवास पुत्रगण गंगा व वंशी पुत्र महादेव ग्रा०वा०, ओमप्रकाश सिंह व विनोद सिंह पुत्रगण रामपति सिंह निवासी पिपरही भरकुलवा
				42	निजी	कृषि	0.056	केदार व नेवास उर्फ रामनिवास पुत्रगण गंगा व वंशी पुत्र महादेव ग्रा०वा०
				51	सरकारी	गैर कृषि	0.008	चकमार्ग
				53	निजी	कृषि	0.029	गुदर राय पुत्र मुन्नी राय व रामदवड राय पुत्र जगदेव व रामवती पत्नी शम्भू व संध्या पत्नी ओमप्रकाश ग्रा०वा०
				58	निजी	कृषि	0.025	मुन्शी व देवान पुत्रगण चन्दर व तुफानी पुत्र रामजस ग्रामवासी विन्देश्वरी पुत्र छेदी व रतन व चन्द्र व अवधेश व अनिल व सनतोष व नीरज पुत्रगण जंगबहादुर नि० हाटा व विन्देश्वरी व छेदीसा० पटना श्री श्रवती, श्रीमती कृष्णावती पत्नी अमेरिका व श्रीमती सोनिया पत्नी अवधेश ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				63	निजी	कृषि	0.018	गुदर राय पुत्र मुन्नी राय व रामदवड राय पुत्र जगदेव ग्रा0वा0 व रतन चन्द्र व अंवधेश कुमार व अनिल कुमार व सन्तोष कुमार व नीरज कुमार पुत्रगण जंगबहादुर निवासी हाटा
				64	निजी	कृषि	0.016	महातम पुत्र जगदेव ग्रा0वा0
				73	निजी	कृषि	0.009	बबन व चन्द्रभान व चन्द्रिका व मुन्नी
				75	निजी	कृषि	0.095	बबन व चन्द्रभान चन्द्रिका पुत्रगण बृजा ग्रा0वा0
				76	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चकमार्ग
				96	निजी	कृषि	0.060	छत्तर पुत्रगण सीताराम ग्रा0वा0
				97	निजी	कृषि	0.080	रामप्यारे व मुन्नी पुत्रगण बाबूराम व जयगोविन्द पुत्र बाबूराम, राधेश्याम पुत्र सियाराम ग्रा0वा0
				98	सरकारी	गैर कृषि	0.080	मुख्यमार्ग
				100	निजी	कृषि	0.096	कपिलदेव व कृष्ण बिहारी व जगदीश व रामजीत पुत्रगण भागवत ग्रामवासी
				104	सरकारी	गैर कृषि	0.040	नवीन परती
				105	निजी	कृषि	0.008	भमूति पुत्र छांगुर व इन्द्रासन पुत्र श्यामराज, नरसिंह व रूदल व रामप्रति व जीता पुत्रगण रज्जू व नरसिंह ग्रा0वासी
				249	सरकारी	गैर कृषि	0.148	आबादी
				250	निजी	कृषि	0.020	श्री कृष्ण महिमा पुत्रगण श्यामलाल व देवलाल पुत्रगण औतार रामदास, रामहरख, रामरेखा पुत्रगण रामदुलार व श्रीमती जानकी देवी पत्नी रामहरख व प्रेम व इन्द्रजीत पुत्रगण लालमन ग्रा0वा0
				251	निजी	कृषि	0.020	रामदास पुत्र व श्रीमती जानकी देवी पत्नी रामहरख व रामरेख पुत्रगण रामदुलार व प्रेम व इन्द्रजीत पुत्रगण लालमन ग्रा0वा0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				253	निजी	कृषि	0.055	लालवचन व रामान पुत्रगण पतिराज व भिखी पुत्र त्रिवेनी व मु० भौतिया बेवा राजा व छट्ट व ओम प्रकाश पुत्रगण भगौती व श्रीमती पिपरा देवी पत्नी भभूती व सुकई व घनश्याम पुत्रगण मानीवर व रामभवन रामकिशोर रामदरस पुत्रगण बिकाउ महातम पुत्रगण रमेश्वर रामभवन रामकिशोर व रामदास पुत्रगण बिकाऊ व रामघनी पुत्र विक्रम व शारदा प्रसाद पुत्र चौकट व लल्लन व कपिल देव कैलाश पुत्रगण महाराज व अरविन्द व रमेश व शम्भू पुत्रगण दरोगा व कमलेश पुत्रगण कन्हई व परिखन पुत्रगण रघुवीर व गब्बू पुत्र रामझा व हरिवंश पुत्र तिलकधारी व रामनयन राजेन्द्र रामजीत पुत्रगण विक्रम हरिशचन्द्र जयगोविन्द शैलेश पुत्रगण भागवत किशोर व प्रहलाद पुत्रगण फेकू रामप्यारे व मुंशी व जयगोविन्द पुत्रगण बाबूराम व छत्तर पुत्र सीताराम व कपिल देव व कृष्ण बिहारी व जगदीश रामजीत पुत्रगण भागवत व मिठाई सिंह पुत्र विन्ध्यचल छेदी पुत्र रामलक्षन व अयोध्या व मैनेजर दूधनाथ औतार व रामदरस पुत्रगण..... व श्रमती ज्ञान्ती देवी पत्नी रामहरख रामरेख पुत्र रामदुलार प्रम व इन्द्रजीत पुत्रगण लालमन विनोद कुमार दुर्गेश पुत्रगण रामघनी ग्रा०वा०
				255	सरकारी	गैर कृषि	0.055	नवीन परती
				256	सरकारी	गैर कृषि	0.026	नवीन परती
				272	निजी	कृषि	0.025	खेदारू पुत्र रत्तन ग्रा०वा० रामअशीष कुमार ग्रा०वा०
				273	सरकारी	गैर कृषि	0.008	मुख्यमार्ग
		(17) छपरा भगत		114	निजी	कृषि	0.044	चण्डी पु० राम जस व रामनगीना व राम निवास व वकिल पु० रामपति ग्रा०वा०।
				115	निजी	गैर कृषि	0.010	चण्डी पुत्र रामजस व रामनगीना व रामनिवास व वकील पुत्र गण रामपति ग्रा० नि०
				117	निजी	कृषि	0.065	विश्वनाथ व अम्बिका व चन्द्रिका पु० ग० रामलखन ग्रा०वा०।
				119	निजी	गैर कृषि	0.259	विश्वनाथ व अम्बिका व चन्द्रिका पुत्रगण रामलक्षन व रामायन पुत्र विन्ध्यचल व मुखुत पुत्र लोटन व द्वारिका व चन्द्रभान पुत्र रामनयन व अमरजीत पुत्र रामप्यारे व केदार पुत्र लखन आदि।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				120	सरकारी	गैर कृषि	0.004	रास्ता
				123	निजी	कृषि	0.005	राजेन्द्र व नन्द लाल व मुखलाल व रामलाल पु०ग० ठाकुर नि०ग्रा०वा०।
				128	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नवीन परती
				130	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				136	सरकारी	गैर कृषि	0.010	खेल का मैदान
				180	सरकारी	गैर कृषि	0.003	नाली
				125	निजी	कृषि	0.008	रामबृक्ष व रामहरख व रामप्यारे व राकिशोरपुत्र गण जमुना
				127	निजी	कृषि	0.007	जगदीश मिश्र पुत्र बेनीशंकर
			(18) पगरा	795	निजी	कृषि	0.018	नंद किशोर व गोपाल नथानी पुत्र गण कृष्ण मुरारी नथानी
				798	निजी	कृषि	0.015	फैनाथ पु० लाल बिहारी ग्रा०नि०।
				799	निजी	कृषि	0.040	सन्तराज पुत्र चन्दर व श्रीमती गायत्री देवी पत्नी जवाहर लाल व श्रीमती नैन तारा पत्नी राम जी प्रसाद ग्रा० पिपरा कोठी व हीरा पुत्र रामदेव सा० धर्मोली
				801	निजी	गैर कृषि	0.008	नाली
				1010	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नाली
				1066	निजी	कृषि	0.042	नथुनी पु० जग व श्रीमती बेइली देवी जौजे रामप्रताप ग्रा०वा०।
				1069	निजी	कृषि	0.015	चन्द्रिका पु० भृगराशन ग्रा० नि०।
				1070	निजी	कृषि	0.014	अलगू पु० मृगरासन ग्रा० नि०।
				1071	सरकारी	गैर कृषि	0.003	चकमार्ग
				1072	निजी	कृषि	0.054	रामरतन पुत्र श्याम सुन्दर ग्रा० नि० व रामअवध पुत्र बूधन व हिबली पुत्र काली चरन ग्रा० पगरा
				1078	निजी	कृषि	0.036	भरोसा पु० लखन ग्रा०नि०।
				1083	निजी	कृषि	0.094	राजेन्द्र पुत्र राम लाल व हरिबंश पुत्र सीताराम ग्रा० नि०
				1085	सरकारी	गैर कृषि	0.053	बंजर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1089	निजी	कृषि	0.135	पूर्णवासी पु० देवराज व गोरखनाथ व विरेन्द्रनाथ पु०ग० विक्रम सा० हाटा व विरेन्द्र कुमार पु० रामवृक्ष सा० मसीली व रामेश्वर व राधेश्याम व राम सकल व मागीरपुर पु० विरेन्द्रनाथ ग्राम हरपुर व विमला देवी पत्नी हंसनाथ सा० रामनगर, प्रभूनाथ पु० चन्दर ग्रा० नि०।
				1148	निजी	गैर कृषि	0.058	अनिरुध व बाबूराम व सुभाष पु०ग० विक्रम नि० परवा खुर्द व रमाकान्त पु० बाबूलाल व माकण्डे पु० वीरवस ग्रा०वा० व जालान स्पात सप्लायीस प्रबन्धक निदेशक जूगूल किशोर जालान पु० झूठालाल बोरिंग नं० 10 गोरखपुर।
			(19) चक नरायण	279	सरकारी	गैर कृषि	0.011	प्राइमरी पाठशाला
				281	सरकारी	गैर कृषि	0.097	सड़क
				324	निजी	कृषि	0.030	मोती पुत्र गुप्तार ग्रा० वा०
				326	निजी	कृषि	0.050	अजय बहादुर व विजय बहादुर व अमय बहादुर पु०ग० मिश्री प्रसाद इन्द्रजीत व जीवन्त ग्रा०वा०।
				343	सरकारी	गैर कृषि	0.085	चकमार्ग
				385	निजी	कृषि	0.032	हरि व लल्लवचन पुत्रगण रामऔतार व श्रीमती कौशल्या बेवा मंगल निवासी लोहेपार व शिवनारायण व रामसमुझ पुत्रगण मौला व शिवपुजन व राधेश्याम पुत्रगण रामाज्ञा व सितई पुत्र ठाकुर व रामसेवक व रामपाल व शिवपाल पुत्रगण रामाश्रय व दर्शन पुत्र प्रसिद्ध व परशुराम उर्फ हीरा पुत्र शिवराज व रामसमुझ पुत्र जगदेव व शुभकरन पुत्र दूधनाथ व प्रभुनाथ व अर्जुन पुत्रगण शुभकरन नि० ग्रा० क्षपराभगत
				394	निजी	कृषि	0.053	मु० दुलारी बेवा ब्रम्हा व जैराम व रामनरेश व सुरेश व नर्वदा पु०ग० विशुन व सूदामा व कालिका पु०ग० फगू व लखन व हरी व दयाशंकर व ओम प्रकाश व जयप्रकाश पु०ग० कमला व गुलाब पु० राम राज व शिवराज पु० बिरजा व नेबूलाल व जेटू पु०ग० मिश्री व रामदरस व रामज्ञान व रामध्यान पु०ग० अम्बिका व भु पुतरी बेवा खेदू व शारदा पु० सूरज मनि व भभूति पु० बेचू व रमाकान्त पु० बाबूराम ग्रा० छपरा भगत।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				404	निजी	कृषि	0.068	मु० दुलारी बेवा ब्रम्हा व लखन व हरी व दयाशंकर व ओम प्रकाश व जयप्रकाश पु०ग० कमला व गुलाब पु० राम राज व शिवराज पु० बिरजा व नेबूलाल व जेदू पु०ग० मिश्री व रामदरस व रामज्ञान व रामध्यान पुत्रगण अम्बिका व शारदा पुत्र सूरज मनी व भभुति पुत्र बेचू व रामाकान्त पुत्र बाबुराम ग्रा० क्षपराभगत व श्रीमती विद्या देवी पत्नी रामकृष्ण सिंह नि० ग्रा० सहवाजपुर रामअवध पुत्र नारायण व छोटेलाल न नन्हैलाल व जयप्रकाश व संदीप ना० वा० व लायत दुखरन पुत्रगण दुखरन नि० ग्रा० क्षपराभगत व सुभास पुत्र सफल निज ग्रा०
				405	निजी	कृषि	0.020	पारस पुत्र भगन।
			(20) धर्मौली	143	सरकारी	गैर कृषि	0.048	खन्ता
				144	सरकारी	गैर कृषि	0.008	नाला कुरना
				157	सरकारी	गैर कृषि	0.101	खन्ता
				142	निजी	गैर कृषि	0.003	रामचन्द्र व राम जीत व कैलास पु०ग० चोकट व सुयीमान व उदयमान व दयाराम पु०ग० बदरी व पदम निरंजन ना०बा० उम्र क्रमशः 15, 12, वर्ष वर्ष व ली मु० फुलमती माता पु०ग० ओम प्रकाश व सुन्दर व मुलई पु०ग० कतवारु ग्रा० छपरा भगत।
				163	निजी	गैर कृषि	0.020	चन्द्रहास कुमार व हेमवन्ती मदनप व रविनारायण व नवल कुमार पु०ग० जगदीश नारायण (नि० भगत छपरा)।
				164	निजी	कृषि	0.050	रामलक्षन पु० मिठई ग्रा०वा०।
			(21) पिपरही भरकुलवा	11	सरकारी	गैर कृषि	0.085	सड़क खन्ती
				37	निजी	कृषि	0.036	रामसूरत व सीताराम व श्याम बिहारी व संतराज पु०ग० परशुसम व गोगा पु० लल्लन ग्रा०नि०।
				42	सरकारी	गैर कृषि	0.023	बंजर
				73	निजी	कृषि	0.013	रामदुलारे पु० कामता व रामआसरे व चन्द्रशेखर पु०ग० राजवंशी नि०ग्रा० अनिल व अजय व विनय पुग० रामआधार व श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व० रामआधार, हरेन्द्र व नागेन्द्र व राजेन्द्र व राघवेन्द्र व सत्येन्द्र व महेन्द्र पु०ग० वृजनरायण व भूपेन्द्र कुमार ना०वा० उम्र 12 वर्ष स०मु० लीलावती (माता) पु० योगेन्द्र ग्रा०नि०, भोला व रामयादी पु०ग० गब्बू व चन्द्रभान पु० मुन्नी व महाजन पु० परगास व मु० गुलाबी बेवा महात्म व तार्थराज पु०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>राजधारी नि०ग्रा० व श्रीमती संजू देवी पत्नी वंश गोपाल पु० नि०ग्रा० सकरौली, प्रमंश व रघुनाथ पु०ग० रवदेरू वैजनाथ व उमाशंकर व शंकर व रमाशंकर पु०ग० झेगट नि० सिरसीया, कतवारू पु० धूरहू व राम अवध व शंकर व दीनानाथ पु०ग० सन्तदेव व रामकिसुन व जीयावन पु०ग० तिलकधारी व रामजीत व चन्द्रभान व</p> <p>कलास व रामवलास पु०ग० सुखराज व हरीलाल व रामलखन व धीरेनदर पु०ग० क्षत्रधारी, रामवृक्ष पु० उमराव ग्रा०नि०, घनश्यामलाल व जयप्रकाश लाल व दीनदयाल व अरविन्द लाल व अरुण कुमार पु०ग० भागवत व देश दीपक व मुकेश लाल व दीवाकर लाल पु०ग० रघनाथ लाल व नरसिंह लाल पु० हीरा लाल व सुभाष चन्द्र व राघवेन्द्र व राकेश पु०ग० गंगासरन व विजय व प्रदीप व राजीवर जन पु०ग० प्रमुनाथ ग्रा०नि०, रामजीत व राजकेशोर व रामदेव व प्रमुनाथ पु०ग० वंशराज व संजय व जगदीश व ओम प्रकाश व शम्भू सरन पु०ग० राधाकिसुन व विन्धाचल पु० रामदौड़ ग्रा०नि०, भागीरथी व लक्ष्मन पु०ग० जमुना व शिव पूजन व राम सिंह पु०ग० राम प्रसाद व रमायन व मुन्शी पु०ग० रामपत व रामज्ञान सिंह व जयराम सिंह व वीरेन्द्र सिंह पु०ग० सम्पत व रामवेलास पुत ज्वाला व केदार पत शीतल व विजय व संजय वा० व</p> <p>सत्येन्दर ना०वा० उम्र 16 वर्ष सं० श्रीमती जितना (माता) पु०ग० अम्बिका नि०ग्रा०, सुकई पु० रामस्वरूप व श्यामसुन्दर व अशोक कुमार पु०ग० रामअवध सुदागा व राजकेस व रामनरेश पु०ग० उग्रह ग्रा०नि०, बब्बन व जगबहादूर पु०ग० महाराज व हरिश्चन्द्र पु० राम सिंगार व श्रीमती धूरादेव बेवा रामसिंगार व विश्वनाथ व रामभरोस पु०ग० बुद्ध व पातेश्वर व मनोज पु०ग० देवराज व गणेश व गोमती पु०ग० बलिकरन व संजीव वा० व सूर्य प्रताप ना० उम्र 12 वर्ष सं० मु० लीलावती देवी पु०ग० रामनक्षत्र व मु० लीलावती देवी बेवा रामनक्षत्र व मु० सिरजामी बेवा पूजन व भिव मुरत पु० देव नन्म नि०ग्रा०,</p>
				85	सरकारी	गैर कृषि	0.002	खलिहान
				98	निजी	कृषि	0.069	रामवृक्ष व सेवक पु०ग० सुकई ग्रा०नि०।
				103	सरकारी	गैर कृषि	0.061	खलिहान
				104	सरकारी	गैर कृषि	0.068	कब्रिस्तान, खलिहान।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				105	निजी	कृषि	0.035	परबे जहसन व तरवेज हसन पु०ग० मो० हनीफ व मुनेश्वर पु० सुकई ग्रा०नि०, पोखरी।
				109	सरकारी	गैर कृषि	0.016	आबादी
				180	सरकारी	गैर कृषि	0.013	सड़क
				195	निजी	कृषि	0.025	खदेरू पु० विन्धाचल व राजदेव पु० बच्चू ग्रा०नि०, रामदुलारे पु० कामता व रामआसरे व चन्द्रशेखर पु०ग० राजवंशी नि०ग्रा० अनिल व अजय व विनय पु०ग० रामआधार व श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व० रामआधार, बब्बन व जगबहादूर पु०ग० महाराज व हरिश्चन्द्र पु० राम सिंगार व श्रीमती धूरादेव बेवा रामसिंगार व विश्वनाथ व रामभरोसा पु०ग० बुद्धू व पातेश्वर व मनोज पु०ग० देवराज व गणेश व गोमती पु०ग० बलिकरन व संजीव वा० व सूर्य प्रताप ना० उम्र 12 वर्ष सं० मु० लीलावती देवी पु०ग० रामनक्षत्र व मु० लीलावती देवी बेवा रामनक्षत्र व मु० सिरजामी बेवा पूजन व भिव मुन्ना पु० देव नन्म नि०ग्रा०, राम जिखावा पु० जग्गू व विश्वनाथ पु० भगौती व लल्लन पु० बाबूराम व कपिलदेव व ग्रहमा पु०ग० बच्चू ग्रा०नि० सिरसीया, भोला व रामयादी पु०ग० गब्बू व चन्द्रभान पु० मुन्नी व महाजन पु० परगास व मु० गुलाबी बेवा महातम व तार्थराज पु० राजधारी नि०ग्रा० व श्रीमती सजू देवी पत्नी वंश गोपाल पु० नि०ग्रा०११ सकरौली, भुलई व हंसा व इन्द्रासन पु०ग० बच्चा व फेकू व अर्जुन रघुबीर व पारस पु०ग० बंका नि०ग्रा०, देव नरायन पु० लक्षन व जंगी व सीताराम व श्रीराम पु०ग० रामलखन व प्रहलाद पु० छेदीलाल व जयचन्द्र व श्यामबिहारी पु०ग० शेषमनि व सिंहन पु० परसुराम व श्रीमती बदामी पत्नी रामउग्रह सा० मुडराशसन पट्टी हाल मुकाम ग्रा०वा०, इन्द्रासन व प्रहलाद पु०ग० जुडावन नि० ग्रा० सिरसिया, श्रीमती कलम्बती देवी पत्नी स्व० राम आधार, दिग्विजय सिंह व चन्द्र प्रताप सिंह व रवि प्रताप सिंह पु०ग० राज किशोर व धीरेन्द्र व रमाशंकर व राजेन्द्र पु०ग० सहदेव व निरुद्ध व सुरेन्द्र व गोरखनाथ पु०ग० रामप्रसाद व जितेन्द्र पु० रामसूरत व अक्षैवर व विष्णु प्रताप व जटाशंकर व नागेन्द्र पु०ग० रामअवध व सीरज वा० व आशीष व अजीत ना० बा० उम्र 15 व 12 वर्ष सं० श्रीमती विमला देवी (माता) पु०ग० सुबाष व श्रीमती विमला देवी बेवा सुबाष व राजेश व दिनेश पु०ग० शारदा व विजय बहादुर लालमोहन व विनोद व दुर्गेश पु०ग० बाके बिहारी व मुरली मनोहर पु० वासुदेव व जगदीश व ओम प्रकाश सिंह व शम्भूशरण व संजय कुमार सिंह पु०ग० राधाकृष्ण व प्रदीप कुमार व सुधीर कुमार पु०ग० रवीन्द्र सिंह मु० सुमित्रा देवी बेवा रवीन्द्र सिंह ग्रा०नि०, महार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				196	सरकारी	गैर कृषि	0.105	सड़क खन्ती
				197	निजी	कृषि	0.006	रुद्रप्रताप व रामसेवक पु०ग० मुन्नी व जयकरन व जयराम व विनोद कुमार पु०ग० रुद्र प्रताप ग्रा०नि०।
				198	निजी	कृषि	0.046	रुद्रप्रताप व रामसेवक पु०ग० मुन्नी व जयकरन व जयराम व विनोद कुमार पु०ग० रुद्र प्रताप ग्रा०नि०।
				68	सरकारी	गैर कृषि	0.003	सड़क
				99 / 365	निजी	कृषि	0.031	नाली
		(22) मुजहना हेतिमपुर		262	निजी	कृषि	0.033	अमरनाथ व विजय कुमार पुत्र गण राम आधार व रामचन्द्र पुत्र पत्नू ग्रा० वासी
				263	सरकारी	गैर कृषि	0.073	सड़क खन्ती
				264	निजी	कृषि	0.020	अछैबर व मुनेब पुत्र गण छेदी ग्रा० वासी
				265	निजी	कृषि	0.005	गोपाल व रामसूरत व रामदूलारे पुत्र गण रामसुभग ग्रा० वासी
				267	निजी	कृषि	0.007	गोपाल व रामसूरत व रामदूलारे पुत्र गण रामसुभग ग्रा० वासी
				268	निजी	कृषि	0.006	गोपाल व रामसूरत व रामदूलारे पुत्र गण रामसुभग ग्रा० वासी
				269	निजी	कृषि	0.006	गोपाल व रामसूरत व रामदूलारे पुत्र गण रामसुभग ग्रा० वासी
				271	सरकारी	गैर कृषि	0.001	रास्ता
				273	निजी	कृषि	0.100	दुर्गेश पाल सिंह व मुन्ना सिंह व राजकुमार सिंह व कृष्ण नरायन सिंह पुत्र गण बृजेश पाल सिंह ग्रा० वा०
				275	सरकारी	गैर कृषि	0.040	सड़क खन्ती
				276	निजी	कृषि	0.037	जगदीश व रामअधर व अर्जुन पुत्र गण मुखुद व श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी मुकुट ग्रा० नि०
				285	सरकारी	गैर कृषि	0.010	रास्ता
				286	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाला
				289	सरकारी	गैर कृषि	0.021	सिलिंग
				292	निजी	कृषि	0.032	शैलेन्द्र पाल सिंह व पवन पाल सिंह उर्फ बिकराम पाल सिंह व जगन्ध पाल सिंह पुत्र गण आनग पाल सिंह ग्रा० वासी
				293	निजी	कृषि	0.005	शैलेन्द्र पाल व पवन पाल उर्फ बिकराम पाल व गगन पाल पुत्र गण आनग पाल ग्रा० वासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				295	निजी	कृषि	0.028	शैलेन्द्र पाल सिंह व पवन पाल सिंह उर्फ बिकराम पाल सिंह व जगन्य पाल सिंह पुत्र गण आनम पाल सिंह ग्रा० वासी
				296	सरकारी	गैर कृषि	0.024	सड़क खन्ती
				299	निजी	कृषि	0.024	रियासत व कमलवान पुत्र गण अहमद व अब्दुल पुत्र छिन्काई ग्रा० वासी
				308	निजी	कृषि	0.010	इमरित व रामानंद व मोती लाल पुत्र गण विश्वनाथ व अजय कुमार व विजय कुमार पुत्र गण मोती लाल व कुन्दन व सरयू ना० उम्र 15 11 13 सं० श्रीमती अमरावती देवी माता पत्नी संतोष व श्रीमती अमरावती देवी पत्नी संतोष व प्रमोद पुत्र गण रामचन्द्र व श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्र रामचन्द्र व रामअवध पुत्र रामधारी ग्रा० वा०
				311	सरकारी	गैर कृषि	0.013	रास्ता
				334	सरकारी	गैर कृषि	0.018	खलिहान
				337	निजी	कृषि	0.032	अमृत व मोती लाल रामानन्द पुत्र गण विश्वनाथ व अजय कुमार व विजय कुमार पुत्र गण मोती लाल व इन्दन व सरयू ना० उम्र 15 व 13 वर्ष सं० श्रीमती अमरावती देवी पत्नी संतोष व प्रमोद पुत्र रामचन्द्र व रामअवध पुत्र रामधारी ग्रा० वासी
				362	सरकारी	गैर कृषि	0.037	गुल
				363	सरकारी	गैर कृषि	0.032	सड़क
				367	निजी	कृषि	0.036	सहीद पुत्र जुमराती व रज्जत पुत्र जान मो० व श्रीमती जलूसा निशा पत्नी शहीद नि० मुजहेना हेतिम व रवील पुत्र तुफानी ग्रा० वासी
				368	निजी	कृषि	0.100	श्रीमती सुभावती पत्नी रामनरेश नि० पिफरहा व राम हर्ष प्रसाद व सूनील कुमार पुत्र गण कमला नि० प्रावली व विश्राम व भुटेली व रामशकल पुत्र गण राजधारी व खदेरू पुत्र राम लाल ग्रा० वासी व नेबू लाल व श्रवण पुत्र गण देव दत्त विश्वकर्मा व श्रीमती फूलवासी देवी पत्नी केदार सिंह निवासी सहबाजपुर व गणेश तिवारी पुत्र दीप मेरानन तिवारी नि० सहाजपुर व केदार पुत्र जमुना नि० सहावेर पट्टी
				372	सरकारी	गैर कृषि	0.023	बंजर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				373	निजी	कृषि	0.110	सरदार सिंह व बदरी पुत्र गण सालिक व उदयभान व राजाराम व राजकुमार पुत्र गण सदारसी ग्रा० वासी
				377	निजी	कृषि	0.130	सरदार सिंह व बदरी पुत्र गण सालिक व उदयभान व राजाराम व राजकुमार पुत्र गण सदारसी ग्रा० वासी
				391	सरकारी	गैर कृषि	0.024	खाद का गढ़दा
				400	सरकारी	गैर कृषि	0.020	आबादी
				406	निजी	कृषि	0.012	विनोद कुमार व अरविन्द्र कुमार पुत्र गण चंद्र देव ग्रा० वासी
				407	निजी	कृषि	0.036	विनोद कुमार व अरविन्द्र कुमार पुत्र गण चंद्र देव ग्रा० वासी
				409	निजी	कृषि	0.045	शैलेन्द्र पाल पुत्र आनंग पाल व गृजेश पाल पुत्र लाल बहादुर व अरविन्द्र कुमार व चन्द्र प्रताप नरायन सिंह पुत्र गण वंश गोपाल ग्रा० वासी
				410	निजी	कृषि	0.057	सुखराम विश्राम पुत्र गण जगदेव राम देव पुत्र बरध गब्बू पुत्र दल सिंहार
				412	निजी	कृषि	0.050	सुखराम व विश्राम पुत्र गण जगदेव राजदेव पुत्र बरध ग्रा० वासी
				294	निजी	कृषि	0.005	शैलेन्द्र पाल व पवन पान उर्फ विकरान्त पाल व गगन पाल पुत्र गण आनंग पाल ग्रा० वासी
				345	निजी	कृषि	0.003	सहीद पुत्र जुमराती व रज्जत पुत्र जान मो० व श्रीमती जलूसा निशा पत्नी शहीद नि० मुजहैना हेतिम
2		कसया	(1) भैंसहां	490	सरकारी	गैर कृषि	0.150	नदी गंडक
				692	निजी	कृषि	0.025	रामाशंकर जगतनारायण साकिम चकदेईया, रामाशंकर जगतनारायण साकिम चकदेईया
				693	निजी	कृषि	0.016	रामप्रवेश पुत्र मुल्ली ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				694	निजी	कृषि	0.180	नगिना व पुदिना पुत्रगण ईन्द्रा व राजमंगल पुत्र महगु नि० ग्राम हेतिमपुर व मुहम्मद आरिफ पुत्र घोरहु व श्रीमती सुफी करनाम पती उजियार निसात मछलिदादन व आफताब आलम पुत्र मुशी नि० ग्राम खेलेरी पट्टी व रामचन्द्र पुत्र रामसुरत नि० ग्राम पिडियापार व रामप्रवेश पुत्र हरिद्वार ग्रामवासी व कृपाशंकर पुत्र देवता पाण्डेय ग्राम सौतन हसियामढ व श्रीमती सरोज पुत्री महथ नि० ग्राम विगडीटांड व रमेश व हरि पुत्रगण शिवनाथ व देवेन्द्र सिंह पुत्र समपत सिंह ग्रामवासी व श्रीमती विमला देवी पत्नी रामधन व श्रीमती कुमकुम देवी पत्नी विजयप्रताप नि० ग्राम चन्दौली व रामधन पुत्र श्रवण कुमार व श्रीमती ईन्द्रावती देवी पत्नी सुवास चन्द्र नि० ग्राम करमौलि व रामसेवक पुत्र सोमारी नि० ग्राम पैकोली महुआडीह व रामसेवक पुत्र सुखारी नि० ग्राम बेदौलि
				698	निजी	कृषि	0.140	जसमेल सिंह पुत्र भौरा सिंह व प्रभु पुत्र महेशी व विरेन्द्र पुत्र बंशराम व रविन्द्र पुत्र भगोज व मिठाई पुत्र रामजस व वीरवसन पुत्र गोभी ग्रामवासी
				700	निजी	कृषि	0.061	जसमेल सिंह पुत्र भौरा सिंह व छेदी व रामदेव पुत्रगण रामधारी व लाल बहादुर पुत्र कुबेर व रामनरेश व सुरेश पुत्र श्यामसुन्दर ग्रामवासी श्रीमती रामदुलारी देवी पत्नी महेंद्र प्रसाद नि० ग्राम मुरेराचक व उमप्रशंकर पुत्र लाल बहादुर सिंह ग्रामवासी सिरसिया
				841	निजी	कृषि	0.044	जोखु पुत्र महादेव व वीरेन्द्र व सुरेन्द्र पुत्रगण चानवली व गोपाल पुत्र सीताराम व छेदी व नागेन्द्र पुत्रगण व श्याम व हीरालाल व जवाहर लाल पुत्रगण राजदेव ग्रामवासी
				842	निजी	कृषि	0.045	नरवदेश्वर पुत्र बंशराज व ओम्प्रकाश उर्फ खेलावन पुत्र रामअवतार व श्रीमती तिलिमा पति रामअवतार ग्रामवासी व सुरेश व राकेश व वीरेन्द्र पुत्रगण दरवानी नि० ग्राम मजीसराय हा० मुजहनाहेतिम
				843	निजी	कृषि	0.197	छेदी व रामदेव पुत्रगण रामधारी व लालबिहारी पुत्र कुबेर व रामनरेश व सुरेश पुत्र श्याम सुन्दर ग्रामवासी
				858	निजी	कृषि	0.016	सुरेश पुत्र रवि व लालबाबु पुत्र काशीराम व गणेशी पुत्र हरेराम ग्रामवासी
				859	सरकारी	गैर कृषि	0.002	मुख्य मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				861	निजी	कृषि	0.082	छामर पुत्र चन्दबली ग्रामवासी, छामर पुत्र चन्दबली ग्रामवासी
				862	निजी	कृषि	0.100	किशोर पुत्र कैलाश व सुनिता पत्नी बुद्धिराम ग्रामवासी
				866	निजी	कृषि	0.035	मुवाली पुत्र बलीकरण व उदय लाल व मुन्ना व जयहिन्द व अमित पुत्रगण सारदा ग्रामवासी
				900	निजी	कृषि	0.009	मुन्नी पुत्र रघु व गंगासागर व व्यास पुत्रगण चन्द्रदेव व सारदा व विन्ध्याचल पुत्रगण धन्नी व इन्द्रजीत पुत्र हीरा व जितेन्द्र व योगेन्द्र पुत्रगण पारस व छतर व फुलरती तारासिंह पुत्रगण जियावल ग्रामवासी
				902	निजी	कृषि	0.027	श्रवण पुत्र पलटन ग्रामवासी
				985	सरकारी	गैर कृषि	0.007	चक मार्ग
				1015	सरकारी	गैर कृषि	0.036	गदडा
				1017	सरकारी	गैर कृषि	0.065	नवीन परती
				1022	सरकारी	गैर कृषि	0.073	नवीन परती
				966	सरकारी	गैर कृषि	0.005	चकमार्ग
				1055	निजी	कृषि	0.053	रमाशंकर व श्यामलाल व ननकी पुत्री जयपाल व लखु पुत्र विश्वनाथ व रामअशिश व सुरेन्द्र पुत्रगण ग्रामवासी
				1655	निजी	कृषि	0.010	प्रभु पुत्र महेशी व बसंत व शंकर व प्रसाद व गोविन्द प्रसाद पुत्रगण कपुरी व देवी प्रसाद व लहरी प्रसाद पुत्रगण बकश ग्रामवासी
				1656	निजी	कृषि	0.039	श्यामसुन्दर पुत्र राजबली नि० नौतन हथियागढ़।
				1660	निजी	कृषि	0.015	शामप्यारे व भवानी पुत्रगण मुखुत व सीता पुत्र जुगल ग्रामवासी व श्रीमती परखी देवी पत्नी रामेश्वर व श्रीमती करमी देवी पत्नी चन्द्रभानु सिंह ग्राम भुजौली, श्रीमती वेलारी देवी पत्नी मिश्रीलाल
				1661	सरकारी	गैर कृषि	0.015	बंजर
				1664	निजी	कृषि	0.003	श्रीमती गेना पत्नी श्रीराम ग्रामवासी, लालमती देवी पत्नी जगदीश ग्रामवासी, मु० मुसली बेबा ईदन व रसुल पुत्र मुल ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1666	निजी	कृषि	0.005	हिरा व रामनगिना व कंचन व असर्फि पुत्रगण शिवप्रसाद व अमरनाथ व सुकदेव ना0वा0 उम्र क्रमसः 10 वर्ष व 12 वर्ष सं0 माता मनभावनी पुत्रगण रामचन्द्र व मनभावनी बेबा रामचन्द्र ग्रामवासी, गिरधारी पुत्र रामनाथ ग्रामवासी, मु0 रामदेई पुत्री महादेव ग्रामवासी
				1667	सरकारी	गैर कृषि	0.010	नदी गंडक
				1674	सरकारी	गैर कृषि	0.030	बंजर
				1115	निजी	कृषि	0.060	गोरख पुत्र राजमंगल नि0 ग्राम खंसर
				1199	सरकारी	गैर कृषि	0.002	रामदौड़ पुत्र खेदू गा0वा0।
				1203	निजी	कृषि	0.072	दीपलाल प्रसाद व वंशी प्रसाद पुत्रगण बिकाउ व श्रीमती बाघी स्त्री बिकाउ ग्रामवासी
				1205	सरकारी	गैर कृषि	0.008	खलिहान
				1228	निजी	कृषि	0.019	भूलन व रामबलि पुत्रगण अभिराम व बेली पत्नी हरिकिशुन ग्रामवासी
				1377	निजी	कृषि	0.065	सत्यनारायण व बुधन व घुसन पुत्रगण दीपलाल ग्रामवासी
				1385	सरकारी	गैर कृषि	0.010	रास्ता
				1446	निजी	कृषि	0.051	किशोर पुत्र कैलाश व सुनिता पत्नी बुद्धिराम ग्रामवासी
				1447	निजी	कृषि	0.032	फेकु पुत्र रामलाल व तुफानी पुत्र वंशराज व मुशी पुत्र गोलई व मुशी पुत्र गोलई ग्रामवासी
				1450	निजी	कृषि	0.020	श्यामदेव पुत्र फोजदार ग्रामवासी, श्रीमती कस्तुरी देवी पत्नी इन्द्रमणि ग्रामवासी
				1454	निजी	कृषि	0.032	योगेन्द्र पुत्र सन्तु व बसंत पुत्र गुंजा ग्रामवासी, सरजू पुत्र गाजर व रविन्द्र सिंह व रामकृपाल सिंह व रामध्यान सिंह व गिरिश सिंह पुत्रगण मिसरी व श्रीमती लाल देवी पत्नी मिसरी नि0 ग्राम महुआडीह
				1455	सरकारी	गैर कृषि	0.039	बंजर
				1456	सरकारी	गैर कृषि	0.010	आबादी
				1461	सरकारी	गैर कृषि	0.015	खलिहान
				1463	निजी	कृषि	0.016	धलुरी पत्नी भरत व प्रभावती पत्नी रघुनन्दन ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1466	निजी	कृषि	0.018	कमलाकांत व अशोक कुमार पुत्रगण भगोति प्रसाद ग्रामवासी, धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामबलि सिंह ग्रामवासी, रामनरेश व कमलेश पुत्रगण राजदेव नि० ग्राम भतरीदाहन व लालबहादुर पुत्र दुमरी साकिम सामगढ़ चकिया व रामचन्द्र पुत्र भागवत प्रसाद ग्रामवासी व मनमोची व मोहन पुत्र सुमन व विश्वनाथ पुत्र अयोध्या व महर्षिराज ग्रामवासी, विश्वनाथ व रामरूप पुत्रगण रामशरण व बृजेश व कल्पना व श्रीमती फुलवती देवी पत्नी कमला व श्रीमती गंगोत्री बेबा असर्फि नि० ग्राम पिपरी
				1467	निजी	गैर कृषि	0.007	स्कूल
				1477	निजी	कृषि	0.022	केदार पुत्र गया व गोमती पुत्र बदरी ग्रामवासी, अलखदेव पुत्र काली व चन्द्रशेखर पुत्र बड़ई व शिवप्रसाद सिंह व बलिराम सिंह व योगेन्द्र सिंह व रविन्द्र सिंह पुत्रगण अलखदेव सिंह व शिवप्रताप सिंह व बलिराम सिंह पुत्रगण मुशी सिंह व श्रीनारायण व राणा प्रताप सिंह व चन्द्रशेखर सिंह पुत्रगण नाई सिंह ग्राम सामपुर, महात्म पुत्र नागेश्वर नि० ग्रामवासी, रास्ता
				1483	निजी	कृषि	0.010	छेदी पुत्र अवधी ग्रामवासी
				1484	सरकारी	गैर कृषि	0.050	खलिहान
				1502	निजी	कृषि	0.026	गगासागर व न्यास पुत्रगण चन्द्रदेव ग्रामवासी, रामाशंकर व राधेश्याम व घनश्याम पुत्रगण रामानन्दन नि० ग्राम हडियागढ़
				1503	सरकारी	गैर कृषि	0.020	खलिहान
				1522	निजी	कृषि	0.010	बिकाउ पुत्र तपेसर व महेश व सुमन्त पुत्रगण रामचन्द्र व श्रीमती सहोदरी पत्नी रामचन्द्र ग्रामवासी
				1536	निजी	कृषि	0.043	महदेइया पत्नी छोटकरुन ग्रा० वा०।
				1532	निजी	कृषि	0.043	सुरेश पुत्र शंकर व रामलखन साहनी पुत्र रामनाथ ग्रामवासी
				1533	निजी	कृषि	0.036	सिंहासन पुत्र सहगु ग्रामवासी
				1568	निजी	कृषि	0.080	सुभावती देवी पत्नी वासुदेव नि० गटिया महिपाल ताप्पा, ईन्द्रदेव पुत्र रामराज ग्रामवासी
				1571	निजी	कृषि	0.030	चन्द्रबलि पुत्र मोहन नि० ग्राम डुमरी
				1573	निजी	कृषि	0.020	विद्याधर मिश्र पुत्र ब्रह्मदेव ग्रामवासी
				1576	निजी	कृषि	0.025	सिंहासन पुत्र सहगु ग्रामवासी
				1577	निजी	कृषि	0.024	वसन्त कुमार पुत्र कपुरी आदि।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1578	सरकारी	गैर कृषि	0.197	सड़क
				1579	निजी	कृषि	0.027	मलहु व रामप्रवेश पुत्र लखन।
				1580	निजी	कृषि	0.032	भागवत पुत्र गजराज ग्रा०वा०।
				1614	सरकारी	गैर कृषि	0.010	रास्ता
				1636	निजी	कृषि	0.057	शंकर व सालिक पुत्रगण विन्ध्याचल नि० ग्राम पिपरी
				1679	निजी	कृषि	0.048	श्रीमती सितनी देवी पत्नी शत्रुघन ग्रामवासी, विश्वनाथ संपति ग्रामवासी, सीताराम पाण्डेय व राजेन्द्र पाण्डेय व राजेश्वर पाण्डेय व रविन्द्र पाण्डेय पुत्रगण रामरतन पाण्डेय ग्रामवासी, ताहीर हुसैन पुत्र मदीना ग्रामवासी, जगदीश पुत्र कुमार व पारसनाथ व पुत्र बंकेश्वर व रामनरेश व धन्वजय पुत्रगण सारदा व दयानन्द पुत्र दीपचन्द ग्रामवासी व लालजी पुत्र लक्ष्मण नि० ग्रामव हेतिमपुर व राजेन्द्र कुमार व नरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामप्यारे सिंह व ज्ञानप्रकाश सिंह पुत्र चौधरी चरण सिंह नि० ग्राम डुमरी व राजकेश्वर व बाबुराज व नागेन्द्र पुत्रगण हरे नि० ग्राम नतही मजीयागढ़
				1683	निजी	कृषि	0.042	शिवप्रताप सिंह पुत्र बकरू दास ग्रामवासी
				1694	सरकारी	गैर कृषि	0.135	आबादी
				1698	सरकारी	गैर कृषि	0.123	बंजर
				1485	निजी	कृषि	0.006	रामदेव, व रमेश व मुन्नु व श्रीमती रीता देवी व श्रीमती रसूला देवी व श्रीमती रमूला देवी व श्रीमती रीता देवी।
			(2) डूमरी	64	निजी	कृषि	0.006	काली प्रसाद व मेघनाद पुत्रगण कुमार व रामनरेश व रामरूप व सुवास व सर्वजीत पुत्र श्यामलाल ग्रामवासी
				68	सरकारी	गैर कृषि	0.010	शिवपुजन पुत्र ब्रम्हदेव व अशोक कुमार व अजय कुमार व संतोष कुमार पुत्रगण नन्दकिशोर नि० ग्राम शिरसिया, नाली
				69	सरकारी	गैर कृषि	0.052	चक मार्ग
				70	निजी	कृषि	0.038	सुरेन्द्र व ओम्प्रकाश पुत्रगण अयोध्या व राम कैलाश व रामभरोस पुत्रगण बाबुराम नि० ग्राम भुजौलि व श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी सारदा यादव नि० ग्राम पिपरी व श्रीमती रमावती देवी पति गणेश साकिम महुआरी व श्रीमती रम्भासी देवी पति विश्राम नि० ग्राम करभहा उग्रसेन त० डूमरी, चक मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				71	निजी	कृषि	0.015	श्रीमती बईली देवी विधवा श्यामलाल व रामनरेश पुत्र श्यामलाल व रामभरोस पुत्र बाबुराम नि० ग्राम भुजौलि
				74	सरकारी	गैर कृषि	0.072	शिव मन्दिर
				92	निजी	कृषि	0.020	भान व सुन्दर पुत्रगण सुघन व मुरैली पुत्र शिवरतन ग्रामवासी
				94	निजी	कृषि	0.100	फिरगी व रंगी पुत्रगण रामलगन नि० ग्राम विशम्भरपुर व श्रीमती फुलवती जौजे वंशराज नि० ग्राम फुरकुधनी
				95	सरकारी	गैर कृषि	0.027	सड़क
				98	सरकारी	गैर कृषि	0.042	सड़क
				99	निजी	कृषि	0.126	सारदा व महिमा व श्रीमती मंजु देवी पत्नी रामप्रवेश साकिम भंडरा व प्रदीप व रविन्द्र पुत्रगण रामदेव व श्रीकेश राय पुत्र हरिकेश राय ग्रामवासी व श्रीमती दुखनी देवी पति असम्भव नि० ग्राम पिपरा व श्रीमती बछवी देवी पत्नी माखनलाल व श्रीमती कंसरी देवी पत्नी सुदर्शन नि० ग्राम सिरसिया व विदेशी प्रसाद पुत्र सुमरी प्रसाद व भंडरा ग्रामवासी
				103	सरकारी	गैर कृषि	0.015	बंजर
				104	निजी	कृषि	0.042	फेकु पुत्र जाखर ग्रामवासी, अनिल पुत्र राम लखी नि० ग्राम महुआवाँ, तसिरुद्दीन व मैनूद्दीन पुत्रगण हबिब, ग्रा० नि० श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रामनाथ प्रसाद नि० ग्रामवासी, रामधनी पुत्र गणेश नि० ग्राम परसौनी
				208	निजी	कृषि	0.052	नरेन्द्र, रबीन्द्र, आनन्द पाल पुत्र गण रामभरोसे
				209	निजी	कृषि	0.057	सुरेन्द्र व ओम्प्रकाश पुत्रगण अयोध्या व रामकैलाश व रामभरोसे पुत्रगण बाबुराम नि० ग्राम भुजौलि
				211	सरकारी	गैर कृषि	0.085	आबादी
				214	सरकारी	गैर कृषि	0.008	बंजर
				220	निजी	कृषि	0.002	सुरेन्द्र आदि।
				227	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नाली
				229	सरकारी	गैर कृषि	0.150	सुरेन्द्र व ओम्प्रकाश पुत्रगण अयोध्या व रामविलास व रामभरोसे पुत्रगण बाबुराम नि० ग्राम भुजौलि, सड़क

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				230	निजी	कृषि	0.093	हदीश व शहिद व सलीम पुत्रगण फैजल ग्रामवासी व श्रीमती बरसना देवी पत्नी सुवास व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी मोहन ग्रामवासी,
				233	निजी	कृषि	0.023	बंकेश्वर पुत्र देवनारायन नि० ग्राम भुजौलि
		(3) बिशम्भरपुर		392	निजी	कृषि	0.010	विश्वनाथ व रामायन पुत्रगण जंगी नि० ग्रा० झुगवा
				393	निजी	कृषि	0.025	सुदामा पुत्र चन्द्रभूषण ग्राम झुगवा
				394	निजी	कृषि	0.080	श्रीमती फूलमती पत्नी वलिस्टर व श्रीमती विजया शर्मा पत्नी जयनारायन सा० हरैया जथा पकड़ी गांगरानी व श्रीमती राजकली पत्नी गुलाबचन्द सा० पिपरी व भानुप्रताप व अद्या व राजेश पुत्रगण आवूराम ग्रा० वा०
				396	सरकारी	गैर कृषि	0.003	चकमार्ग
				398	निजी	कृषि	0.015	सत्यनारायण व श्रीनारायण व सुरेन्द्र व राजेन्द्र व रविन्द्र पुत्रगण शिवपूजन ग्रा० विशुनपुर विन्दवलिया
				423	सरकारी	गैर कृषि	0.003	नाली
				424	सरकारी	गैर कृषि	0.005	रास्ता
				439	निजी	कृषि	0.012	प्रहलाद पुत्र रामरूप ग्राम झुगवा
				440	निजी	कृषि	0.012	प्रहलाद पुत्र रामरूप ग्राम झुगवा
				441	निजी	कृषि	0.075	रामकिशुन पुत्र रामलखन ग्राम झुगवा
				445	निजी	कृषि	0.040	रामआधारपुत्र मुखुत वहीरा पाण्डेय व मोती पाण्डेय पुत्रगण शिवपूजन ग्राम झुगवा
				446	सरकारी	गैर कृषि	0.010	छवर
				448	निजी	कृषि	0.004	चन्द्रिका पुत्र रामलगन नि० ग्रा० झुगवा।
				451	निजी	कृषि	0.090	माया देवी पुत्री रामलाल सा० कसया
				452	निजी	कृषि	0.036	रामानन्दव सच्चिदानन्दप गिरजानन्द पुत्रगण मेउर ग्राम मुजहना हा० मु० विश्वम्भरपुर रामती व रामधारी पुत्रगण वच्चू नि० ग्रा० झुगवा शोभीलाल पुत्र रिखीदेव नि० ग्रा० परासखाड़
				453	निजी	कृषि	0.032	अवधरानी पत्नी स्व० इन्द्रसन तिवारी नि० मठिया मिश्र हरेकिशुन पुत्र वच्चू ग्रा० झुगवा हीरा पाण्डेय व मोती पाण्डेय पुत्रगण शिवपूजन ग्रा० झुगवा
				454	निजी	कृषि	0.029	हीरा पाण्डेय व माती पाण्डेय पुत्रगण शिवपूजन ग्रा०वा०।
		(4) झुगवा		47	निजी	कृषि	0.045	गुलाब व सुदर्शन व अमरजीत पुत्रगण रामजतन आदि।
				49	निजी	कृषि	0.048	कपिलदेव पुत्र द्वारिका सिंह आदि।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				53	निजी	कृषि	0.082	मदन पुत्र विन्ध्याचल भोला गिरधारी आदि।
				57	निजी	कृषि	0.040	रामचन्द्र पुत्र नन्नकु ग्रा० वा०।
				58	निजी	कृषि	0.030	प्रहलाद पुत्र रामरूप ग्रा० वा०।
				59	निजी	कृषि	0.025	शिवधनी पुत्र जित्त आदि।
				60	सरकारी	गैर कृषि	0.020	चकमार्ग।
				62	निजी	कृषि	0.035	देवनाथ व रामनाथ राजेश कुमार आदि।
				64	सरकारी	गैर कृषि	0.002	रास्ता।
				107	निजी	कृषि	0.003	जयप्रकाश व हरिन्द्र नाथ आदि।
				119	निजी	कृषि	0.010	केदारनाथ पाण्डेय आदि।
				240	सरकारी	गैर कृषि	0.006	घनुसी पुत्र अंगद आदि।
			(5) बिशुनपुर बिन्दवलिया	258	सरकारी	गैर कृषि	0.021	नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भागवत सिंह ग्रामवासी, सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार
				267	निजी	कृषि	0.160	रघुनन्दन पुत्र टहल व रामराज व कंगलु पुत्रगण सोमारी व चौकर पुत्र शंकर ग्रामवासी, ओम्प्रकाश पुत्र गोरखनाथ ग्रामवासी
				365	सरकारी	गैर कृषि	0.036	रास्ता
				510	सरकारी	गैर कृषि	0.013	नहर सिंचाई विभाग
				531	सरकारी	गैर कृषि	0.014	नहर सिंचाई विभाग
				275 / 1560	सरकारी	गैर कृषि	0.114	आबादी, ईण्टर कॉलेज, आबादी, रास्ता,
				711	निजी	कृषि	0.024	अवधकिशोर व राजेन्द्र प्रसाद व मिथिलेश कुमार व अरविन्द कुमार पुत्रगण प्रजापति व चम्पा देवी स्त्री रामवृक्ष ग्रामवासी
				726	निजी	कृषि	0.012	सम्मत पुत्र कन्हैया ग्रामवासी
				727	निजी	कृषि	0.050	रामवृक्ष व रामधारी पुत्रगण जगदेव ग्रामवासी
				728	निजी	कृषि	0.008	भरोसा पुत्र सुखारी ग्रामवासी
				770	निजी	गैर कृषि	0.003	हरिश्चन्द्र पुत्र भरथ।
				772	सरकारी	गैर कृषि	0.013	आबादी होस्टल कुशीनगर
				774	सरकारी	गैर कृषि	0.095	आबादी होस्टल कुशीनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				776	निजी	कृषि	0.007	उकीतितमा भिक्षु व उना मिश्र भिक्षु उर्फ ज्ञानेश्वर शिष्यगण चन्द्रमणि भिक्षु ग्राम विशुनपुर बिन्दवलिया, रामअधार पुत्र मुखुत व हिरा पाण्डेय व मोती पाण्डेय पुत्रगण शिवपुजन व झगरू पुत्र रामलगन व रामजतन व दुर्गा व सारदा व सिंहासन व मोरन पुत्रगण झबूलाल व बाकें पुत्र रामअवतार व उगई पुत्र दमरी व लक्ष्मण व उमापति व उमरावें पुत्रगण सबी व देवधारी व द्वारिका व विभूति व रामअवध पुत्रगण बाबुलाल व विक्रम पुत्र जटा व विश्वनाथ व रामायन पुत्रगण जंगी व सुदामा पुत्र चन्द्रभुषण नि० ग्राम झुगवा
				777	सरकारी	गैर कृषि	0.009	बुद्धा इंटर कालेज कुशीनगर
				794	सरकारी	गैर कृषि	0.105	आबादी, इंटर कालेज
				798	सरकारी	गैर कृषि	0.005	बंजर
				799	निजी	कृषि	0.006	आबादी, इंटर कॉलेज।
				800	सरकारी	गैर कृषि	0.064	बुद्धा डिग्री कालेज कुशीनगर
				803	निजी	गैर कृषि	0.005	बीरज्ञान पुत्र चन्द्रिका, हरिलाल पुत्र राजदेव, गांधी पुत्र इनरदेव व सुबाष चन्द्र राव पुत्र जमुना राव।
		(6) गोपालगढ़		21	निजी	कृषि	0.076	सदीक पुत्र चोकट व पुत्र गुलाब व नसरुद्दीन पुत्र बशीर अहमद नि० ग्राम सबया व श्रीमती कमलेश देवी पत्नी जयप्रकाश सिंह व जयराम नारायण ग्राम सबया
				24	निजी	कृषि	0.030	श्रीमती कृष्णवती देवी पत्नी सारदा प्रसाद ग्राम कसया
				25	सरकारी	गैर कृषि	0.007	पोखर
				72	निजी	कृषि	0.032	मु० सबरी बेबा उदई व सारदा पुत्र गुल्ली ग्रामवासी, राष्ट्रीय राजमार्ग
				193	निजी	कृषि	0.006	चेरीटेबल टस्ट व विनयकुमार व अशोक कुमार व जितेन्द्र कुमार, पु०ग० बागेश्वरी व गोविन्दराज पुत्र विश्वनाथ, विष्णुमोहन पाण्डेय व कृष्ण मोहन पाण्डेय व प्रदीप पाण्डेय पु०ग० मस्तराज पाण्डेय ग्रा० वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				162	निजी	कृषि	0.003	मैनेजर व गुदरी व विजय पुत्रगण झुलन व सोनु ना०वा० उम्र 15 वर्ष स० मु० शांति देवी पुत्र भदन व मु० शांति देवी पत्नी स्व० मदन ग्रामवासी व मुख्तार व तहसिलदार व वकील पुत्रगण ठेगु व नवल सिंह पुत्र सुर्यशलि व वंशराज व कांता व ओम्प्रकाश नारायण पुत्रगण वंशराज ग्रामवास
				391	निजी	कृषि	0.001	गौरीशंकर पुत्र गोपाल व गोपाल पुत्र शीतल ग्रामवासी, लालचन्द व बालचन्द पुत्रगण लखन ग्रामवासी, जगरनाथ सिंह व सम्पति कुमार सिंह पुत्रगण चन्द्रशलि व कपिलदेव व केदार व वीरेन्द्र पुत्रगण गंगादीन नि० गाम सबया, नाली
				414	सरकारी	गैर कृषि	0.005	आबादी
				450	सरकारी	गैर कृषि	0.015	बंजर
				609	सरकारी	गैर कृषि	0.012	नवीन परती
				610	सरकारी	गैर कृषि	0.003	चक मार्ग
				611	सरकारी	गैर कृषि	0.034	आबादी
				414 / 1271	निजी	कृषि	0.015	मंगरू व मोती पुत्र गण रघुबीर ग्रा०वा०।
		(7) अभिनायकपुर		149	निजी	कृषि	0.016	विदारभ पुत्र सुकई ग्रामवासी
				150	निजी	कृषि	0.029	रामवली व हीरा व सीता व राजदेव पुत्रगण लालमनि ग्रामवासी रामवली व हीरा व राजदेव पुत्रगण लालमनि व राजदेव पुत्र लालमनि ग्रामवासी
				155	निजी	कृषि	0.029	असलम पुत्र गोवरी ग्रामवासी
				162	निजी	कृषि	0.037	वेचू पुत्र मंगरू ग्रामवासी
				170	निजी	कृषि	0.036	अशफी व शिव बालक पुत्रगण कालीचरन व भागीरथी व अयोध्या व इन्द्रजीत पुत्रगण वंशी ग्रामवासी
				189	निजी	कृषि	0.024	लल्लन पुत्र रामअधार ग्रामवासी
				196	सरकारी	गैर कृषि	0.036	मरघट
				182	निजी	कृषि	0.242	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
		(8) बरवा		16	निजी	कृषि	0.008	रामसेवक पुत्र चन्द्रपुर ग्रा० वा०
				24 / 930	निजी	कृषि	0.008	बेचू प्रसाद पुत्र विदेश्वरी ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				24	निजी	कृषि	0.016	हसमत पुत्र ईशू ग्रा० वा०
				26	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नई परती
				27	सरकारी	गैर कृषि	0.020	सड़क
				154	निजी	कृषि	0.048	रामसकल व रमेश व नारद पुत्रगण रघुनाथ ग्रा० वा०
				156	निजी	कृषि	0.025	अमरनाथ सिंह व प्रभूनाथ सिंह पुत्रगण प्रहलाद ग्रा० वा०
				173	निजी	कृषि	0.035	वशिष्ठनारायण व धरवीधर पुत्रगण विद्याधर ग्रा० वा०
				175	निजी	कृषि	0.008	चकमार्ग
				358	निजी	कृषि	0.008	नेपाल पुत्र वंशी व पारस पुत्र विन्ध्याचल ग्रा० वा०
				361	निजी	कृषि	0.030	पारस पुत्र वासुदेव ग्रा० वा० व श्रीमती माया देवी पुत्री रामलाल सा० सलेमपुर हा० मु० कसया
				365	निजी	कृषि	0.020	उदयनारायण व व्यास व रामदयाल पुत्रगण रामकिशुन ग्रा० वा०
				366	निजी	कृषि	0.020	मोलाजीय व मुत्सरीय पुत्रगण बंदी ग्रा० वा०
				333	निजी	कृषि	0.310	रमायण व काशी व सेतुवान पुत्रगण सूर्यवली नि० ग्रा० प्रेमकलिया श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी रमायण सिंह सा० कसया अब्दुल कयूम पुत्र मोहम्मद युनूस व अनवाजुहा पत्नी गुलाब सा० फाजिलनगर हा० मु० बरवाँ जंगल रामआधार सिंह पुत्र रामलखन सिंह ग्रा० वा०
				408	निजी	कृषि	0.015	अलगू पुत्र रामजीत व अमर पुत्र सरधन ग्रामवासी
				409	सरकारी	गैर कृषि	0.001	कमशः चकमार्ग
				411	निजी	कृषि	0.028	दीनानाथ व श्रीराम पुत्रगण स्वामी ग्रामवासी
				412	निजी	कृषि	0.020	रमानन्द व रामदेव पुत्रगण खेदू ग्रामवासी
				414	निजी	कृषि	0.020	रामचन्द्र पुत्र रामनगर ग्रा० वा०
				415	निजी	कृषि	0.010	बेचू व शंकर पुत्रगण लालमल्लि व रमाशंकर पुत्र अभिराज ग्रामवासी
				416	निजी	कृषि	0.020	चन्द्रवली व श्रीपत पुत्रगण लक्ष्मी व श्रीमती रामलावती देवी पुत्री विन्ध्याचल ग्रा० वा० व श्रीमती संगीता पत्नी राजेन्द्र ग्रामवासी
				417	निजी	कृषि	0.025	अहमद व रूसमान व समतुल्लाह व शाकीर वा० व गुलाब अहमद ना० वा० उम्र 17 वर्ष सं० माता मु० नसीबा पुत्रगण फतेमुहम्मद व विसमल्लाह व मजीद पुत्रगण ढोढा व हसमत पुत्र ईशू ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				748	निजी	कृषि	0.055	राधाकिशुन पुत्र बुखी ग्रामवासी
				749	निजी	कृषि	0.020	विजयमल पुत्र सोमारी ग्रामवासी
				751	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाली ,कमश:
				855	निजी	कृषि	0.090	अमरनाथ पुत्र रूपई ग्रा० वा०
				856	सरकारी	गैर कृषि	0.003	रास्ता
				857	निजी	कृषि	0.032	नैपाल पुत्र वंशी ग्रामवासी
			(9) करमैनी प्रेमवलिया	65	निजी	कृषि	0.033	बंका व कान्ता व बेदान्ती पुत्रगण बच्चा व सिंहासन पुत्र मुखलाल व प्रमोद पुत्र बृजलाल व रमायन व काशीव श्रेतवान पुत्रगण सुर्यवली ग्रा० वासी
			(10) प्रेमवलिया	77	सरकारी	गैर कृषि	0.080	नवीन परती
				78	सरकारी	गैर कृषि	0.020	खलिहान
				80	सरकारी	गैर कृषि	0.005	एन० एच०
				83	निजी	कृषि	0.010	बांका आदि
				87	सरकारी	गैर कृषि	0.021	आबादी
			(11) धनहा उर्फ मल्लूडीह	153	निजी	कृषि	0.012	बान्ही देवी पत्नी मोती चन्द सा० देह व फाहिया खातून जौजे यीशु ग्रा० वा०
				155	निजी	कृषि	0.240	मोतीलाल पुत्र रामराज ग्रा० वा०
				160	निजी	कृषि	0.053	सुकण्ठ पुत्र इन्द्रासन ग्रा० हरपुर ० श्रीमती लालमती देवी पत्नी रामलोचन ग्रा० करमैनी प्रेमवलिया व श्रीमती असरफी देवी पत्नी बाकेलाल ग्रा० पिपरा हा० मु० ग्रा० वा०
				167	निजी	कृषि	0.005	अमरीश कुमार आदि। रजनिश्वर व रमेश्वर व त्रिवेनी व नर्वदा व कमला देवी आदि।
				183	सरकारी	गैर कृषि	0.015	बंजर
				184	सरकारी	गैर कृषि	0.032	बंजर
				185	निजी	गैर कृषि	0.011	सिंचाई, विभाग मुन्ना व अमेरिकन व सुभाष व प्रदीप पुत्रगण सिंहासन व शिवपुजन व रमाशंकर पुत्रगण गया व राधा पुत्र रघुनाथ ग्रा० वा०
				189	सरकारी	गैर कृषि	0.002	पोखर
				199	सरकारी	गैर कृषि	0.040	आबादी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				208	निजी	कृषि	0.002	लक्ष्मी पुत्र त्रिवेनी ग्रा० वा०
				213	निजी	कृषि	0.067	सिंचाई विभाग, श्रीमती फूलिया देवी ग्रा० धनहा उर्फ मल्लूडीह ग्रा० वा०
				215	निजी	कृषि	0.015	खुदू पुत्र गोवर्धन ग्रा०वा०।
				1066	निजी	कृषि	0.007	रामदास पुत्र मिठाईलाल ग्रा०वा०।
				1067	निजी	कृषि	0.020	रामदास पुत्र मिठाईलाल ग्रा०वा०।
				1296	सरकारी	गैर कृषि	0.100	आबादी डी।
				1337	निजी	कृषि	0.030	शिवपुजन पुत्र शीतल व दमड़ी पुत्र दुर्गा ग्रा० गौरा जिला सारन
				1491	निजी	कृषि	0.002	रजनिश्वर व रमेश्वर पुत्र अवधेश, त्रिवेनी सिंह पुत्र राजधारी सिंह, नर्वदा सिंह पुत्र नौबत सिंह, कमला देवी पत्नी श्यामसुन्दर ग्रा० कुड़वा उर्फ दिलिप नगर।
				1493	निजी	कृषि	0.002	रजनिश्वर व रमेश्वर पुत्र अवधेश प्रसाद नि० ग्राम कुड़वा उर्फ दिलिप नगर
				1494	निजी	कृषि	0.003	रजनिश्वर व रमेश्वर पुत्र अवधेश प्रसाद नि० ग्राम कुड़वा उर्फ दिलिप नगर
				1495	निजी	कृषि	0.003	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्यामसुन्दर ग्रा० कुड़वा उर्फ दिलिप नगर।
				1496	निजी	कृषि	0.003	त्रिवेनी पुत्र जटाधारी आदि।
				1497	निजी	कृषि	0.001	नर्वदा सिंह पुत्र नौबत सिंह ग्रा० कुड़वा उर्फ दिलिप नगर।
				1498	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				1502	निजी	कृषि	0.004	शिवपूजन, रमाशंकर पुत्र गया व राधा पुत्र रघुनाथ व मोती पुत्र ठाकुर व मुन्ना व अमेरिकन व प्रदीप व सुबाष पुत्र सिंहासन वजीर पुत्र गफुर व रोजिद पुत्र दिलमोहम्मद ग्रा० कुड़वा उर्फ दिलीप नगर।
				1503	निजी	कृषि	0.004	वजीर पुत्र गफुर व रोजिद पुत्र दिलमोहम्मद ग्रा० कुड़वा उर्फ दिलीप नगर आदि।
				1506	निजी	कृषि	0.007	सुलेमान व उस्मान व नसीरुदिदन पुत्र वजिर आदि।
				1507	निजी	कृषि	0.007	सुलेमान व उस्मान व नसीरुदिदन पुत्र वजिर आदि।
				1508	निजी	कृषि	0.004	विरेन्द्र व गिरजाशंकर व विवेक व चन्दन पुत्र भिखम, तारा देवी पत्नी भिखम, शिवनाथ व दीनानाथ पुत्र रामधारी ग्रा० अन्ध्या।
				1509	सरकारी	गैर कृषि	0.006	विरेन्द्र व गिरजाशंकर व विवेक व चन्दन पुत्र भिखम, तारा देवी पत्नी भिखम, शिवनाथ व दीनानाथ पुत्र रामधारी ग्रा० अन्ध्या।
				1524	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाली, नहर, ट्यूवेल।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1526	निजी	कृषि	0.015	शिवपूजन व रमाशंकर पुत्र गया आदि।
				1527	निजी	कृषि	0.015	शिवपूजन व रमाशंकर पुत्र गया आदि।
				1528	निजी	कृषि	0.011	मुहम्मद अली पुत्र सोबराती, राजू विन पुत्र रसूल ग्रा०वा०।
				1529	निजी	कृषि	0.005	जमुराती पुत्र फरजन ग्रा०वा०।
				1530	निजी	कृषि	0.035	शेषनाथ व नन्दलाल पुत्र राजमंगल व छट्ट व विश्वनाथ पुत्र शंकर ग्रा०वा०।
				1571	सरकारी	गैर कृषि	0.001	मुख्यमार्ग।
				1572	निजी	कृषि	0.011	बैजनाथ व जयप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर ग्रा० वा० प्रेमवलिया।
				1504	निजी	कृषि	0.005	शिवपूजन व रमाशंकर पुत्र गया व राधा पुत्र रघुनाथ व माती पुत्र ठाकुर मुन्ना अमेरिकन व प्रदीप सुबाष पुत्र सिंहासन ग्रा०वा०।
				1505	निजी	कृषि	0.007	सुलेमान व उस्मान व नसीरुद्दिन पुत्र वजिर आदि।
				1612	निजी	कृषि	0.014	मो० अली व इजरायल पुत्रगण कुर्बान व जुमराती पुत्र फरजन व यासीन व सौकत अली पुत्रगण जुनुम व सहाबुद्दीन पुत्र जालीम व अलहम पुत्र अब्दुल व हनीफ पुत्र जान व सुल्तान पुत्र मो० सइद व इसहाक व लतीफ पुत्रगण सान व वली मु० पुत्र सुकइ व तसीर व साकीर व अलाउद्दीन पुत्रगण इशु ग्रा० वा०
				1616	निजी	कृषि	0.030	कृषक लघु मध्य विधालय मल्लूडीह
				1618	निजी	गैर कृषि	0.056	कृषक लघु मध्य विधालय मल्लूडीह
		(12)	मधुरिया	105	निजी	गैर कृषि	0.002	अम्बिका पुत्र इनर आदि।
				137	सरकारी	गैर कृषि	0.005	सिलिंग
				182	निजी	कृषि	0.012	लक्ष्मी सिंह पुत्र गुचुका नि० ग्रा०
				186	निजी	कृषि	0.049	अवध नरायन व ज्ञानप्रकाश पुत्र छेदी व घोष व मैनेजर व मुख्तार पुत्र बुद्धीराम व मु० जोतिया पत्नी बुद्धीराम मो० स्माराज व संजय व राजीव व राजन पुत्र रामाशंकर व श्रीमती फूलमती पत्नी रामाशंकर व मुन्नी व शिवनाथ पुत्र चोकट व रमाकान्त व रमानंद पुत्र वृजा नि० धुनवलिया
		(13)	धुनवलिया	109	सरकारी	गैर कृषि	0.340	नेशनल हाइवे, सडक
				194	सरकारी	गैर कृषि	0.045	नेशनल हाइवे सडक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				160	निजी	कृषि	0.050	फुलेना पुत्र बालचन्द व रमाशंकर व दयाशंकर व शिव शंकर व आनन्द कुमार पुत्र नन्दन व माधव पुत्र झगरू पंचानन्द व भोलई पुत्र शुभ नारायन व रबीन्द्र पुत्र भुईधर व ध्रुवदेव पाण्डेय व प्रहलाद पाण्डेय व विश्वनाथ पाण्डेय व हेमन्त कुमार पाण्डेय पुत्र भगवती व देवराज व रमेश्वर पुत्र लालचन्द्र व गोपाल पुत्र गोरख व संजय कुमार व गणेश व बिजय पुत्र दुर्गा श्रीमती झेपती पत्नी मुसाफिर व मदन मोहन पुत्र चोकट व श्रीमती लीलावती पत्नी भोलई ग्रा० जोकवा बुजुर्ग
				170	निजी	गैर कृषि	0.005	फुलेना व लक्ष्मी पुत्र बालचन्द व रमाशंकर व दयाशंकर व शिवशंकर व आनन्द कुमार पुत्र नन्दन, माधव पुत्र झगरू, पुचानन्द व भोलई पुत्र शुभनारायन, रविन्द्र पुत्र भुईधर व मदनमोहन पुत्र चोकट, मु० द्रोपदी पत्नी मुसाफिर, भगवती व दुवराज व रामेश्वर पुत्र बालचन्द व गोपाल पुत्र गोरख व सुखदेव पुत्र गौरी व विजय व गणेश व संजय पुत्र दुर्गा ग्राम जोकवा बुजुर्ग आदि।
				171	निजी	गैर कृषि	0.010	फुलेना व लक्ष्मी पुत्र बालचन्द व रमाशंकर व दयाशंकर व शिवशंकर व आनन्द कुमार पुत्र नन्दन, माधव पुत्र झगरू, पुचानन्द व भोलई पुत्र शुभनारायन, रविन्द्र पुत्र भुईधर व मदनमोहन पुत्र चोकट, मु० द्रोपदी पत्नी मुसाफिर, भगवती व दुवराज व रामेश्वर पुत्र बालचन्द व गोपाल पुत्र गोरख व सुखदेव पुत्र गौरी व बिजय व गणेश व संजय पुत्र दुर्गा ग्राम जोकवा बुजुर्ग आदि।
				185	निजी	कृषि	0.085	फुलेना पुत्र बालचन्द व रमाशंकर व दयाशंकर व शिव शंकर व आनन्द कुमार पुत्र नन्दन व माधव पुत्र झगरू पंचानन्द व भोलई पुत्र शुभ नारायन व रबीन्द्र पुत्र भुईधर व ध्रुवदेव पाण्डेय व प्रहलाद पाण्डेय व विश्वनाथ पाण्डेय व हेमन्त कुमार पाण्डेय पुत्र भगवती व देवराज व रमेश्वर पुत्र लालचन्द्र व गोपाल पुत्र गोरख व संजय कुमार व गणेश व बिजय पुत्र दुर्गा श्रीमती झेपती पत्नी मुसाफिर व मदन मोहन पुत्र चोकट व श्रीमती लालावती पत्नी भोलई ग्रा० जोकवा बुजुर्ग
				111	सरकारी	गैर कृषि	0.058	नेशनल हाइवे सडक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				122	निजी	कृषि	0.001	कृष्ण चन्द पाण्डेय व प्रकाश चन्द पाण्डेय पुत्र राममूरत पाण्डेय व विपुल कुमार पाण्डेय पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डेय व समनरेश पुत्र चन्द्रशेखर व राजेश पुत्र शिवाकान्त व श्रीमती कमला देवी पत्नी शिवाकान्त व सत्यदेव पुत्र श्रीनिवास व हरीशचन्द्र पुत्र राम हर्ष व श्रीनिवास पुत्र अवध बिहारी ग्रा० मधुरिया व संतुदेव राम पुत्र चोकट व सतीशचन्द्र व ओमप्रकाश व धमेन्द्र पुत्र छेदी मु० दुर्गावती पत्नी छेदी व अनिल कुमार व सुनील कुमार पुत्र परमहंस राम मु० सुभासिनी पत्नी परमहंस व राहुल व अमित कुमार ना०१५ व १२ वर्ष व सं० मु० सूर्यसती माता पत्नी उमेशचन्द्र व मु० फुरसती पत्नी उमेशचन्द्र
				128	सरकारी	गैर कृषि	0.036	नेशनल हाइवे सडक
				142	सरकारी	गैर कृषि	0.032	नेशनल हाइवे सडक
				149	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नयी परती
				152	निजी	कृषि	0.008	फुलेना पुत्र बालचन्द्र व रमाशंकर व दयाशंकर व शिव शंकर व आमन्द कुमार पुत्र नन्दन व माधव पुत्र झगरू पंचानन्द व भोलई पुत्र शुभ नरायन व रबीन्द्र पुत्र भुईधर व ध्रुवदेव पाण्डेय व प्रहलाद पाण्डेय व विश्वनाथ पाण्डेय व हेमन्त कुमार पाण्डेय पुत्र भगौती व देवराज व रमेश्वर पुत्र लालचन्द्र व गोपाल पुत्र गोरख व संजय कुमार व गनेश व बिजय पुत्र दुर्गा श्रीमती झेपती पत्नी मुसाफिर व मदन मोहन पुत्र चोकट व श्रीमती लालावती पत्नी भोलई ग्रा० जोकवा बुजुर्ग
				158	सरकारी	गैर कृषि	0.012	नेशनल हाइवे सडक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				159	निजी	कृषि	0.008	फुलेना पुत्र बालचन्द व रमाशंकर व दयाशंकर व शिव शंकर व आनन्द कुमार पुत्र नन्दन व माधव पुत्र झगरू पंचानन्द व भोलई पुत्र शुभ नरायन व रबीन्द्र पुत्र भुईधर व ध्रुवदेव पाण्डेय व प्रह्लाद पाण्डेय व विश्वनाथ पाण्डेय व हेमन्त कुमार पाण्डेय पुत्र भगौती व देवराज व रमेश्वर पुत्र लालचन्द्र व गोपाल पुत्र गोरख व संजय कुमार व गनेश व बिजय पुत्र दुर्गा श्रीमती झेपती पत्नी मुसाफिर व मदन मोहन पुत्र चोकट व श्रीमती लालावती पत्नी भोलई ग्रा० जोकवा बुजुर्ग
			(14) जोकवा बुजुर्ग	294	निजी	कृषि	0.040	राजकुमार व रामअशीष पुत्र हीरा ग्रा० वा० व सीताराम व पारस व काशीनाथ व चयमूरत पुत्र लोहवान
				295	निजी	कृषि	0.022	अमीना खातून पत्नी अजमुल हक ग्रा० दुरवलिया व श्रीमती फुलचूरी पत्नी सुदामा ग्रा० सेमरा हरदो व इस्माइल अंसारी पुत्र मुनेबी अंसारी नि० धुरवलिया व जुम्नन अंसारी पुत्र समशेर अंसारी ग्रा० गाजीरीवर व बिन्धयाघल पुत्र बंशी व अमरजीत व रामायन पुत्र नंदन ग्रा० धुनवलिया व सुलभ व कन्हइया पुत्र सत्यनरायन ग्रा० वा०
				359	निजी	कृषि	0.017	आरती पत्नी सुरेश झगरू व रामानन्द पुत्र फागू व शिवजी बाबू राम व तूलसी पुत्र रामदिहल व रामदेशी पुत्र सहदेव ग्रा० वा०
				365	निजी	कृषि	0.025	रामरक्षा पुत्र तिलक ग्रा० माधोपुर व श्रीमती कलावती देवी पत्नी चन्द्रबली ग्रा० बेलहरी व प्रभुनाथ सिंह व अशोक कुमार पुत्र शंकर सिंह ग्राम कृपा पट्टी व श्रीमती ज्ञानती देवी पत्नी सुबाष चन्द नि० कौला मुडेरा व ओमप्रकाश व श्रीनिवास व धमेन्द्र व शैलेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र प्रताप व श्रीमती साबित्री देवी पत्नी सुरेन्द्र प्रताप नि० ग्रा० पिपरा करन पुर हा०मु० जोकवा बुजुर्ग व श्रीमती नूरजहाँ बेगम पत्नी छटठी प्रसाद ग्रा० देहवा पट्टी व श्रीमती जानकी देवी पत्नी रमाशंकर जयसवाल ग्रा० शिवपुर बुजुर्ग
				212	सरकारी	गैर कृषि	0.050	बंजर
				214	सरकारी	गैर कृषि	0.004	रास्ता
				215	सरकारी	गैर कृषि	0.007	आबादी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				263	सरकारी	गैर कृषि	0.002	रास्ता
				213	सरकारी	गैर कृषि	0.022	पोन्गरी
				298	निजी	गैर कृषि	0.003	धुनई राय पुत्र महेन्द्र रय ग्रा०वा०
				372	निजी	गैर कृषि	0.005	जगरनाथ पुत्र जुगुल व बंका पुत्र गत्ती व श्रीमती नूरजहां बेगम पत्नी छट्दू प्र० ग्रा०वा०।
				373	निजी	गैर कृषि	0.006	जगरनाथ पुत्र जुगुल व बंका पुत्र गत्ती व श्रीमती नूरजहां बेगम पत्नी छट्दू प्र० ग्रा०वा०।
				374	निजी	गैर कृषि	0.007	जगरनाथ पुत्र जुगुल व बंका पुत्र गत्ती व श्रीमती नूरजहां बेगम पत्नी छट्दू प्र० ग्रा०वा०।
				472	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर, पुलिस चौकी।
				489	निजी	कृषि	0.002	मोहन व विकास पुत्र रामनाथ व विश्वनाथ व मनोज पुत्र लालधरीक्षा, खैरुनिश पत्नी अलीराजा ग्रा० लक्ष्मीपुर, श्रीमती बादामी देवी पत्नी विन्ध्याचल व शिवप्रसाद पुत्र गोविन्द ग्रा०वा०।
				493	निजी	गैर कृषि	0.010	नारायण व रामसरन पुत्र इन्द्रजीत ग्रा०वा० आदि।
				494	निजी	गैर कृषि	0.002	शिवजी व बाबूराम व तुलसी पुत्र रामदिहल ग्रा०वा०।
				491	निजी	गैर कृषि	0.008	श्रीमती इन्दू देवी पत्नी रामप्रसाद ग्रा०वा० व रमाशंकर व दलसिंगार ग्रा० फाजिलनगर व श्रीराम व जगदीश व सुबाष पुत्र विश्वनाथ व किशुनदेव पुत्र तिलकधारी आदि।
				475	सरकारी	गैर कृषि	0.010	बंजर नाली।
			(15) अमवा	50	निजी	कृषि	0.020	श्रीमती अंजनी देवी पत्नी राम अशीष ग्रा० सरैया महन्ध पदरी व गोरख पुत्र चोकट व वकील पुत्र अदालत ग्रा० वा० व लालमती देवी पत्नी परसनाथ नि० कनकपुरा व बिजयनाथ पुत्र सीताराम नि० हरैया व मु० मोबिन व हसमत अली व मु० रफीक पुत्र डोभा नि० अवरवां सोफी जज टोला बेलवा डीह व कौशल्या देवी पत्नी शिव जी नि० ग्रा० धौरहरा व श्रीमती मालती देवी पत्नी रामचन्द्र सा० कोटवा करजई व श्रीमती साहेबना पत्नी मुत्र सहाय अंसारी नि० ग्रा० मोबिन ठेकुलईया
				156	निजी	कृषि	0.001	रमाशंकर पुत्र मनराखन ग्रा०वा० व सुदामा पुत्र विन्देश्वरी ग्रा०वा० आदि।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				478	निजी	कृषि	0.023	श्रीराम सिंह व सुबाष व जगदीश व बृजनरायन पुत्र लक्ष्मी सिंह ग्रा० सोहन्द व आलोक कुमार व दीपक कुमार पुत्र बलिराम सा० धनहा
				479	निजी	कृषि	0.010	रमाशंकर व रामसागर पुत्र मनराखन व सुदामा पुत्र बिन्देश्वरी ग्रा०वा०
				480	निजी	कृषि	0.016	बुनेला पुत्र हरिकिशन नि० ग्रा० जोकवा बुजुर्ग व श्रीमती कलावती देवी पत्नी चन्द्रदेव सा० जोकवा खुर्द व नंगीना पुत्र सुन्दर ग्रा० जोकवा खुर्द व रामलाल पुत्र पवन ग्रा० वा० व दरोगा व मुनीब व धनेशर व गोपाल पुत्र रामप्रसाद ग्रा० जोकवा बुजुर्ग व सुदामा शर्मा व ब्रह्मा शर्मा व दगदम्बा शर्मा पुत्र सुखरी शर्मा नि० ग्रा० अहलादपुर व चंद्रिका प्रसाद व चंचल प्रसाद पुत्र रामधारी नि० ग्रा० सोहंग व श्रीमती कलावती देवी पत्नी राजेन्द्र ग्रा० वा० व मोती लाल पुत्र भगवत सा० सरैया महंत पट्टी व रामलाल पुत्र बब्बन ग्रा० वा० व ठगई पुत्र बब्बन ग्रा० वा० व सत्यनरायन
				481	निजी	कृषि	0.016	चंद्रिका प्रसाद व चंचल प्रसाद पुत्र रामधारी नि० ग्रा० सोहंग व श्रीमती कलावती देवी पत्नी राजेन्द्र ग्रा० वा० व मोती लाल पुत्र भगवत सा० सरैया-महंत पट्टी व रामलाल पुत्र बब्बन ग्रा० वा० व ठगई पुत्र बब्बन ग्रा० वा० व सत्यनरायन सौखी व श्रीमती मीरा देवी पत्नी महादेव ग्रा० मधुरिया
				482	निजी	कृषि	0.012	श्रीराम व सुबाष व जगदीश व बृजनरायन पुत्र लक्ष्मी सिंह व योगेन्द्र व विश्वनाथ पुत्र मोती चन्द्र नि० नवतन हल्दी त० चौरा बडगांव व प्रदीप कुमार व अरुण कुमार व अशोक कुमार पुत्र शारदा प्रसाद व परमहंस व रामप्रसाद व प्रभुनाथ व मुन्नर पुत्र झगरू ग्रा० वा०
		(16) पिपरा रज्जब		53	निजी	कृषि	0.020	महातम व नरायन व शंकर व सीताराम पुत्र सरजू ग्रा० वा० व यासमीन बेगम पुत्र अलाउद्दीन ग्रा० वा०
				284	सरकारी	गैर कृषि	0.105	पोखरी
		(17) गड़हिया		473	निजी	कृषि	0.002	मु० मतिन कुरैशी व बशरुद्दीन नि० ग्राम पिपरा रज्जब, खन्ती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				479	निजी	कृषि	0.002	कमालुद्दीन व सलाउद्दीन व जलालुद्दीन ग्राम पिपरारजब, गोरख पुत्र सोमारी ग्राम पिपरारजब, नईम व नसीम व शकील अहमद व शमिम अहमद पुत्र निजामुद्दीन अली ग्राम कुचिया भटिया
				870	निजी	कृषि	0.097	'शेर माहम्मद पुत्र नथुनी साह ग्रामवासी, दुवरी व रामकृपाल पुत्र पुरन नि० ग्राम फाजिल नगर, दुवरी व रामकृपाल पुत्र पुरन नि० ग्राम फाजिल नगर रामचन्द्र व भगौति पुत्र मोहन व रामलोटन पुत्र बहादुर ग्राम फाजिल नगर, आलीम व आसिम पुत्र नियामत नि० ग्राम महुआवाँ, महावीर व रघुवीर पुत्रगण जगरनाथ साहू ग्राम फाजिल नगर, रामाशंकर पुत्र ईन्द्रदेव ग्रामवासी, सुदर्शन व छेदी व श्रीकांत व हंसराज व जीवबोध नि० ग्राम फाजिल नगर, श्रीमती वीरबहादुर पत्नी जमुना ग्रामवासी, नवीहसन पुत्र शेख ईमामुद्दीन ग्रामवासी, बिसमिल्लाह व बदिस व सुमान व शहिर पुत्र कुनकुन व श्रीमती बौखी पत्नी राजकरीम ग्रामवासी, विश्वनाथ व गोहारी व बृजनारायण व रामअशिष पुत्र धरम ग्रामवासी, आबादी,
				877	निजी	कृषि	0.001	अमर व रामदेवी पुत्र ठाकुर प्रमकुमार व कपलेश व विजय कुमार पुत्र विन्ध्याचल व परिक्षण व गया पुत्र सुकई व राजाराम पुत्र बबन व वीरेन्द्र व रमेन्द्र पुत्र बलिराम व किशोरी व बलिराम पुत्र किशुनदेव व रामबलि व सुवास व हीरालाल पुत्र श्रीराम जवाहीर व लालबाबु व छोदेलाल पुत्र भगवान व सबरेजी व रामेश्वर सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह ग्राम भंगरीकर व हजारा खातुन पत्नी रोज मोहम्मद साकिम महुआवाँ
				895	निजी	कृषि	0.013	(आबादी) श्रीमती शान्ती देबी जौजे श्याम बदल नि० ग्र० बौरागी पट्टी व श्रीमती रामपरीता जौजे खेनहर नि० ग्र० टीकम्पा व श्रीमती नगीना जौजे फेंकू निवासी ग्र० बेवा रामजस व हमला पुत्र राजबंशी ग्र० वा० बखरी दूरजप्पा व रामबली पुत्र बन्दा निवासी ग्र० फाजिलनगर व श्रीमती शान्ती देबी जौजे दरोगा ग्र० पगरा
				871	सरकारी	गैर कृषि	0.156	आबादी, सीलिंग
				900	सरकारी	गैर कृषि	0.032	खन्ती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				906	सरकारी	गैर कृषि	0.008	नहर
				1028	निजी	मकान	0.003	सुरेश प्रसाद व मनोज कुमार व विनोद कुमार पुत्र शंकर ग्राम फाजिल नगर
				1067	निजी	मकान	0.023	सिंहासन व पौहारी पुत्र कोलेसर व स्वामीनाथ पुत्र वंशी व राजदत्त पुत्र मेनेसर व श्यामलाल पुत्र चौधुर ग्राम पिपरारजव, आलमगिर व जाकिर हुसैन पुत्र अमरुद्दीन
				896	निजी	कृषि	0.001	मत्सराज व रामगति व रामनरेश पुत्र श्रीकृष्ण आदि।
				909	निजी	कृषि	0.001	रामदास पुत्र रघुवर ग्रा० फाजिनगर व श्रीमती नयनपति देवी पत्नी राधाकिशुन व श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी रामकिशुन व विश्वनाथ व जगरनाथ व रामजीत व शिवनाथ व बलजीत व नौरंगीलाल पुत्र मुनि सिंह आदि।
				923	निजी	कृषि	0.003	जैनुल आबदीन पुत्र अलीमुहम्मद।
				1022	सरकारी	गैर कृषि	0.227	सड़क
				1023	सरकारी	गैर कृषि	0.077	खन्ती
				1024	सरकारी	गैर कृषि	0.190	सड़क
		(18) फाजिल नगर		387	निजी	मकान	0.012	चिरंजीवी व अशोक व संतोष पुत्रगण अर्जुन व हनुमान पुत्र रामशुभग व रामावति पत्नी सोमप्रकाश व कैलाश व ओमप्रकाश पुत्रगण सुदर्शन व प्रह्लाद व भुव व काशी व मोहन व त्रिलोकि पुत्रगण बुझावन व प्रेमचन्द पुत्र बन्धु ग्रामवासी
				998	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नहर
				998 / 1303	निजी	कृषि	0.002	राघवधर व केशवधर व उदयधर पुत्र गण विन्धयाचल ग्रा०वा०
				1001	निजी	गैर कृषि	0.005	राजेश कुमार पुत्र राघव ग्रा०वा०।
				1003	निजी	कृषि	0.048	(आबादी) ओंकार व रामचन्द्र पुत्र गण यमुना व कमलेश व राजेश ना० उम्र क्रमशः वर्ष व सप्तदश वर्ष पुत्र गण मारकण्डेय सं० श्रीमती गायत्री माता स्वयं बा० व बलिराम व जनार्दन ना० क्रमशः 13 वर्ष व 11 वर्ष सं० श्रीमती कलावती पुत्र गण रामजीत व श्रीमती कलावती पत्नी रामजीत व लालजीत व केदार पुत्र बीरझन नि० ग्रा० तरुगुनिया व रामायन पुत्र बाबूराम व रामचन्द्र पुत्र सीताराम नि० ग्रा० देवपोखर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(19) काजीपुर उर्फ बेलवा छट्टू	8	सरकारी	गैर कृषि	0.012	नाला
				12	निजी	कृषि	0.115	आत्मा पुत्र ढोढा व सुदामा पुत्र लालू व रामाधार व रामाज्ञा पुत्रगण नथुनी व लक्ष्मण पुत्र शीतल ग्रामवासी जरीना खातून पत्नी शमसुज्जमा सा० फाजिलनगर
3		तमकुही	(1) बिसुनपुर	102	निजी	कृषि	0.012	श्रीमती जियनी पत्नी भिखारी नि अमवा खास टोला हरसुपट्टी व गोवरीशकर व गनेश पुत्र गुनजेश्वरी निवासी मतलुछापरा घुरुपनारायन व वशीधर विजय नाथ विजय बाहदुर पुत्र गण शिवपुजन व राज किशोर पुत्र मालिक ग्राम वासी पखिहवा उर्फ करजहा घनुष घारी पुत्र बाबु राम वा गनेश
				103	निजी	कृषि	0.061	श्रीमती नोजादी पत्नी ढोन्हर व विधासागर व जार्नदन पुत्र ग ढोन्हर नि मतलुछापरा
				118	निजी	कृषि	0.013	गौरी शंकर व गनेश पुत्रगण गंजेश्वरी नि० मतलुक छापरा व श्रीमती बिन्दा देवी पत्नी रामनरेश नि० गौरा जिला— गोपालगंज बिहार हा०मु० फाजिलनगर। व श्रीमती रामसुरतिया पत्नी रामकिशुन ग्राम गौरा बाजार गोपालगंज बिहार व साहब हुसेन पुत्र नूर मुहम्मद आदि।
				119	निजी	कृषि	0.007	धवनारायन व वशीधर व विजयनाथ व विजय बाहदुर पुत्र गण शिवपूजन व राजकिशोर पुत्र मालिक ग्रा०वा० पखिहवा उर्फ करजहा। विनोद कुमार, अखिलेश कुमार पुत्रगण केदारनाथ सा० पिपरा कनक, श्रीमती शिवकुमारी पत्नी अमला व श्रीमती कलावती पत्नी ज्ञानप्रकाश नि० बोलुआ तकिया आदि।
				120	निजी	कृषि	0.012	बालखिला पुत्र मोहर नि० तेतरिया व रामभरथ व रामचन्द्र व शिवराज पुत्र परसाद नि० ग्रा० दोदरा व सन्नाउल्लाह पुत्र गनी आदि।
				121	निजी	कृषि	0.007	बालखिला पुत्र मोहर नि० तेतरिया व रामभरथ व रामचन्द्र व शिवराज पुत्र परसाद नि० ग्रा० दोदरा व सन्नाउल्लाह पुत्र गनी आदि।
			(2) अहलादपुर	511	सरकारी	गैर. कृषि	0.226	गण्डक कैनाल विभाग
				513	निजी	कृषि	0.030	शवीहुलहसन वजीहुलहसन मलीहुलहसन फहीमुलहसन नफीसुलहसन हसीवुलहसन पुत्रगण मंजूर हसन ग्रा० बेलवा चित्तू उर्फ काजीपुर गण्डक कैनाल विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				514	निजी	कृषि	0.030	शहीहुलहसन वजीहुलहसन मलीहुलहसन फहीमुलहसन नफीमुलहसन हसीवुलहसन पुत्रगण मंजूर हसन ग्रा0 वेलवा वित्तू उर्फ काजीपुर गण्डक कैनाल विभाग
				523	सरकारी	गैर कृषि	0.062	नेशनल हाइवे
		(3) देवरिया विशुनदयाल		173	सरकारी	गैर कृषि	0.015	नाली
				180/1	निजी	कृषि	0.112	मुस्तफा व रमतुल्लाह पुत्र गण मुंशी नि0 देवरिया विशुनदयाल।
				180/2	सरकारी	गैर कृषि	0.023	गण्डक कैनाल विभाग
				183	सरकारी	गैर कृषि	0.028	गण्डक कैनाल विभाग
				187	निजी	कृषि	0.145	मगरू व मिठाई पुत्र गण श्याम लाल व बूद्ध व गोविन्द पुत्र गण रंगी लाल व सिंगासन व बाबू लाल व भृगुराज पुत्र गण पूस ग्रा0 महुआ व गण्डक कैनाल विभाग
				189	सरकारी	गैर कृषि	0.050	गण्डक कैनाल विभाग
				192	निजी	कृषि	0.036	मंजूर पुत्र जान मो0 हिताबुल्ला व निजामुद्दीन व हसमूद्दीन व सहाबूद्दीन व रियाजूद्दीन पुत्र गण मो0 असलम व भोला जिन व मंजूर पुत्र गण जान मो0 मोमताज अली इन्त्याज पुत्र गण वाजिद ग्रा0वासी व गण्डक कैनाल विभाग
				220	सरकारी	गैर कृषि	0.096	पोखरी
				221	सरकारी	गैर कृषि	0.040	बंजर
				222	निजी	कृषि	0.053	गण्डक कैनाल विभाग
				158	सरकारी	गैर कृषि	0.012	सेक्टर रोड
				193	सरकारी	गैर कृषि	0.013	कब्रिसतान
				200	निजी	कृषि	0.030	श्याम सुन्दर पुत्र रमाकान्त व राजेश्वर पुत्र बच्चा नि0 ग्रा0 महुआ व हबीब व रोजीद व जाहिद पुत्र गण नूर मो0 ग्रा0 वासी व श्याम सुन्दर पुत्र रमाकान्त व राजेश्वर पुत्र बच्चा राधेश्याम पुत्र बालदीला व चंद्रिका व हरीशचन्द्र पुत्र गण ब्यास मल्ल नि0 ग्रा0 महुआ हकीम व रोजिद व जाहिद पुत्र गण नूर मो0 ग्रा0 वासी
				202	सरकारी	गैर कृषि	0.050	गण्डक कैनाल विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				206	सरकारी	गैर कृषि	0.061	गण्डक कैनाल विभाग
				211	सरकारी	गैर कृषि	0.042	गण्डक कैनाल विभाग
				223	निजी	कृषि	0.012	हबीब व रोजित व वहीद पुत्र गण नूर मो० ग्रा०वासी
				229	निजी	कृषि	0.002	सीताराम पुत्र कुनकुन व सुरेश व विरेन्द्र कुमार व हरेन्द्र कुमार व जोगिन्द्र कुमार व उपेन्द्र कुमार व सूर्यनाथ पुत्र गौरी शंकर बाबू नन्दन व गोस्व पुत्र गण श्रीराम नि० ग्रा० महुआ
				231	सरकारी	गैर कृषि	0.065	शब्बीर अहमद पुत्र इद्रीश ग्रा०वासी व गण्डक कैनाल विभाग
				245	सरकारी	गैर कृषि	0.017	रामचन्द्र व रामदास व मोतीलाल व श्रीकिशुन पुत्र गण राम सुभग व पौहारी पुत्र नारायण नि० महुआ व नई परती व गण्डक कैनाल विभाग
				226	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
			(4) महुआवां	482	सरकारी	गैर कृषि	0.011	पोखरी
				519	निजी	कृषि	0.020	राजहश व राजकुमार अव्यस्क उम्र कमशः 12 व 10 वर्ष संरक्षिका मु० फूलवासनी देवी माता पुत्रगण तारा चन्द व परशुराम व हरिशंकर पुत्रगण ठगई व विजय बहादुर पुत्र रामहित ग्रा०वा०।
				520	निजी	कृषि	0.049	सवीर अहमद पुत्र इदरिस नि० ग्रा० देवरिया विशुनदयाल।
				521	निजी	कृषि	0.012	अनंत पुत्र पारसनाथ मु० राजपति देवी पत्नी स्व० पारसनाथ व पवन कुमार प्रदीप कुमार विकास कुमार विश्याल कुमार नावालिगान(पौत्र) उम्र कमशः 15,11,8,4 वर्ष संरक्षिका मंजू देवी माता स्वयं व मंजू देपवी पत्नी राजनारायण।
				522	निजी	कृषि	0.008	श्रीमती दुलारी स्व० पत्नी राजबली व श्रीमती प्यारी पत्नी सागर वर्मा पुत्रीगण का नाम दर्ज है।
				523	निजी	कृषि	0.015	राधाकिशुन, रामचन्द्र, लक्ष्मण व भरत व अनिरुक्ष पुत्रगण रामध्यान श्री मती फूलकुंवरी स्व० पत्नी रामध्यान।
				1086	निजी	कृषि	0.032	कमलेश्वर, राजकिशोर, हरिलाल पुत्रगण जवाहर प्रसाद व संजय व राधेश्याम पुत्रगण रामाशंकर व अशर्फी पुत्र रामऔतार गा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1087	निजी	कृषि	0.032	धूपदेव पुत्र रामनारायण व मु० लोकना वंशा रामदेव व राजदेव व त्रिसभान पुत्रगण रामलखन ग्रा०वा०।
				1088	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर
				1089	निजी	कृषि	0.016	बंजर, रामचन्द्र व सत्येन्द्र व देवेन्द्र पुत्रगण विशुनदेव व योगेन्द्र प्रसाद, नरन्द्र प्रसाद व विकन प्र० तिव पुत्रगण संकर प्रसाद ग्रा०वा०।
				1090	सरकारी	गैर कृषि	0.008	गोखरी
				1097	निजी	कृषि	0.007	किर प्रसाद पुत्र रिखीदेव व रामचन्द्र व सत्येन्द्र व देवेन्द्र पुत्रगण विशुनदेव मु० बवुना वेवा सुखदेव।
				1149	निजी	कृषि	0.032	रामप्रवेश व ज्ञानप्रकाश व जटाशंकर पुत्रगण द्वारिका ग्रा०वा०।
				472	निजी	कृषि	0.003	इजहार पुत्र भूलन व सतार पुत्र अली हसन व सरीफ पुत्र मदीना व इस्लाम व हनीफ पुत्रगण मुसददी ग्रा०वा०।
				488	निजी	कृषि	0.004	श्रीमती ब्रह्मी पत्नी अमिरुद्द ग्रा०वा०।
				524	निजी	कृषि	0.004	राजहंश व राजकुमार अवयस्क उम्र कमशः 12 व 10 वर्ष संरक्षिका मु० फूलवासनी देवी माता पुत्रगण तारा चन्द व परशुराम व हरिशंकर पुत्रगण ठगई व विजय बहादुर पुत्र रामहिता ग्रा०वा०।
				524 / 1322	निजी	कृषि	0.005	राजहंश व राजकुमार अवयस्क उम्र कमशः 12 व 10 वर्ष संरक्षिका मु० फूलवासनी देवी माता पुत्रगण तारा चन्द ग्रा० वा०।
				1159	निजी	कृषि	0.035	अनंत पुत्र पारसनाथ मु० राजपति देवी पत्नी स्व० पारसनाथ व पवन कुमार प्रदीप कुमार विकास कुमार विश्याल कुमार नावालिगान(पौत्र) उम्र कमशः 15,11,8,4 वर्ष संरक्षिका मंजू देवी माता स्वयं व मंजू देवी पत्नी राजनारायण।
				1169	निजी	कृषि	0.010	रामसकल, रामदरश, रामकिशोर पुत्रगण जीवधन व फुलेना व फुलेसर उर्फ फुलेना पुत्र गण हंसराज व जयनारायण व रामचन्द्र व रमाकान्त पुत्रगण श्यामसुन्दर व रामनारायण पुत्र सुन्दर व नरमा देवा देवराज ग्रा०वा०।
				1170	निजी	कृषि	0.016	रामसकल, रामदरश, रामकिशोर पुत्रगण जीवधन व फुलेना व फुलेसर उर्फ फुलेना पुत्र गण हंसराज व जयनारायण व रामचन्द्र व रमाकान्त पुत्रगण श्यामसुन्दर व रामनारायण पुत्र सुन्दर व नरमा देवा देवराज ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(5) पटहेरवा	30	सरकारी	गैर कृषि	0.001	नवीन परती
				34	निजी	कृषि	0.003	जगरनाथ, बन्धू, मुखी लक्ष्मन, दुखी पुत्रगण रामधनी व शिवनाथ, सयुदर्शन, सिंहासन पुत्रगण जददू, परमेसर चन्द्रदेव, सूर्यदेव, व गमहा व ईश्वर वलिग इन्द्रासन, ओप्रकाश पुत्रगण धनेसर ग्रा०वा०।
				125	निजी	कृषि	0.005	रामलाल पुत्र रमेसर व महंथ पुत्र खेलावन व चन्द्रशेखर व प्रोफेसर व प्रेमचन्द पुत्रगण नन्दन ग्रा०वा०।
				352	निजी	कृषि	0.002	राजवंशीलाल पुत्र मोहर ग्रा०वा०।
				357	निजी	कृषि	0.008	राजा पुत्र दहारी व सकल दीप पुत्र दिलर व मु० लक्ष्मीनिया वेवा गुनेसर व धुनषधारी पुत्र जागा व रामदवन व सुरेश पुत्रगण बुद्ध व सुबाष व शेरबहादुर व मैनेजर पुत्रगण बुनेला व कैलास पुत्र रंगी ग्रा०वा०।
				447	निजी	कृषि	0.001	ट्यूवेल, नाली व सिघाई विभाग
				448	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				450	सरकारी	गैर कृषि	0.008	नवीन परती
				468	सरकारी	गैर कृषि	0.288	पुलिस थाना पटहेरवा।
				499	निजी	कृषि	0.100	अरविन्द कुमार, योगेन्द्र कुमार, सेजय व अजय व सुमन कुमार अवयस्क आयु 14 वर्ष सैरक्षक अरविन्द कुमार (भाई सगो) व सुनील पुत्रगण राजेश्वरी झाल ग्रा०वा०। पारसनाथ गुप्ता पुत्र तिलक ग्रा०वा०। सड़क नो हा०
				503	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
				504	निजी	कृषि	0.004	रसीद अहमद व अब्दुल मजीद पुत्रगण दिलमुहम्मद व तेबब पुत्र सुमान नि०ग्रा० सहदौली।
				358	निजी	कृषि	0.012	राजा पुत्र दहारी व सकल दीप पुत्र दिलर व मु० लक्ष्मीनिया वेवा गुनेसर व धुनषधारी पुत्र जागा व रामदवन व सुरेश पुत्रगण बुद्ध व सुबाष व शेरबहादुर व मैनेजर पुत्रगण बुनेला व कैलास पुत्र रंगी ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(6) रजवटिया	80	निजी	कृषि	0.004	नगीना व कन्हैया व रामजीत व इन्द्रजीत पुत्र कमला व चनराय पुत्र मुखी राय व रामचन्द्र व रामविलास व विरेन्द्र पुत्र गण मैनेजर व नथुनी पुत्र राम लखन राय ग्रा० वा० रबी प्रकाश व शिव प्रकाश पुत्र गण हरीबंश सा० अमरवा खुर्द व श्रीमती रूपा देवी पत्नी कमला शिव शंकर ना० उम्र 12 वर्ष सं० गायत्री देवी माता पुत्र गण अमला व श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व० अमला ग्रा० वा० व चकदहवा डेन
				81	निजी	कृषि	0.003	जोगिन्दर सिंह व हरिदर सिंह व उपेन्द्र सिंह ना० उम्र 12 वर्ष सं० श्रीमती रामावती देवी पत्नी नगीना व बिकमाराय व सीताराम राय व बुनेला राय व रमाशंकर राय पुत्र गण देव नारायण व जगत लाल व लल्लन राय पुत्र गण राम परसन व विजय कुमार व रामअवतार बा० व शैलेन्द्र कुमार ना० सं० राजा देवी पुत्र गण मैनेजर व श्रीमती राधिका देवी पत्नी मैनेजर व हरी गोविन्द गण जगबहादुर व हरीगोविन्द पुत्र जगबहादुर (भतीजा) व विजय कुमार व राम अवतार वा० व शैलेन्द्र कुमार ना० उम्र 12 सं० श्रीमती राधिका देवी मैनेजर पत्नी नंदलाल व धर्मन्द्र व संतोष पुत्र गण भदेश्वर (पौत्र) ग्रा० वा० व रबीन्द्र पुत्र ननई राय व रासखी बेवा सूबा राय व ननई पुत्र रूचि राय व नंदलाल व धर्मन्द्र व संतोष पुत्र गण बलेश्वर ग्रा० वा०
				82	निजी	कृषि	0.003	अदालत व हरिगोविन्द व इकीम पुत्र गण मंगल राय व शारदा राय पुत्र ठाकुर दास ग्रा० वासी
				100	सरकारी	गैर कृषि	0.006	चकदहवा डेन चाफ ब्रान्च कान्स टकसन, पोखरी, श्रीमती फूलवासी, देवी जौजे सूर्यदेव राय व सत्यनारायण पुत्र सूर्यदेव राय, जंगबहादुर, राजबहादुर, जीत हादुर राय पुत्रगण भजन राय, अदाल व हरिगोविन्द व हाकिम पुत्र मंगल राय व शारदा राय पुत्र गण ठाकुर राय ग्रा० वा०। नाली, बंजर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				117/ 1127	सरकारी	गैर कृषि	0.024	बच्चा व रामानंद पुत्र गण चन्दर राय व राजेन्द्र पुत्र छेदी व तहसीलदार व मुख्तार व केदार पुत्र गण पलटन राय व मैनेजर पुत्र गोरख राय व वनता पुत्र दल बहादुर व नत्थू व सुरेश पुत्र गण सूरजदेव व रामआधार व रामनरेश पुत्र गण कपिलदेव व अनिरुद्ध व विजय व सरमा पुत्र गण भरोसी राय व विशुन राय व कैलास राय पुत्र गण सकल राय व महेश्वर पुत्र इन्दल ग्रा०वा०। सड़क नेशनल हाइवे कसया तमकुही।
				131	निजी	कृषि	0.002	कृपा राम पुत्र मंगल राय ग्रा० बभनौली
				195	सरकारी	गैर कृषि	0.043	बंजर
				196	निजी	कृषि	0.028	महाराज व महात्म व राजधारी पुत्र गण बेनीराय ग्रा० वा० व सड़क नेशनल हाइवे कसया तमकुही
				199	सरकारी	गैर कृषि	0.049	आबादी
				236	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर
				265	निजी	कृषि	0.008	दरोगा व मंशी व मैनेजर व शम्भू पुत्र गण लखुदेव ग्रा० नि०
				274	निजी	कृषि	0.002	श्रीमती देव पती पत्नी स्व० लक्ष्मी व मुखलाल पुत्र शिवरतन व सुरेन्द्र व शामआसरे व शारदा व महेश व राम अशीष व रामचन्द्र पुत्र गण बच्चन व श्रीकिशुन पुत्र गण झबू व शिवपूजन पुत्र चुन्नी ग्रा० वासी
				278	निजी	कृषि	0.005	बच्चा व रामानन्द पुत्र गण चन्द्रराम व राजेन्द्र पुत्र छेदी व तहसीलदार व मुख्तार व केदार पुत्र गण पलटन राय व मैनेजर पुत्र गोरख व बसन्ता पुत्र दलबहादुर व नत्थू व सुरेश पुत्र गण सूर्यदेव व रामआधार व रामनरेश पुत्र गण कपिलदेव विशुन राय व कैलाश राय पुत्र शंकर राय व महेश्वर पुत्र इन्दल ग्रा० वा० व संजय कुमार व अजय कुमार पुत्र गण नरेश सिंह नि० ग्रा० मथौली व बच्चा राम व रामानन्द पुत्र गण चन्दन ग्रा० वा०
				280	निजी	कृषि	0.004	रहमत पुत्र अलीशेर नि० ग्रा० बभनौली।
				467	सरकारी	गैर कृषि	0.003	बंजर
				575	सरकारी	गैर कृषि	0.004	सड़क ने० हा० कसया तमकुही।
				574	सरकारी	गैर कृषि	0.003	बंजर व भीटा।
				573	सरकारी	गैर कृषि	0.001	घोखरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				111	निजी	कृषि	0.005	भीखम पुत्र चन्दर व मकून व परशुराम पुत्र गण काली प्रसाद नि० ग्राम व नेशनल हाइवे
				112	सरकारी	गैर कृषि	0.002	सड़क नो हा० कसया तमकुही।
				114	सरकारी	गैर कृषि	0.006	अदालत व हरिगोविन्द व हकीम पुत्र गण मंगल राय व शारदा राय पुत्र ठाकुर दास ग्रा० वासी व नेशनल हाइवे
				115	निजी	कृषि	0.009	बच्चा व राजवारी पुत्र गण शील राय व बासुदेव राय पुत्र रामलोचन ग्रा० नि० व नेशनल हाइवे
				198	सरकारी	गैर कृषि	0.005	सड़क नो हा० कसया तमकुही।
				237	निजी	कृषि	0.002	बच्चा व रामानन्द पुत्र गण चन्दर राय व राजेन्द्र पुत्र छेदी व तहसीलदार व मुख्तार व केदार पुत्र गण पलटल राय व मैनेजर पुत्र गोरख राय व बनता पुत्र दल बहादुर राय व नानू व सुरेश पुत्र गण सूर्यदेव रामअधारे रामनरेश पुत्र गण कपिल देव व अनरुद्ध व विजय व शर्मा पुत्र गण भागीरथी राय व विशुनराय व कैलाश राय पुत्र गण सकल राय महेश्वर पुत्र इन्दल ग्रा० वासी व सड़क नेशनल हाइवे कसया तमकुही
				576	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर
				577	निजी	कृषि	0.002	दरोगा व नंदलाल पुत्रगण चन्द्रबली व राजेश्वरी व रा.शंकर व सुरेन्द्र पुत्रगण फिरंगी ग्रा०वा०।
				578	सरकारी	गैर कृषि	0.001	अदालत व हरिगोविन्द व हाकिम पुत्रगण मंगल राय।
		(7) मथौली		164	सरकारी	गैर कृषि	0.005	बंजर
				166	निजी	कृषि	0.023	जटाशंकर पुत्र त्रिवेनी राय नि० ग्रा० बभनौली।
				185	सरकारी	गैर कृषि	0.016	जलमग्न भूमि, सिंचाई विभाग।
				195 / 509	निजी	कृषि	0.040	फेकू व विकई पुत्रगण प्रह्लाद व मु० मतिरसी देवा सीताराम ग्रा०वा०।
				163	निजी	कृषि	0.002	कोमल व झुलन पुत्रगण बालरूप व शिवनारायण व हरिनारायण व रामबली व भूषण पुत्र सुदर्शन ग्रा० बभनौली।
				476	निजी	कृषि	0.017	राजबहादुर व जंगबाहादुर जीत बहादुर पुत्रगण रामभजन नि० ग्रा० बभनौली।
		(8) दुमरभार		83	सरकारी	गैर कृषि	0.030	श्मशान
				84	सरकारी	गैर कृषि	0.167	पोखरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				92	निजी	कृषि	0.020	मु० मराठी बेवा चनर नि० ग्राम बगही
				117	निजी	कृषि	0.020	रामकिशोर राय पुत्र रामसिंह राय नि० ग्रा० वगही रामचन्द्र पुत्र शिवराज ग्रामवासी राधेश्याम पुत्र रघुवर ग्रामवासी श्यामदेव व रामदेव पुत्रगण रामधारी ग्रामवासी रामकिशोर राय पुत्र रामसिंह राय नि० ग्रा० वगही चनरदेव व वच्चा व सूर्यविक्रम व धर्मराज व इन्द्रसान पुत्रगण गयाराय नि० ग्रा० वगही रामध्यान व दूधनाथ पुत्रगण सहोदर ग्रामवासी लिस्ट विहार ज़ेन
				118	सरकारी	गैर कृषि	0.060	नेशनल हाइवे कसया तमकुहीराज
				119	सरकारी	गैर कृषि	0.038	नवीन परती
				127	निजी	कृषि	0.015	श्रीराम ना० उम्र 10 वर्ष संरक्षिका सुरसती (माता) पुत्र राजवहादुर व मु० सुरसती बेवा राजवहादुर ग्रामवासी
				237	सरकारी	गैर कृषि	0.016	बन्जर
				301	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				320	निजी	कृषि	0.010	श्रीमती रानी शाही फत्नी सूर्यप्रताप शाही नि० ग्रा० अनिरुद्धवा तहसील कसया
				337	निजी	कृषि	0.080	तुफानी व राजेश पुत्रगण विटण्डी व उमेश व राजकिशोर पुत्रगण तपेशर नि० ग्रा० वगही हरिकिशुन पुत्र गिस्धारी नि० ग्रा० वगही श्रीकिशुन पुत्र पल्टन व उमेश व राजकिशोर पुत्रगण तपेशर ग्रामवासी
				82	निजी	कृषि	0.044	चनरदेव व धर्मराज व इन्द्रसान पुत्रगण गया राय नि० ग्रा० बगही।
				299	निजी	कृषि	0.008	रामअवध पुत्र ठाकुर व बिरझन पुत्र रामधन व सुबाष व व्यास व असर्फी पुत्रगण विक्रम व रमायन व रामाशीष व गोरख पुत्रगण हीरामन व रामकुमारी बेवा रासकल व रमाशंकर पुत्र जंगी ग्रा०वा०।
				300	निजी	कृषि	0.070	राम अवध पुत्र ठाकुर व बूरझन पुत्र गण रामधन व सुबाष व व्यास व असर्फी पुत्र गण विक्रम व रामायन व राम अशीष व गोरख पुत्र गण हीरामन व रामकुमारी बेवा राम सकल व रामाशंकर पुत्र जंगी ग्रा० वा० व श्रीमती लक्ष्मीनिया स्त्री शिव मंगल व रामनाथ व फुलेना व छोटलाल पुत्र गण शिव मंगल ग्रा० वा०, श्रीमती लक्ष्मीनिधा स्त्री शिवमंगल व रामनाथ व फुलेना व छोटलाल पुत्र गण शिवमंगल ग्रा०वा०।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(9) बगही	477	सरकारी	गैर कृषि	0.800	सड़क पी० डब्लू० डी० श्रीमती कलावती जौजे इन्द्रासन राय, नथुनी व रामेश्वर व रामग्रह रामचन्द्र पुत्रगण रामजीत, रामअधर पुत्र विन्देश्वरी राय व शिव प्रसाद राय व गोरख राय पुत्रगण उदय नारायण राय व रामनारायण पुत्र जय नारायण व वशिष्ठ राय पुत्र रामऔतार राय व श्रीमती रामकली स्त्री रामऔतार राय रमाकान्त पुत्र मन्दिल व विश्वनाथ राय पुत्र विक्रमा राय व बांके बिहारी व उमाशंकर राय पुत्रगण बब्बन राय व संतोष कुमार राय व अजीत कुमार व अमित कुमार पुत्रगण शक्ति नारायण राय ग्रा० वा०
				478	सरकारी	गैर कृषि	0.004	आबादी
				482	निजी	गैर कृषि	0.200	अब्दुल रहमान पुत्र बउक सा० देह, माधव राय पुत्र सूरज देव राय ग्रा० वा० महातम पुत्र भोला सा० मठिया मुहल्ला कोरया नगीना पुत्र राजमन सा० मीरबिहार व नथुनी पुत्र अलगु सा० डुमरभार
				484	निजी	कृषि	0.005	राजबंशी पुत्र मनेजर निवासी ग्रा० कोयरपट्टी चिनगी पुत्र जटाधारी निवासी मझीवां
				485	निजी	मकान	0.005	शिवगोविन्द पुत्र महादेव नि० ग्रा० कोयरपट्टी
				490	निजी	मकान	0.014	रामदरश राय पुत्र रामकिशुन राय ग्रामवासी
				491	निजी	कृषि	0.065	रामआधार पुत्र विन्देश्वरी राय व शिव प्रसाद राय व गोरख राय पुत्रगण उदयनारायण व रामनयन पुत्र जयनारायण व वशिष्ठ राय पुत्र रामऔतार राय व श्रीमती रामकली देवी स्त्री स्व० रामऔतार व रमाकान्त पुत्र मन्दिल व विश्वनाथ राय पुत्र विक्रमा राय व बांके बिहारी व उमाशंकर राय पुत्रगण बब्बन राय व संतोष कुमार व अजीत कुमार व अमीत कुमार पुत्रगण शक्ति नारायण राय ग्रामवासी
				493	सरकारी	गैर कृषि	0.060	बंजर
				494	निजी	कृषि	0.014	श्रीमती कलावती जौजेइन्द्रासन राय ग्रामवासी हरिशंकर राय व अवधेश राय व तेजनारायण पुत्रगण महथ ग्रामवासी
			(10) लवनिया	297	निजी	कृषि	0.026	कपिलदेव रामचन्द्र शिवशंकर व हरिशंकर पुत्रगण शेभी ग्रा०वा०
				314	सरकारी	गैर कृषि	0.005	नई परती
				315	निजी	कृषि	0.012	जवाहीर कृष्णा पुत्रगण धारी ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				317	निजी	कृषि	0.040	वल्लि, वलिस्टर पुत्रगण नवमी ग्रा० वा० व वल्ली पुत्र नवमी ग्रा० वा० व श्रीमती सीता देवी पत्नी शिव प्रसाद सा० बगही
				492	निजी	गैर कृषि	0.050	जगरनाथ पुत्र जीउत नि० ग्रा० अमरवा वुजुर्ग जनार्दन व परमानन्द पुत्रगण सूर्यनाथ नि० ग्रा० वगही व सुरेश सिंह व रामवेलास सिंह पुत्रगण सुखासि सिंह नि० ग्रा० कोयरपट्टी बवन पुत्र निलाधर नि० ग्रा० ठकुरहॉ वीरा व ववन व शंकर पुत्रगण नागू कैलाश पुत्र वीर नि० ग्रा० धौरहर
				496	सरकारी	गैर कृषि	0.025	नवीन परती
				504	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नाली
				507	निजी	कृषि	0.055	गोरख पुत्र गोपाल ग्रा० वा० विजयनारायन पुत्र मालदेव व नि० ग्रा० मड़रीराजा
				511	सरकारी	गैर कृषि	0.006	चकमार्ग
				519	निजी	कृषि	0.005	गोवरी प्रसाद पुत्र इनरमनि नि० ग्रा० कोयरी पट्टी विजयमल पुत्र गरीब ग्रा० वा० व श्रीमती नंदरानी देवी पत्नी बाके बिहारी राय, श्रीमती पानमती देवी पत्नी श्याम बिहारी राय नि० ग्रा० मझौवां
				537	निजी	कृषि	0.020	सुरेश व शम्भू व कैलाश पुत्रगण रामानन्द पुत्र जगदेव ग्रा० वा०
				540	निजी	कृषि	0.030	सीताराम व श्री राम व भोला व लालू व सुगेश्वर पुत्रगण वेचू व सामा पुत्र रामलक्षन व राधा पुत्र भखन ग्रा० वा० सीताराम व हरेराम व श्रीराम व जयशाम पुत्रगण दुखी नि० ग्रा० नौगावा गोरख पुत्र इन्द्रजीत राय नि० ग्रा० पड़री विशुनपुर दयाल
				305	सरकारी	गैर कृषि	0.035	पाठशाला
				309	निजी	कृषि	0.005	लखन पुत्र परसाद ग्रा० वा०
				554	निजी	कृषि	0.005	नथुनी अमरजीत पुत्रगण गंगा ग्रा० वा०
				556	सरकारी	गैर कृषि	0.006	बंजर
				557	सरकारी	गैर कृषि	0.016	बंजर
				508	निजी	कृषि	0.002	श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी विरेन्द्र श्रीमती कमलावती पत्नी राजेन्द्र कपिल देव व महात्म पुत्रगण तेजू सोमारी व रामअशीष पुत्रगण ठाकुर, राजेन्द्र पुत्र नथुनी विरेन्द्र पुत्र दीनानाथ ग्रा० वा० श्रीमती प्रभावती पत्नी रामायन नि० ग्रा० बगही
			(11) कोयरपट्टी	5	निजी	मकान	0.015	हरिहर व मैनेजर व रामकेश्वर पुत्रगण इसरी नि० ग्रा० लवनिया
				7	निजी	मकान	0.014	मजहर पुत्र सुधन ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				8	निजी	मकान	0.014	हरिलाल पुत्र देवधारी नि० ग्रा० भरपटिया
				9	निजी	मकान	0.030	भरथ पुत्र गंगा नि० ग्रा० लवनिया पारसनाथ पुत्र होतमन शाह नि० अहिरौली
				12	निजी	कृषि	0.134	शम्भू व कुन्जविहारी पुत्रगण अमरजीत व मु० कलावती पत्नी अमरजीत व अमरीश पुत्र दुखी ग्रामवासी व कलावती देवी पत्नी नन्दलाल व नन्दलाल पुत्र रामजस ग्रामवासी
				24	निजी	कृषि	0.200	नहर व शंकर राम व नरायन व शिव नरायन व महेश व जयूत पुत्र मन्नु ग्रा० वा०
				25	निजी	मकान	0.055	चन्दर पुत्र बदरी ग्रामवासी
				26	निजी	मकान	0.010	रामनारायन पुत्र मुन्नर ग्रामवासी
		(12) भरपटिया राज		1	सरकारी	गैर कृषि	0.008	बंजर
				2	सरकारी	गैर कृषि	0.065	नई परती
				367	सरकारी	गैर कृषि	0.282	नहर व रामसनेही व रमाशंकर पुत्र गण भोला व राजदेव पुत्र राम प्रसाद व राधा किशुन व राजेन्द्र व हरी किशिन पुत्र गण रामदास व देव नरायन व जयूत पुत्र गण राम प्रीत ग्रा० वा०
				368	सरकारी	गैर कृषि	0.024	नहर
		(13) करीमचक		19	निजी	कृषि	0.005	कपिलदेव व महातम पुत्रगण तेजू निवासी ग्रा० लवनिया
				21	सरकारी	गैर कृषि	0.002	नाली
		(14) तमकुही राज		74	निजी	कृषि	0.057	खजांची व अदालत पुत्रगण सुखारी व चोकर पुत्रगण तरपी व नमीगोधन पुत्रगण तपेश्वर व वृक्षण व सुखारी ग्रामवासी, रामजा ग्राम छहु, हाल मुकाम ग्रामवासी व श्रीमती दरपनिया जौजे बौधानी ग्राम धुरिया व श्रीमती दोकनी जौजे नन्दलाल व श्रीमती कुवरी जौजे मोहन ग्रामवासी नेशनल हाईवे,
				73	निजी	मकान	0.005	नेशनल हाईवे
				75	निजी	कृषि	0.015	द्वारिका पुत्र रामाजा नि० ग्राम छहु हाल मुकाम ग्रामवासी,
				84	सरकारी	गैर कृषि	0.006	नवीन परती
				102	सरकारी	गैर कृषि	0.003	नवीन परती
				152	सरकारी	गैर कृषि	0.020	आवादि
				157	सरकारी	गैर कृषि	0.001	गड्डा
				183	सरकारी	गैर कृषि	0.012	तहसील भवन तमकुहीराज के आवासिय, अनावासिय एवं थाना आदि हेतु सुरक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				392	निजी	कृषि	0.019	अमरावती देवी पत्नी रामकिशोर ग्रामवासी, परसुराम पुत्र चोकर नि० ग्राम, लव कुश पश्चिम पट्टी, रज्जु व राजु पुत्रगण रामविलास व श्रीमती गायत्री देवी पत्नी कन्हैया नि० ग्राम अन्ध्या खास
				394	निजी	कृषि	0.010	झपसी पुत्र बल्ली नि० तमकुही
				416	सरकारी	गैर कृषि	0.001	चकमार्ग
				452	निजी	मकान	0.004	शिवशंकर व रमाशंकर व अमरजीत पुत्रगण इन्दर प्रसाद ग्रामवासी
				454	निजी	मकान	0.004	श्रीमती अनिता तिवारी पत्नी राजकुमार तिवारी नि० ग्राम दहीभंता जिला गोपालगंज
				455	निजी	मकान	0.005	श्रीमती द्रौपदी जौज कृष्णजी ग्रामवासी
				458	निजी	मकान	0.005	जीतेन्द्र व उपेन्द्र व विनय पुत्रगण विश्वनाथ सिंह ग्रामवासी
				459	निजी	मकान	0.005	जावेद पुत्र अब्दुल्साह ग्राम खानसाम टोला जिला गोपालगंज
				460	निजी	मकान	0.012	रामअधर राय पुत्र विन्देश्वरी राय व राम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, श्रीप्रकाश पुत्रगण रामअधर राय नि० बगही
				463	निजी	मकान	0.007	रविन्द्र व ललन पुत्रगण कपिलदेव, प्रहलाद पुत्र भदहर व प्रमोद कुमार पुत्र भुखन व रामदेव प्रसाद व मोहन प्रसाद पुत्रगण विक्कू प्रसाद ग्राम बंलुआ, शमशेर साही व विद्यासागर पुत्र राजदेव ग्राम नौगाव, आदेशानुसार श्रीमान ना० त० मु० न०
				471	निजी	मकान	0.040	शम्भु पुत्र जमुना व सुग्रीव पुत्र त्रिदेव व श्रीमती जयश्री देवी पत्नी अशोक सिंह, उमा पुत्र सरयु व अच्छेलाल पुत्र उमेश्वर व सुदामा पुत्र मंगल प्रसाद ग्रामवासी, व अरविन्द कुमार मिश्र व अवधेश मिश्र नि० ग्राम सिंघहा व दीनानाथ पुत्र चन्द्रदेव सा० बसडिला खुर्द
				724	निजी	मकान	0.009	सुदामा प्रसाद आदि
				725	निजी	कृषि	0.012	प्रधुमन व मकसुदन व नागेन्द्र पुत्रगण नारायण व कैलाश पुत्र हजारी व शम्भु पुत्र जमुना व सुग्रीव पुत्र त्रिदेव व जयश्री देवी पत्नी अशोक व उमा व कांता पुत्रगण सरयु, व अच्छेलाल पुत्र उमेश्वर ग्रामवासी
				730	निजी	मकान	0.032	आवादी
				732	निजी	गैर कृषि	0.002	अब्दुल रहमान पुत्र हाजी खेनहर नि० ग्रा० तमकुही रोड
				742	निजी	कृषि	0.015	श्रीनिवास पाठक व रामसनकूस नि० मझौलिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				771	निजी	मकान	0.015	अवनिश व रजानेश व विनय पुत्रगण भूपति व सतिश व संदीप व यशवंत व नरेन्द्र पुत्रगण बच्च्य व सावित्री देवी पत्नी बच्च्य व श्रीमती सीता पत्नी भूपति प्रसाद ग्रामवासी व अब्बास अली पुत्र नवी हुसैन ग्राम पिपरा रजब व बदरूल हुदा पुत्र फरजिन सा० निर बिहार व जुम्मन व समीउल्लाह व ऐनुल्लाह पुत्रगण रहतुल्लाह व महमुद उस्मान व तुफानी पुत्रगण मुबारक नि० ग्राम हरिहरपुर रामनारायण पुत्र मुखल ग्राम परसौनी, दीनानाथ व ध्रुव प्रसाद पुत्रगण ठाकुर ग्राम बिसुनपुरा
				772	निजी	मकान	0.025	ब्रिजनन्दन पुत्र रामनारायण ग्रामवासी
				774	सरकारी	गैर कृषि	0.005	तहसील भवन तमकुहीराज के आवासिय, अनावासिय एवं धाना आदि हेतु सुरक्षित
				846	सरकारी	गैर कृषि	0.032	सड़क पी० डब्लू० डी०
				893	निजी	गैर कृषि	0.020	गोविन्द प्रसाद राय पुत्र भरत राय नि० हरिहरपुर
				895	निजी	गैर कृषि	0.020	कलावती पत्नी द्वारिका नि० तमकुही (129) व नित्यादेवी पत्नी सुदामा प्रसाद (271) व रामप्रसाद लाल बाबू व देवी लाल पिता राजबंश ग्रा० वा० (534) व सधाकिशुन व राजाराम पुत्र गण श्याम लाल निज ग्राम व रामाशंकर पुत्र मंगल ग्रा०वा० (540) इरसाद अली व नौसाद अली व आफताब अली पुत्रगण समसाद अली, गोविन्द प्रसाद राय पुत्र भरत राय नि० ग्रा० नरहंवा शुक्ल जिला सिवान हा० मु० हरिहरपुर, सुरेन्द्र राय विरेन्द्र राय पुत्रगण नगीना राय श्रीमती श्याम सुन्दरी पत्नी सुरेन्द्र, विमलेश कुमार पुत्र मखनलाल सा० सेवरही श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी हरी प्रसाद सा० सेवरही पन्ना लाल व हरी लाल पुत्रगण रामसुन्दर, विश्वनाथ मिश्र पुत्र महाराज मिश्र, संदीप व मदीप नाबालिग उम्र 17 व 15 वर्ष पुत्रगण चन्द्रमोहन लाल
				456	निजी	कृषि	0.005	श्रीमती द्रौपदी जोजे कृष्णजी ग्रामवासी
				743	निजी	कृषि	0.014	प्रेम सिंह व राम नरेश व लक्ष्मी नारायण पुत्रगण रघुनाथ ग्रामवासी, विद्या प्रसाद पुत्र भरत ग्रामवासी व श्रीमती रामदेई पत्नी विदेशी नि० ग्राम बिहार बुजुर्ग
		(15) हरिहरपुर		1475	निजी	कृषि	0.057	इसहाक पुत्र मुहताज ग्रा० वा०
				1476	निजी	कृषि	0.016	श्रीमती झुनिया पुत्री मखदुम सा० देउरवा (विहार) व मजीबुल्लाह पुत्र अलीहुसैन ग्रा०वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1480	सरकारी	गैर कृषि	0.008	नवीन परती
				1481	निजी	कृषि	0.016	मु० इसलाम पुत्र फरजान नि० ग्रा० विशुनपुर राजा
				1503	निजी	कृषि	0.049	विशमिल्लाह पुत्र किताव
				1504	निजी	कृषि	0.044	श्रीमती कलावती देवी स्त्री देवशर्मा ग्रा० कोइन्दी व देवरिया इन्वेस्ट मेंट्रस लिमिटेन्ड कार्यालय ज्योति भवन एन० एच० रोड 28 देवरिया (तमकुही)
				1508	निजी	कृषि	0.109	समसुल पुत्र मुस्ताफा व अब्दुलमनान व बलालसगीर व जावेद बयस्क अरसद अबयस्क आयु 15 वर्ष संरक्षिका मु० फातिमा खातून (माता) ग्रा० वा०
				1509	निजी	कृषि	0.012	वचन शाह पुत्र जमुना साह सा० विशुनपुरा जिला गोंपालगंज हा० मु० ग्रा० वासी
				1512	निजी	कृषि	0.239	श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जौजे श्यामसुन्दर नि० ग्रा० सेवरही
				1515	निजी	कृषि	0.004	विशमिल्लाह पुत्र किताव मियां ग्रा० वा०
				1516	सरकारी	गैर कृषि	0.065	चकमार्ग
				1570	निजी	कृषि	0.002	श्रीमती अफसाना खातून पत्नी सरफुदीन नि० लक्ष्मीपुर
				1576	निजी	कृषि	0.006	तुफानी पुत्र मुबारक ग्रामवासी
				1577	निजी	कृषि	0.002	खैरू निशा पत्नी जफरुल आलम
				1723	निजी	कृषि	0.016	श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जौजे श्यामसुन्दर नि० ग्रा० सेवरही
				1724	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नवीन परती
				1799	सरकारी	गैर कृषि	0.002	सेक्टर मार्ग
				1832	निजी	कृषि	0.024	संतसरन पुत्र वृजनन्दन ग्रा० वा० व संतसरन पुत्र वृजनन्दन व श्रीमती लिलावती वेवा राजा राम व नन्दलाल पुत्र रामदेवी व श्रीमती तारा देवी पत्नी नन्दलाल सा० सेवरही व रामचन्द्र पुत्र सुकदेव व महंगू पुत्र रघुनन्दन व श्री कान्त व श्री किशुन पुत्रमण मनोहर व पुत्र पलाता स्त्री विनोद कुमार नि० सेवरही व बहारन पुत्र त्रिलोचन नि० ग्रा० व नेशनल एडवे रोड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1833	निजी	कृषि	0.016	संतसरन पुत्र वृजनन्दन ग्रा० वा० संतसरन पुत्र वृजनन्दन व रीमती लिलावती वेवा राजा राम व नन्दलाल पुत्र रामदेनी व श्रीमती तारा देवी पत्नी नन्दलाल सा० सेवरही व रामचन्नर पुत्र सुकदेव व महंगू पुत्र रघुनन्दन व श्री कान्त व श्री किशुन पुत्रगण मनोहर व पुत्र पलाता स्त्री विनोद कुमार नि० सेवरही वहारन पुत्र त्रिलोचन नि० ग्रा०
				49	निजी	कृषि	0.016	सुगान्ती स्त्री दीपराज नि० ग्रा० धुरिया इमिलिया नवीन परती श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री सुरेशनारायन सा० पुरैना कटया
				56	निजी	कृषि	0.035	सिलिंग व नसरुल्लाह पुत्र समशेर ग्रा० वा० व दुधनाथ पुत्र रूपन ग्रा० वा०
				57	निजी	कृषि	0.002	सुकुरुल्लाह व जिपुरुल्लाह व फैयाज अहमद पुत्रगण अलीशेर
				62	सरकारी	गैर कृषि	0.012	राष्ट्रीय राजमार्ग
				63	सरकारी	गैर कृषि	0.004	नेशनल हाइवे रोड
				196	निजी	कृषि	0.005	ज्ञानप्रकाश व ओमप्रकाश व जयप्रकाश पुत्र बलिराम ग्रा० वा० व दशइ पुत्र भोला ग्रा० वा० व श्रीमती करीदन पुत्र छकोली ग्रा० वा० व मुहम्मद नौशाद अली पुत्र अदालत व श्रीमती जिगरा खातून धर्मपत्नी अदालत ग्रामवासी व शम्भू पुत्र झम्मन ग्रामवासी व सु० लक्ष्मीना पुत्री चोकट ग्रा० वासी व आबादी
				197	निजी	कृषि	0.038	श्रीमती रामरती पत्नी नथुनी प्रसाद व नन्दकिशोर व हरिओम व पुत्रगण राजकिशोर व श्रीमती जड़ावती देवी पुत्री जगरनाथ पत्नी राजकिशोर व श्रीमती राधिका देवी पत्नी रामनगीना सिंह व प्रभू पुत्र रामनाथ व सुदामा पुत्र जमुना ग्रा० वा० तमकुही
				489	निजी	मकान	0.035	आनन्दसागर व योगेन्द्र व जयप्रकाश व प्रेमसागर पुत्रगण वाइराम व विश्वनाथ व वच्चन व शम्भू पुत्रगण श्रीकृष्ण व व्यास पुत्र वहादुर व पारस व सत्यदेव व नरेश पुत्रगण फूलन नि० ग्रा० तमकुही व ब्रह्मप्रसाद व ब्रम्हाप्रसाद पुत्रगण नगेसर नि० ग्रा० तमकुही व सुदामा प्रसाद पुत्र मुगल प्रसाद नि० ग्रा० तमकुही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				513	निजी	कृषि	0.040	रघु प्रसाद पुत्र रामदेव प्रसाद नि० ग्रा० मु० जोहिया वेवा गोपीचन्द व देवीचन्द पुत्र बुल्ली व केशव व राजकुमार व उमा पुत्रगण डोभा व रामप्रसाद पुत्र बहारन व बन्धू पुत्र मंगल व नगीना पुत्र तपेसर व सुखल व मन्नु पुत्रगण लोचन व बहारन पुत्र त्रिलोचन व तुफानी व दुखी वयसक व जिउत अवयस्क उम्र 10 वर्ष संरक्षिका मु० जमीला देवी (माता) पुत्रगण रामवन्द व लल्लन पुत्रगण हरिहर व महंगू व रामराज पुत्रगण रघुनन्दन व मु० अवतरिया वेवा वावूराम व सुरेश पुत्र गौरी व श्रीकान्त व श्रीकिशुन पुत्रगण मनोहर व सत्यनारायन व राजेन्द्र पुत्रगण गुल्ली ग्रामवासी भुखल पुत्र रघुनन्दन नि० ग्रा० तमकुही
				526	निजी	कृषि	0.015	महातम पुत्र फागु ग्रा० तमकुही व क्षत्री पुत्र कूर नि० ग्रा० तमकुही
				822	सरकारी	गैर कृषि	0.024	बंजर
				856	सरकारी	गैर कृषि	0.022	नेशनल हाइवे
				857	सरकारी	गैर कृषि	0.005	नेशनल हाइवे
				858	निजी	कृषि	0.025	अजयशंकर प्रसाद सिंह पुत्र डा० श्री उमाशंकर प्रसाद नि० ग्रा० लक्ष्मी वाग नेशनल हाइवे रोड
				1289	सरकारी	गैर कृषि	0.017	नेशनल हाइवे
				1342	निजी	मकान	0.010	रामजनक पुत्र रामदीहल ग्रामवासी
				1343	निजी	मकान	0.007	गिरजा पुत्र रामस्वरूप व नथुनी पुत्रगण जयराम व रामजनक पुत्र रामदीहल ग्रामवासी
				1419	निजी	मकान	0.016	अख्तर हुसैन व मुस्ताक अहमद व सफूददीन पुत्रगण मनीफखी ग्रा० वा० दीनानाथ व रमाकान्त व मोहन लाल वमुरारी लाल पुत्रगण मोतीलाल नि० ग्रा० भटवलिया लियाकत पुत्र हनीफ व मु० युसुफ पुत्र रमजान व मुनीफ पुत्र रमजान श्रीमती लक्ष्मी देवी वेवा हरी प्रसाद व अस्पण कुमार पुत्र मखनलाल ग्रा० सेवरही
				1420	निजी	मकान	0.006	श्रीमती धनमती सत्री चन्दूलाल ग्रा० सलेमगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1421	निजी	मकान	0.006	यामचित्र मन्दिर सिनेमा ग्रा० हरिहरपुर मालिक श्यामसुन्दर पुत्र हरिप्रसाद व पन्नादेवी वेवा मखनलाल नि० ग्रा० सेवरही सरिता देवी जीजे सिकन्दर ग्रा० वा० अमीन व असगर पुत्रगण नवाव अब्दुल सत्तार पुत्र सभान ग्रा० तमकुही व अरुण कुमार पुत्र मखनलाल व लक्ष्मी देवी वेवा हरी प्रसाद ग्रा० सेवरही अब्दुलसत्तार व सुभान ग्रा० तमकुही अब्दुलसत्तार व सुभान ग्रा० तमकुही
				818	निजी	कृषि	0.020	सरस्वती यादव पत्नी रमेश यादव व सुग्रीव पुत्र त्रिदेव ग्रामवासी सरस्वती यादव पत्नी रमेश यादव सा० देह नेशनल हाइवे रोड
				1427	सरकारी	गैर कृषि	0.045	रास्ता
				1837	निजी	कृषि	0.012	बाबूलाल पुत्र हरीनन्दन
				205	निजी	कृषि	0.003	किशुन पुत्र बंशी, फेकू पुत्र जटा, विरेन्द्र प्रताप गोपाल व सावित्री देवी पत्नी सहदेव नि० तमकुही रामलाल पुत्र फुलेसर सम्फी व छोटेलाल पुत्रगण बलेन्दर व लाइची देवी स्त्री बलेन्दर संतसरन पुत्र बृजनन्दन तमकुही
				1341	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
				1344	निजी	कृषि	0.003	गिरीराज पुत्र रामस्वरूप व नथुनी पुत्र जय जय राम व रामजनक पुत्र रामदिहल नेशनल हाईवे
				535	निजी	कृषि	0.004	निसार अहमद पुत्र खेनहर नि० तमकुही
				813	निजी / सरकारी	कृषि / गैर कृषि	0.020	मु० जोहिन्या बेवा गोपीचन्द व देवीचन्द पुत्र चुल्ली व जोमा पुत्र जोखन व रामप्रसाद पुत्र बहारन व बन्धू पुत्र मंगल व नगीना पुत्र तपेसर व सुखल व मन्नु पुत्रगण लोचन व बहारन पुत्र त्रिलोचन व तूफानी व दुखी वयस्क व जिउत अवयस्क उम्र 10 वर्ष संरक्षिका मु० उर्मिला देवी (माता) पुत्रगण रामचन्द्र व रामचन्द्र व लल्लन पुत्रगण हरीहर व महगू व रामराज पुत्रगण रघुनन्दन व मु० अतवरिया बेवा बाबूराम व सूरेश पुत्र गौरी व श्रीकान्त व श्री किशुन पुत्र मनोहर सत्य नारायण व राजेन्द्र पुत्रगण गुल्ली रमाकान्त पुत्र रामरूप नि० ग्रा० तमकुही, नहर, परसौनी राजबाहा, मिश्रौली ड्रेन, नाली
				1573 / 1978	निजी	मकान	0.073	समसुल पुत्र मुस्तफा व अब्दुलमनान व वलालसगीर व जावेद वयस्क अरसद अवयस्क आयु 15 वर्ष संरक्षिका मु० फातिमा खातून (माता) ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(16) गाजीपुर	2226	निजी	कृषि	0.032	वासदेव पुत्र गोखुल व सूर्यवल्ली व रामऔतार पुत्रगण छधारी व विरला व विश्वनाथ पुत्रगण वालदेव व मुख्तार पुत्र रामदेव नि० ग्रा० सेमरा परगना कुआड़ी जिला सारन तमकुही सलेमगढ रोड
				2239	निजी	मकान	0.005	गोरख पुत्र भगन व हरिहर पुत्र बलिस्टर पुत्रगण छट्टू व गोपी व कृष्ण पुत्र चन्द्रदेव ग्रामवासी
				2240	सरकारी	गैर कृषि	0.008	तमकुही सलेमगढ रोड
				2242	निजी	मकान	0.002	गनेश प्रसाद पुत्र चोकट निवासी ग्रा० सेवरही
				2247	निजी	मकान	0.005	चन्द्रशेखर व बालेश्वर व उदयनरायन पुत्र गण शिधारी व श्रीमती सरली देवी पत्नी शिवधारी नि० ग्रा० परसेनी बुजुर्ग
				2264	निजी	मकान	0.020	जोखू पुत्र शिवनन्दन व सुचित्तम राय स्त्री आनन्दपंकाश राय नि० ग्रा० माधोपुर बुजुर्ग व कमला राय पुत्र बिक्रमा राय ग्रा०वा० व नवीहसन व नवाव व सवाबुद्दीन पुत्रगण मुख्तार निवासी ग्रा० हरिहरपुर व श्रीमती रजन्ती देवी पत्नी चोकट ग्रा० वा० तुलसीपट्टी व शिवजी पुत्र मोती व वच्चा
				2340	निजी	मकान	0.012	जोखनपुत्र शिवनन्दन व शिवनन्दन पुत्र कमला पुत्र शिवराती ग्रा० वा० व श्रीमती लक्ष्मीना देवी पत्नी शिवजी नि० ग्रा० तमकुहीराज व राजकुमार पुत्र सुमन्त नि० ग्रा० उजाय जिला सिवान
				2342	निजी	मकान	0.020	कौशल पुत्र सुमन्त नि० उजाय व शान्ति देवी जौजे सुभाष राय नि० ग्रा० माधोपुर बुजुर्ग व राधाशरण व सीताशम व काशीनाथ व पारसनाथ व चानमुरदा पुत्रगण लोहवान नि० ग्रा० पुरैना कचया व नगीना पुत्र पतरु नि० ग्रा० कवीर (सिवान) ग्रा० मु० सेवरही व गंगा पुत्र चिरकुट ग्रा० वा०
				2344	सरकारी	गैर कृषि	0.051	आवादी
				2485	निजी	कृषि	0.002	निजामुद्दीन व सकुर मोहम्मद पुत्रगण सरल ग्रा०
				2486	सरकारी	गैर कृषि	0.024	रास्ता
				2499	निजी	कृषि	0.007	ओसियर खों पुत्र इकवाल ग्रामवासी
				2514	निजी	कृषि	0.015	दीपराज व बनारसी व सुरेश पुत्रगण जैश्री व रामचन्द्र पुत्र सतई ग्रा०वा०
				2531	सरकारी	गैर कृषि	0.006	तमकुही सलेमगढ रोड
				1733	निजी	कृषि	0.006	चन्द्रिका व अम्बिका पुत्रगण भृगुराशन ग्रा०वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1738	सरकारी	गैर कृषि	0.006	रास्ता
				2204	निजी	कृषि	0.002	बिरला व विश्वनाथ पुत्रगण बालदेव व रामप्रीत व बलिस्टर पुत्रगण सूर्यबली ग्रा० वा०
				2195	निजी	कृषि	0.020	चन्द्रदेव व बुनेली व शिवमंगल पुत्र गण मुखलाल नि० ग्रा० वनवरिया
				2506	निजी	कृषि	0.013	सड़क
				2227	निजी	कृषि	0.008	निजामुद्दीन व सकुर मोहम्मद पुत्रगण सरल ग्रा०
				2200	निजी	कृषि	0.090	पूजन पुत्र राजबली व बैजनाथ व हरीन्दर व योगेन्दर पुत्रगण फुलेसर व नगीना पुत्र राम सुभग व कपिल देव व सुख देव व ब्रम्हदेव पुत्रगण गुजेसर- ग्रा० वा०
				2201	निजी	कृषि	0.081	बिरला व विश्वनाथ पुत्रगण बालदेव व रामप्रीत व बलिस्टर पुत्रगण सूर्यबली ग्रा० वा०
				2202	निजी	कृषि	0.004	ओसीहर खों पुत्र इकबाल व आलीम पुत्र अब्दुल रहीम व अजी आलम पुत्र अब्दुल रहमान व समसूल हक पुत्र गुलाम रसूल ग्रा० वा०
				2203	निजी	कृषि	0.024	निजामुद्दीन व सकुर मोहम्मद पुत्रगण सरल ग्रा० वा०
				2205	निजी	कृषि	0.132	ओसिहर खों पुत्र इकबाल व आलिम पुत्र अब्दुल रहीम व अजी आलम पुत्र अब्दुल रहमान व समसूल हक पुत्र गुलाम रसूल ग्रा० वा०
				2213	सरकारी	गैर कृषि	0.134	ओसिहर खों पुत्र इकबाल व आलिम पुत्र अब्दुल रहीम व अजी आलम पुत्र अब्दुल रहमान व समसूल हक पुत्र गुलाम रसूल ग्रा० वा० व विरला विश्वनाथ पुत्रगण बालदेव व रामप्रीत व बलिस्टर पुत्रगण सूर्यबली व निजामुद्दीन व सकुर मोहम्मद पुत्रगण सरल ग्रा० वा० चन्द्र देव व बुनेली व शिवमंगल पुत्र मुखलाल
				2229	निजी	कृषि	0.046	ओसियर खों पुत्र इकवाल व आलीम व पुत्र अब्दुलरहीम व अजीआलम पुत्र अब्दुल रहमान व रामशुल हक पुत्र गुलाम रसुल ग्रामवासी
				2230	निजी	कृषि	0.077	मीला सरीफ व नवी रसूल व बाबू खों व मुमसरीम पुत्रगण हवालदार खों ग्रा० वा०
				2231	निजी	कृषि	0.077	मोतीलाल व नन्दलाल पुत्रगण जददू व घरभरन पुत्र सुकट नि० ग्रा० ठकरहा टोला मलाही जिला चम्पारन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2232	निजी	कृषि	0.061	बिरला व विश्वनाथ पुत्रगण बालदेव व रामप्रीत व बलिस्टर पुत्रगण सूर्यबली ग्रा० वा०
				2233	निजी	कृषि	0.064	दिपक कुमार पुत्र रामऔतर नि० न्यू कालोनी देवरिया व तमकुही संक्षेपमार्ग
				2234	निजी	कृषि	0.105	चन्द्र देव व बुनेली व शिवमंगल पुत्र मुखलाल नि० ग्रा० बनवरिया
				2235	निजी	कृषि	0.214	ओसियर खों पुत्र इकबाल व आलीम व अजी आलम पुत्र अब्दुलरहमान व रामशुल हक पुत्र गुलाम रसुल ग्रामवासी व राष्ट्रीय राजमार्ग
				2236	निजी	कृषि	0.036	ओसियर खों पुत्र इकबाल व आलीम व अजी आलम पुत्र अब्दुलरहमान व रामशुल हक पुत्र गुलाम रसुल ग्रामवासी
				2237	निजी	कृषि	0.139	जोहरा खातून जौजे सोहराब नि० ग्रा० बेरबही
			(17) माधोपुर कुजुर्ग	391	सरकारी	गैर कृषि	0.235	आबादी व नहर व खलिहान
				772	निजी	कृषि	0.018	रामजीत पुत्र राजकली ग्रा० वा०
				773	निजी	कृषि	0.028	मु० जनिजीरनी धर्म पत्नी सरल रथ ग्रा० नि० व बैजनाथ राय व राजेश्वर राय पुत्र गण यमुना राय ग्रा० नि०
				781	निजी	गैर कृषि	0.026	सुरेन्द्र राय पुत्र बाबू लाल राय ग्रा० नि०
				831	निजी	कृषि	0.023	जनार्दन पाण्डेय पुत्र राजा ग्रा० वा० व उमाकान्त व रमाकान्त व भागेश्वरी पुत्र गण राजेन्द्र ग्रा० वा०
				1162	सरकारी	गैर कृषि	0.011	नहर
				1164	निजी	कृषि	0.026	कूकुर व बुधई पुत्र अनंत व रोगी व दुखी पुत्र गण तपसी मिट्टी व बलेश्वर व विक्रम पुत्र गण जासनी व मंगरू पुत्र रोधर व रामायन पुत्र लौटन ग्रा० वा०
				1167	निजी	कृषि	0.012	हृदया नन्द पुत्र शीतल राय व श्रीमती प्रभावती देवी शिवधर व आशीष अवयस्क आयु 15 वर्ष सं० मु० धर्म शीला माता पुत्र गणेश ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1173	निजी	कृषि	0.020	रमेश व बृजेश व बृन्दा व रोहित ना० उम्र कमशः 12 व 10 व 5 वर्ष सं० श्रीमती मैनावती देवी माता पुत्र गण नगेश्वर व श्रीमती भगवन्ता देवी धर्म पत्नी नगेन्द्र व श्रीमती किरन पत्नी हरीकेश व श्रीमती कामना राय पत्नी महेश सा० उपेलुवा उर्फ दुबौली ता० कसया व लल्लन राय व महेश राय पुत्र गण भोलन राय व बलेश्वर पुत्र सिद्धेश्वरी व मु० मैनावती पत्नी नगेन्द्र व राकेश बृजेश व विनय व रोहित पुत्र गण नगेन्द्र राय व जीवनानन्द पुत्र कमला मंगल पुत्र सर्वजीत व हरेन्द्र उर्फ बीरन व रामानयन पुत्र आनन्द व जीतेन्द्र पुत्र विशेशर
				1174	निजी	कृषि	0.075	राष्ट्रीय राजमार्ग व मोहन कुमार व दुर्गेश कुमार व देवपूजन राय अकलू राय व छेदी राय पुत्रगण दुलम राय व सूरज पुत्र छगरू राय व बलिस्टर राय पुत्र बटई राय व मैनेजर व दुर्गा पुत्रगण चन्द्र देव राय मु० मतिरानी बेवा कान्ता राय व रुदल ब्रम्हदेव व द्वारिका व बुनेला पुत्र खेदन राय व मु० रेशा बेवा गगन राय ग्रा० वा० हृदयानन्द व सुरेश पुत्र सतील राय व अमरीश अनरुद्ध आयु 15 वर्ष संरक्षिका मु० धर्मशीला माता पुत्र गणेश ग्रा० वा०
				1640	निजी	कृषि	0.007	हीरालाल व नन्दलाल पुत्रगण बंशी नि० ग्रा० देउरवां जिला गोपालगंज बिहार व जनक पुत्र मनोहर ग्रा० वा०
				1646	सरकारी	गैर कृषि	0.084	तमुकूही. सलेमगढ राजपथ
				1647	सरकारी	गैर कृषि	0.030	रास्ता
				1648	निजी	कृषि	0.007	चन्द्रबली राय व राम इकबाल राय पुत्रगण विश्वनाथ राय
				1650	निजी	कृषि	0.004	शिवधारी राय व गाँधी राय जमुना राय रमेश कुमार राय पुत्र इश्वरधारी राय व दुर्गा राय व योगेन्द्र राय पुत्र सरजू राय ग्रा० वा० ध्रुव प्रसाद कृपाशंकर पुत्रगण सूर्यदेव राय ग्रा० वा० सहदेव राय व अनरुद्ध राय पुत्रगण सरजीत राय ग्रा० वा०
				1651	निजी	कृषि	0.038	छट्टू पुत्र इसरी व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी कृष्ण बिहारी व श्रीमती रेनू राय पत्नी मद्दूसुदन ग्रा० वा०
				273	निजी	कृषि	0.034	इन्तखाफ आलम पुत्र अब्दुल रहमान सा० नगर पंचायत सेवरही
				335	सरकारी	गैर कृषि	0.039	आबादी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				336	सरकारी	गैर कृषि	0.012	आबादी वर्ग 6
				337	सरकारी	गैर कृषि	0.064	रास्ता
				338	निजी	कृषि	0.064	राष्ट्रीय राजमार्ग, बंजर जूनियर हाई स्कूल जोर एहतमाम डिस्टीक बोड व रास्ता पूरन राय व सुबाष राय पुत्रगण विश्वनाथ राय व पारसनाथ व केदारनाथ व जगन्नाथ व बैजनाथ पुत्रगण राजघारी व रामनरेश पुत्र दीप राय व हृदया नन्द व सुरेश पुत्रगण शीतल राय व अमरीश अवयस्क आयु 15 वर्ष सं० मु० धर्मशीला माता पुत्र गणेश ग्रा० वा० किशुनदेव राय व रामदीर राय व हृदया व सुरेश व गणेश पुत्रगण शीतल राय मु० सरपतिया वारिश बेवा अन्नत राय ग्रा० वा०
				339	निजी	मकान	0.008	लल्लनराय व महेश राय पुत्र गण झूलन वालेश्वर पुत्र सिद्धेश्वरी व जिवनन्दन पुत्र कमला व उदय राय व देबेन्द्र व जीतेन्द्र पुत्र गण विशेषर राय व रामानन्द राय पुत्र अन्नत राय व विनोद कुमार शर्मा व प्रमोद कुमार पुत्र सत्यनरायन शर्मा व रमेश व बृजेश व विनय व रोहित पुत्र गण नगेन्द्र व श्रीमती मैनावती देवी पत्नी नगेन्द्र व केदार व रमाकान्त व दीनानाथ पुत्र गण मंगल ग्रा० वासी फूलन राय व सुबाष राय पुत्र विश्वनाथ राय व पारस व केदार व जगन्नाथ व बैजनाथ पुत्र गण राजघारी व राम नरेश पुत्र दीप राय ग्रा० वा०
				1175	निजी	मकान	0.017	आबादी व तमुकूही सलेमगढ़ राजपथ व मोहन कुमार व दुर्गेश कुमार राय व देवपूजन राय पुत्र अनुरुद्ध राय व छेदी पुत्र भूलन राय व सूरज पुत्र भगन राय व बलिस्टर पुत्र माही राय व मैनेजर व दुर्गा पुत्र चन्द्रदेव राय व कुमारी कली रानी बेवा कान्ता राय व रुदल व ब्रह्मदेव व द्वारिका व बुनेला पुत्र खेदन राय व मु० रेसा बेवा गगन राय ग्रा० वा० व हृदया नन्द व सुरेश पुत्र गण शीतल व अमृश आयु 15 वर्ष सं० मु० धर्मशीला माता पुत्र गणेश ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1176	निजी	मकान	0.020	लल्लनराय व महेश राय पुत्र गण झूलन वालेश्वर पुत्र सिद्धेश्वरी व जिवनन्दन पुत्र कमला व उदय राय व देबेन्द्र व जीतेन्द्र पुत्र गण विशेषर राय व रामानन्द राय पुत्र अनंत राय व बिनोद कुमार शर्मा व प्रमोद कुमार पुत्र सत्यनरायन शर्मा व रमेश व बृजेश व बिनय व रोहित पुत्र गण नगेन्द्र व श्रीमती मैनावती देवी पत्नी नगेन्द्र व केदार व रमाकान्त व दीनानाथ पुत्र गण मंगल ग्रा० वासी
				1177	सरकारी	गैर कृषि	0.005	बंजर
		(18) परसीनी बुजुर्ग		2987	सरकारी	गैर कृषि	0.340	राज्य कैनाल तमकुहीराज सलेमगढ़ रजवाहा
				2990	सरकारी	गैर कृषि	0.010	बंजर
				2988	सरकारी	गैर कृषि	0.028	सड़क
				2984	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर
		(19) लतवा मुरलीधर		74	निजी	कृषि	0.001	रास्ता
				174	निजी	कृषि	0.003	रास्ता
				175	सरकारी	गैर कृषि	0.005	कृषि योग्य बंजर भूमि
				178	निजी	कृषि	0.020	गंगा पुत्र नमई व रामदेव व रामचन्द्र पुत्रगण शिवधारी व चोकट पुत्र मोलहू ग्रा० नि० सत्यदेव पुत्र उमाप्रसाद राय ग्रा० नि०
				262	निजी	कृषि	0.016	रामेश्वर व पट्टवारी पुत्रगण अमरनाथ व संजय व ध्रुव मंजेश पुत्रगण कपिलदेव ग्रामवासी
				269	निजी	मकान	0.020	शारदा व महासरे पुत्रगण रामप्रसाद राय व लल्लन व कामेश्वर व अक्वेश कुमार पुत्रगण राजाराय ग्रा० नि० हरिहर राय पुत्र मंगल राय ग्रामवासी
				270	निजी	मकान	0.014	केदार पुत्र झूलन राय व रविन्द्र व उपेन्द्र पुत्रगण नगीनाराय व राजेन्द्र व देवेन्द्र पुत्रगण खेदू व पौहारी पुत्र शिवनन्दत्त ग्रा० नि० मंगल प्रसाद पुत्र इशरी साहू नि० ग्रा० परसीनी
				425	निजी	कृषि	0.005	कपिलदेव रामचन्द्र व रामध्यान पुत्रगण शीतल ठकुराई नि० ग्रा० बसडिला बुजुर्ग ।
				426	निजी	कृषि	0.007	छेदीलाल पुत्र झोरील ग्रा० खुदरा, रघुनाथ राय पुत्र जय नारायन राय ग्रा० वा० सुबाष राय पुत्र लक्ष्मीराय निवासी ग्रा० खुदरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				438	निजी	मकान	0.022	तीर्थराज राय पुत्र नन्दराय ग्रा० नि० श्रीमती राधिका देवी पत्नी देव शर्मा नि० ग्रा० लतवाजीत
				444	निजी	कृषि	0.002	नवजीवन पुत्र हदीश व मु० खतिजिया वेवा सुलेमान ग्रा० नि०
				446	निजी	कृषि	0.005	अब्दुल लतिफ पुत्र चोकट ग्रा० नि०
				487	निजी	कृषि	0.060	श्रीराम जानकी टेम्पुल कमेटी
				488	निजी	कृषि	0.008	द्वारिका व रणजीत पुत्रगण प्रहलाद राय नि० ग्रा० खुदुरा
				524	निजी	कृषि	0.015	रामआधार पुत्र सहोदर राय ग्रा० नि०
				525	निजी	कृषि	0.006	खेदूराय व रघुनाथ राय पुत्रगण जयनारायण राय ग्रा० नि०
				526	सरकारी	गैर कृषि	0.013	नई परती
			(20) बसडीला बुजुर्ग	431	निजी	कृषि	0.200	कपिलदेव रामचन्द्र व रामध्यान पुत्रगण शीतल ग्रामवासी
				465	निजी	कृषि	0.016	वौहारी केदार पुत्रगण अदालत ठाकुर, पारस वहवकारी पुत्रगण वक्ली व सुदामा व रमेश पुत्रगण आमिला नागेन्द्र पुत्र कमीती टांका पुत्र इन्द्रदेव व योगेन्द्र पुत्र बुनेला गौरीशंकर उमाशंकर रमाशंकर पुत्रगण रामसवारे किशोरी व जयप्रकाश पुत्रगण जगरनाथ विनय कुमार वाव भीम मनोज कुमार एम्पू अयवस्क पुत्रगण शिवनाथ सं० श्रीमती कान्ती देवी (माता) कन्हैया पुत्र ब्रम्हदेव राजेन्द्र रामनरेश पुत्रगण शिवपूजन अमरेश पुत्र रामजीत प्रभूनाथ मनोज पुत्रगण राजेन्द्र वृजकिशोर ओमप्रकाश दिनेश पुत्रगण सुदामा ग्रामवासी
				468	निजी	कृषि	0.028	रामसेवक रमाकान्त पुत्रगण इन्द्रदेव व मु० रामदुलारी पत्नी इन्द्रदेव व रामाश्रय रामआधार रामवावू पुत्रगण सूरुजा श्रीमती मानोदेवी पत्नी सूरुज ग्रामवासी
				470	निजी	कृषि	0.035	केदार पुत्र झूलन राय व रविन्दर व उपेन्द्र पुत्रगण नगीना व राजेन्द्र व देवेन्द्र पुत्रगण खेदू व पौहारी पुत्र शिवनन्दत ग्रा० नि०
				473	सरकारी	गैर कृषि	0.005	नाली
			(21) सलेमगढ़	320	सरकारी	गैर कृषि	0.008	राजकीय निर्माण सड़क
				323	सरकारी	गैर कृषि	0.002	शंकर पुत्र कपिल देव ग्रा० वा०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				324	निजी	कृषि	0.026	रमाशंकर व राम दयाल व विशुन व राधा व हरिहर पुत्रगण रामरक्षा व जंगी, भीखी व जंगी व कुदन पुत्रगण प्रगास ग्रामवासी व राजनिर्माण सड़क
				329	सरकारी	गैर कृषि	0.026	राजकीय निर्माण सड़क
				330	निजी	कृषि	0.008	मु० देवरजिया बेवा सरजू व शिवराज पुत्र धनपति ग्रामवासी
				356	निजी	गैर कृषि	0.007	घूनर व फागू व ढोढा व नमी पुत्रगण सुखल व मु० देवरजिया बेवा सरजू व शिवराज पुत्र धनपति, रामजी पुत्र गोपाल व लक्षुमन व रामप्रसाद व ओम प्रकाश पुत्रगण चन्द्रदेव ग्रामवासी, रामेश्वर राय पुत्र सिदेश्वरी राय ग्रामवासी, आबादी
				413	निजी	कृषि	0.032	सहमत पुत्र मोसाहेब व कपिल पुत्र मोहम्मद व कसीपुत्र रफी व रेयाज पुत्रगण साफिर ग्रामवासी
				419	सरकारी	गैर कृषि	0.072	राजकीय निर्माण सड़क
				421	निजी	कृषि	0.005	नथुनी पुत्र सलहनत ग्रामवासी
				422	निजी	कृषि	0.054	इदरीश पुत्र मुख्तार ग्रामवासी, शमसुल पुत्र साहबदीन ग्रामवासी
				449	निजी	कृषि	0.010	आस मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद
				452	निजी	कृषि	0.026	इदरीश पुत्र मुख्तार ग्रामवासी, शमसुल पुत्र साहबदीन ग्रामवासी
				453	निजी	कृषि	0.017	शमसुल पुत्र साहबदीन ग्रामवासी, राजकीय निर्माण सड़क
				457	सरकारी	गैर कृषि	0.105	आबादी
				1379	निजी	कृषि	0.032	राजजतन पुत्र गुल्ली ग्रामवासी
				1394	सरकारी	गैर कृषि	0.005	चकमार्ग
				1400	निजी	मकान	0.105	नसरुल्लाह पुत्र असगर व नुरैन पुत्र ढोढा व अब्दुल्ल जवार पुत्र बम बहादुर व राघवजी व घुवजी पुत्रगण दासपतिनाथ व परीछन पुत्र जगदेव ग्रामवासी
				1406	निजी	मकान	0.031	राम औतर व बुधिराम पुत्रगण गुदरी व जेली व रामनरेश व हरिशंकर पुत्रगण किशुन व शिवजी व शारदा पुत्रगण विशुन व मु० रूकुमिनिया बेवा मुनेसार ग्रामवासी
				1413	सरकारी	गैर कृषि	0.023	राजकीय सड़क निर्माण
				3	निजी	कृषि	0.061	घुनर पुत्र सुखल ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4	सरकारी	गैर कृषि	0.405	हरिजन आवास
				26	निजी	कृषि	0.057	बेचू पुत्र सुमंग ग्रामवासी
				31	निजी	कृषि	0.004	विशुनी पुत्र जदू ग्रामवासी
				32	निजी	कृषि	0.061	विशुनी पुत्र जदू ग्रामवासी
				37	सरकारी	गैर कृषि	0.004	चकमार्ग
				40	निजी	कृषि	0.010	वृजकिशोर व ओमप्रकाश व दिनेश पुत्रगण सुदामा निवासी वसडीला बुजुर्ग
				252	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
				254	निजी	कृषि	0.052	राजधारी पुत्र नगेसर ग्रामवासी
				309	सरकारी	गैर कृषि	0.010	राजकीय सड़क निर्माण
				517	सरकारी	गैर कृषि	0.002	बंजर
				518	सरकारी	गैर कृषि	0.002	आबादी
				944	सरकारी	गैर कृषि	0.019	खलिहान ब्रह्मस्थान
				948	निजी	कृषि	0.002	हरिनारायण व रामनारायण व श्यामनारायण व बदीनारायण व केदार नारायण पुत्र गण जुगुन तिवारी व गिरजनंदन व श्यामनंदन व जुगुन तिवारी व अमेश्वरी व महेश्वरी पु०ग० महावीर ग्रामवासी
				949	निजी	कृषि	0.003	यामनारायण तिवारी पुत्र जुगुन तिवारी ग्रा०वा०
				975	निजी	कृषि	0.003	सुबाषचन्द्र व रामजी पु०ग० चन्दन लाल व पवन कुमार व अनिल कुमार पु०ग० जुगुन किशोर लाल व कौशल किशोर पुत्र शिवनंदन लाल ग्रा०वा०।
				994	निजी	मकान	0.015	कन्हैया नंदन पुत्र रघुवीर ग्रा०वा०
				1077	निजी	कृषि	0.002	ग्रहन पुत्र हरना ग्रा०वा०।
				1078	निजी	मकान	0.030	गोपाल पुत्र ढोढा ग्रामवासी
				1	सरकारी	गैर कृषि	0.134	सिलिंग
				318	निजी	कृषि	0.040	जीवन व वालकिशुन पुत्रगण लखन ग्रामवासी
				319	निजी	कृषि	0.004	जीवन व वालकिशुन पुत्रगण लखन ग्रामवासी
				331	निजी	कृषि	0.012	प्रहलाद पुत्र कोसन व किसुनी व राजधारी पुत्रगण रोशन व फेकू व सिंगासन व फूलेना व हीरा व गेना पुत्रगण नथुनी व रमाशंकर व रामहरि अव्यस्कगण आयु क्रमशः 9 व 5 वर्ष संरक्षिका मु० सरस्वती (माता) पुत्रगण चन्दिका ग्रामवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				455	निजी	कृषि	0.016	नथुनी व नेऊर व तफानी पुत्रगण सुमान व हदीश पुत्र असरफ व साकिर अली व साकिर अली पुत्रगण सदीक व राजा पुत्र रहमान व खिजामुदीन व मैनुदीन व जलालुदीन पुत्रगण अलीराजा व नवाव व साविक हुसेन पुत्रगण हलीम व श्रीमती हकीमनी जौजे सदीक ग्रामवासी, राजा पुत्र रहमान ग्रामवासी
				458	निजी	कृषि	0.004	जती व रामनरेश व हरिशंकर पुत्रगण रामकिशुन ग्रामवासी
				1380	निजी	कृषि	0.032	दीलू व मातवर व खुशी व सुखी पुत्रगण गुलाम हुसेन व मु० महजीदनी व मुशी पुत्र रामतली व जगन पुत्र हाई व वलायत पुत्र गुदन व खेन्हरे व दसई पुत्रगण ग्रामवासी
				1401	निजी	कृषि	0.100	विक्रमा पुत्र राज मंगल ग्रामवासी
				8	सरकारी	गैर कृषि	0.002	चकमार्ग
				22	सरकारी	गैर कृषि	0.004	रास्ता
				253	निजी	कृषि	0.006	जगरोशन पुत्र सोहित ग्रा०वा०।
				803	सरकारी	गैर कृषि	0.030	आबादी।
				1079	सरकारी	गैर कृषि	0.080	नहर
				960	निजी	कृषि	0.003	भोला व रमाकान्त पु०ग० रामराज व शमसंज पुत्र जोहर व इन्द्रदेव व मंगल व गिरधारी पु०ग० रामजतन व काशी पुत्र श्याम राव व रघुनंदन पु० मनाहर व राधा शंकर पुत्र जगदेव व रामनरेश व सुरेश व हरीश व विक्रमा व हरिनाथ पु०ग० शिवनंदन ग्रा०वा०।
				945	सरकारी	गैर कृषि	0.360	रा०रा० मार्ग।

[फा. सं. भारतप्रव/40020/2/सी-III/2002/तक्र.-III/कुशी नगर/3डी/भू.अ.-159]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2006

S.O. 655(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number S.O. 1537(E), dated the 25th October, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 26th October, 2005 and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening) of National Highway No. 28 on the stretch of land from Km.9.000 to Km.360.570 (Lucknow - Uttar Pradesh/Bihar Border Section) in District **Kushi Nagar** in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran", dated the 26th November, 2005 and in "Aaj", dated the 26th November, 2005; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 9.000 to Km. 360.570 (Lucknow - Uttar Pradesh/Bihar Border Section) on the National Highway No.28 in the State of Uttar Pradesh

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area of land (in hectares)	Name of the land owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kushi Nagar	Hata	(1) Subudhia Khurd	1	Government	Non Agriculture	0.026	Nala
				81	Government	Non Agriculture	0.015	Nali
				85	Private	Agriculture	0.025	Ramakant s/o Hargun Gramwasi
				93	Private	Agriculture	0.130	Mata Badal s/o Ramawadh Vill-Gorakhpur, Gena s/o Udit, Vill-Jamuan
				119	Government	Non Agriculture	0.015	Way
				120	Private	Agriculture	0.066	Dwigvijay Singh s/o Lakhanbahadur Singh Vill- Navapar
				124	Government	Non Agriculture	0.020	Nala
				130	Government	Non Agriculture	0.283	Pakki Sadak
				169	Government	Non Agriculture	0.044	Way
				170	Government	Non Agriculture	0.003	Banjar
				178	Government	Non Agriculture	0.020	Nali
			(2) Bhagwanpur Buzurg	382	Private	Agriculture	0.260	Lalsa and Sukhnandan s/o Mahangu Gramwasi, Banjar
				455	Private	Agriculture	0.038	River, Majhane, Musmat Balkesia Beva Dally Niwasi Gram- Subudhia Khurd
				467	Government	Non Agriculture	0.013	Road, Ramlakhan s/o Ramyadi Gramwasi-, Subhsh s/o Rajdhari Vill- Deoria etc., Kapildev & Rajbhawan s/o Jasai etc.
				478	Government	Non Agriculture	0.038	River, Majhane, Musmat Balkesia Beva Dally Niwasi Gram- Subudhia Khurd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(3) Chacknil Kanth	1	Government	Non Agriculture	0.084	River
				2	Private	Agriculture	0.076	Jayantri, Baijnath & Srinivas & Chhavitai s/o Algu & Ramchandra & Vishvnath & Sitaram s/o Palakdhari, Dinesh s/o Nandlal & smt. Nabujan Jauje w/o Majhar ali Gramwasi, Purushottam & Hari & Jagarnath & Prasad s/o Jaddu Gramwasi
				8	Private	Agriculture	0.058	Purushottam, Hari, Jagarnath, Prasad s/o Jaddu Gramwasi
				9	Private	Agriculture	0.025	Amarnath, Sheshnath, Bhupendra s/o Shivkumar Vill- Belwa Khurd, Tappa- Kewtali Dist-Gorakhpur, Jagarnath s/o Jaddu, Brijlal s/o Palakdhari Gramwasi
				10	Private	Agriculture	0.029	Amarnath, Sheshnath, Bhupendra nath s/o Shivkumar Vill- Belwa Khurd, Tappa- Kewtali Dist-Gorakhpur, Brijraj s/o Palakdhari Gramwasi
				11	Government	Non Agriculture	0.068	Marghat
				15	Private	Agriculture	0.040	Sattar, Gaffar s/o Moihu Gram Ramudiha
				24	Government	Non Agriculture	0.005	Way
				28	Private	Agriculture	0.034	Manjid s/o Ahmad Gramwasi & Sitaram s/o Palakdhari, Alauddin s/o Talukdar smt. Rumali Devi w/o Jagdev Pd. Yadav Rawatpar Tahsil Sadar Gorakhpur Hai Mukam Chacknil Kanth
				29	Private	Agriculture	0.057	Algu, Jayantri & Baijnath & Srinivas & Chhavitai s/o Algu Gramwasi
				49	Government	Non Agriculture	0.028	Khad Gaddha
				50	Private	Agriculture	0.011	Ramdarash s/o Baliraj Vill- Badhya Khurd
				69	Government	Non Agriculture	0.033	Kabristan
				217	Private	Agriculture	0.021	Rambadan & Nandu & Chhoteial s/o Vipat & Laldei w/o Vipat Vill-Badheya Buzurg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				218	Private	Agriculture	0.026	Guptar s/o Algu Vill- Badhya Khurd, Mahatam, Ranglal s/o Rameshwar; Rambriksh, Rampyare, Rampratap, Radheshyam, Sunil Kumar s/o Shobhi, Janki Devi Widow Shobhi Gramwasi
				219	Private	Agriculture	0.028	Sonmati w/o Triveni, Pradhan s/o Bhagwati, Chhedi, Rambriksh, Bihari, Suresh, Hridesh s/o Badari Gram Badhya Khurd & Govind s/o Kashi Gramwasi
				220	Private	Agriculture	0.032	Bhikha s/o Mathura, Khedu, Ram Bhawan s/o Sukai, Ramashish, Ramasare, Ramniwas s/o Mangal, Jangali, Mangali, Sitaram, Harilal s/o Ramraj, Ramadhar s/o Chaturi, Neur s/o Palki, Vikau Prasad, Ashok Kumar, Rajeshwar Lal S/o Bhulan, Virendra Kumar s/o Basant Niwasi Gram Sukrauli
				224	Private	Agriculture	0.018	Shobhi, Mahatam, Ranglal s/o Rameshar, Ishwar, Jagmal S/o Ramvaran Gram Badhaya Buzurg
				225	Private	Agriculture	0.008	Rambriksh s/o Shobhi, Ramanand s/o Mahatam, Manoj Kumar s/o Ranglal Sa. Chaknil Kanth
				271	Private	Agriculture	0.032	Purushottam, Bagenath, Hridesh s/o Motichand, Vijay Kumar s/o Suryalal & Musmat Chhohadi Widow Suryalal Gram Badhaya Buzurg
				272	Private	Agriculture	0.138	Ashanand Yadav s/o Rampratap, Sheshnath s/o Shiv Kumar Niwasi Gram Badhya Khurd
				273	Private	Agriculture	0.005	Smt. Sonmati w/o Mevalal Sa. Badhya Buzurg and Mahatam s/o Rameshar Sa. Chaknil Kanth
				274	Government	Non Agriculture	0.002	Sector Road
				278	Private	Agriculture	0.002	Munsi, Bijuli, Shekar and Sarvan s/o Tipu and Trilok and Omprakash s/o Surat and Mahapal and Jaipal, Dharmpal s/o Murat Gram Sukrauli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				281	Private	Agriculture	0.002	Murali s/o Nandan and Pratap and Nebulal and Srinivas s/o Mutur and Arjun s/o Kashi and Trilok and Omprakash s/o Surat and Mahapal and Jaipal and Dharpal s/o Murat and Munsu and Bijuli Shankar and Sarvan s/o Tipu Gram Sukrauli
			(4) Badhya Khurd	63	Private	Agriculture	0.040	Ramadhar s/o Kaushal Gram Chaknil Kanth, smt. Belasi Jauje Ramghumawan, Gramwasi smt. Pranmati w/o Achhelal Sakim Vishunpur Kaithwalia(Vindusar), Govari s/o Vipat, widow Kusmawati w/o Rambriksh, Brijmohan(Minor) 10 Years. Widow Kusmawati(Mother) Self.
				71	Private	Agriculture	0.034	Srikushun s/o Agardi
				75	Private	Agriculture	0.058	Ramashankar et.
				77	Private	Agriculture	0.042	Gaurishankar, Vijay chand, Sundar, Bankelal s/o Balli Gramwasi
				78	Private	Agriculture	0.030	Ramnagina Urf Gojai, Ramagya s/o Kinai Gramwasi
				79	Private	Agriculture	0.032	Harilal, Ramsuchit etc.
				81	Government	Non Agriculture	0.011	Khad Gaddha
				97	Private	Non Agriculture	0.011	Murali s/o Shivpujan, Purnwasi s/o Ramlal, Mithai, Chandi s/o Chauthi Gramwasi Bhishmpitamah, Ramashankar s/o Bhaddar, Mangal, Jangali, Ramlaxan s/o Sai Gramwasi, Khedu s/o Badhu Gramwasi, Abadi, Rampat s/o Swarup, Ramdas, s/o Rama, Keshu s/o Widow Sunari, Beva Ganpati, smt.Savita, smt.Janki s/o Manuram Gramwasi, Rampati, Sampat, Rama, Gopal s/o Baidyanath Gramwasi, Ramayan, shambhu s/o Gunar, Ramayan s/o Ramji, Ganga s/o Ramdas Gramwasi, Abadi
				98	Government	Non Agriculture	0.005	New Grassland

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				100	Government	Non Agriculture	0.039	Banjar and Abadi
				101	Private	Non Agriculture	0.047	Abadi, Dulare, Umakant s/o Lubhawan Gramwasi, Janardhan s/o Kachchu, Manu, Dhanu Yadav s/o Meghu, Surajdev, Sudarshan s/o Dhumal, widow Kusumawati, Bewa Awadhesh, Ramawatar, Ramagya, Jagharnath s/o Naresh, widow Charni, Beva Naresh, Hari s/o Buddhu Gramwasi, smt. Velasi w/o Ram Ghumawan Gramwasi
				102	Government	Non Agriculture	0.010	Pokhari
				104	Private	Agriculture	0.059	Sachidanand, Shardā, Vinod Kumar, Pramod Kumar s/o Nityanand, smt. Doma w/o late Nityanand Gramwasi
				105	Private	Agriculture	0.064	Sachidanand, Sharda, Vinod Kumar, Pramod Kumar s/o Nityanand, smt. Doma w/o late Nityanand Gramwasi, Mohan, Rambriksh s/o Shivratan, Biharilal s/o Dashrath, Ramdhari s/o Dipchandra Gramwasi, Thakur s/o Musai, Sitaram, Dwarika, Kashinath s/o Sukai, Ramisagar, Nageshwar, Prahlad, Santraj, Hansraj s/o Rampati, & Sudama, Rupām, Babban s/o Mahangu, widow Dipraji w/o Munni, Hari s/o Munni Gramwasi
				142	Private	Agriculture	0.026	Sachidanand, Sharda, Vinod Kumar, Pramod s/o Nityanand, smt. Doma w/o late Nityanand Gramwasi
				145	Government	Non Agriculture	0.013	Nahar Department
				146	Private	Agriculture	0.056	Diljan s/o Jalil Gram sukrauli, smt. Gulabi Devi Jauje, Katwaru Sa. Fejpur Dist- Gorakhpur, smt. Teteri w/o Vishundayal Sa. Pakari
				148	Private	Agriculture	0.033	Sachidanand, Sharda, Vinod Kumar, Pramod Kumar s/o Nityanand, smt. Doma w/o late Nityanand

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				149	Private	Agriculture	0.026	Omprakash, Lalji, smt. Sarasati Devi Jauje, Ramsharan Sa. Jangal Rasulata, Chauri- Chaura Hall, Moje Badhya Khurd, Jaibhal Singh s/o Sundar Singh Sa. Sukrauli, Subhash, Rampravesh, Vinod Kumar s/o Sukai Gram Pidra
				150	Private	Agriculture	0.038	Parasnath s/o Ramrup Sa. Basantpur, Parasuram Urf Kakwal Dist- Deoria widow Kaushilya Jauje, Ramdas, Satyendra Nath, Salendranath s/o Hridaynath, Shyamkaran(Minor) s/o Tarkeshwar Layat, smt. Annpurna Devi Jauje, Tarkeshwar Mata Khurd Gramwasi
				151	Private	Agriculture	0.006	Jaisingh, Rajendra Singh s/o Ramagya Singh, Ramashray, Ramgovind s/o Kedarnath Sa. Sukrauli
				166	Private	Agriculture	0.034	smt. Sumitra Devi Jauje, Pramod Sa. Sukrauli, Amerika, Chandrika s/o Ramashray Gram Mundera, Thagai s/o Manohar, Shivchandra, Sudama s/o Kauleshar Gramwasi
				174	Private	Agriculture	0.032	smt. Subhawati w/o Markandey, smt. Savitri Devi w/o Mahendra Singh Sa. Sukrauli, Gram Vishambharpur, Chandrabhan s/o Bhikhari Gram Sukrauli, Jokhai, Siri s/o Gabbu, Sukrauli, Ramchandra s/o Rampratap, Gram Badhaya Buzurg, Muneshar s/o Ramprasad Sa. Sukrauli, Ramkishun s/o Ramlagan, Gram Sukrauli, Fulmati Jauje Omprakash Gram Sukrauli Hira, Sudama s/o Bhikhari, Gram Sukrauli, Bhagauti s/o Ramnarayan, smt. Prabhawati w/o Ramkishor Gram Sukrauli
				191	Private	Agriculture	0.020	Ramlaxan s/o Bhupnarayan, Ambika s/o Vishvnath, Paras s/o Laxmi Gram Sukrauli, Yashoda Devi w/o Shankar, Bajrangi s/o Ramlakhan, Dudhai S/o Khedu Gram Pidra, smt. Subhawati w/o Ramprit Gram sukrauli
				192	Private	Agriculture	0.012	smt. Jhinki w/o Paras Gram Sukrauli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				285	Government	Non Agriculture	0.016	Nahar
				288	Private	Agriculture	0.060	Fulchand. s/o Ramvaran, Rudal, Jawahir, Ramsewak s/o Kashi Gramwasi Premsagar, Ramsagar s/o Anuradha Sa. Pindara, Govind, Bhimwati, Ramgopal, Ramautar s/o Sukadev, Mu. Gita widow Sukdev Gramwasi
				342	Government	Non Agriculture	0.017	Navin Parti
				342 / 604	Government	Non Agriculture	0.025	Ashanand, Vivekanand, Shajlesh Kumar s/o Rampratap Gramwasi
				343	Government	Non Agriculture	0.010	Play Ground
				356	Private	Agriculture	0.040	Akshaibar, Ramparikshan s/o Lodai, Bhagwat s/o Chartugran, Ashannand, Vivekanand, Shailesh Kumar s/o Rampratap, Balmukund, Balgovind, Shivgovind s/o Santu, Srinivas, Chhotelal s/o Pataru Gramwasi
				358	Private	Agriculture	0.110	Paras, Ramnath s/o Gobardhan Gramwasi
			(5) Sukrauli	313	Private	Non Agriculture	0.050	Smt. Chandravanti w/o Ayodhya, smt. Nerudevi w/o Chandrabhan Gramwasi, Sudish, Subash s/o Shital, Babunandan s/o Isari, Akshaybar, Haridwar, Dukhran, Sukhran s/o Jitu, Shivprasad, Hiralal s/o Ramsumer, Mahatam s/o Mangaru, Asaibar, Haridwar, Dukh Haran, Sukh etc. Ayodhya & Kalika s/o Devi Saran & Fulmati Widow Bhagwati Gram Balua
				314	Private	Agriculture	0.040	Smt. Indrawati w/o Ayodhya, smt. Dhaneshara w/o Bhikhari Gram Sukrauli, Rambriksh s/o Bhikhari Gram Belwa, Jokhu, Indradev s/o Mitthi Gram Ganeshpur, Ajay Kumar, Vijay Kumar s/o Mahendra Mani Gramwasi, smt. Nirmala Devi w/o Shiv Gramwasi, Vinod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				354	Private	Agriculture	0.030	Bajjnath, Triveni a/o Dharmu smt. Sumitra Devi w/o Gomal Sharma Sa. Pipra Urf Titla, Haricharan, Shivcharan s/o Ramkishun Gram Thuthi, Subash, Gulab s/o Gopi, Lakhichandra s/o Ghurahu, smt. Somari w/o Rambriksh, Hari s/o Ramji Gramwasi, Jagdish
				355	Private	Agriculture	0.010	Bajjnath, Triveni s/o Dharmu Gramwasi
				357	Private	Agriculture	0.020	smt. Jota w/o Shankar, Rama, Mangali, Shankar s/o Ramlagan Gramwasi
				358	Private	Agriculture	0.010	Ramanand, Mangal, Shankar, s/o Ramlagan, Parma s/o Ramlagan Gramwasi
				362	Government	Non Agriculture	0.008	Holika Dahari
				363	Government	Non Agriculture	0.015	Jal Magn Bhoomi
				364	Government	Non Agriculture	0.015	Banjar & Abadi
				370	Government	Non Agriculture	0.035	Abadi
				374	Government	Non Agriculture	0.028	Abadi
				375	Government	Non Agriculture	0.004	Banjar
				380	Government	Non Agriculture	0.005	Abadi
				386	Private	Agriculture	0.045	Mahendra, Narendra, Raghwendra, Shailendra s/o Indrasan Gram Semari Maheshpur, Awadhesh Singh s/o Rammaresh Singh Gram Jagdishpur, Vikram, Baliram s/o Vishvnath Gramwasi, Dhruvchandra, Motichandra, Premchandra s/o Rambilas, Bhagwati s/o Ramnarayan Gram Ganeshpur
				387	Private	Non Agriculture	0.002	Pradip s/o Laxmi and Vishvnath s/o Sarju and Meghai s/o Baghai, Bikau s/o Feku and Jitai and Jiv and Shiv and Chauthi and Gauri Shankar s/o Chaitar Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				417	Private	Agriculture	0.090	Naresh, Meva, Sribhagawat s/o Sarayu, Dayaram, Bakuni, Jaimali, Omprakash, Subash s/o Sundar, Santosh, Rakesh s/o Indrajit, Lalian s/o Ramswarup, Ram Narayan, Munsi, Saukhi s/o Jangali, Rambilas s/o Balli, Shobha s/o Ramprasad smt. Mewati w/o
				418	Private	Agriculture	0.016	Dhruvchandra, Motichandra, Premchandra s/o Rambilas, Baliram, Bhajuram s/o Achhibar Sharma Gramwasi, Srilal s/o Jainath, Vindhyaçal, Rampyare s/o Sukhari Gramwasi smt. Gyatri w/o Ramashare Gramwasi Baburam s/o Sahdev Gram Khetaha, Dhruvchandra,
				419	Private	Agriculture	0.012	Ramdev s/o Rajbanshi, Ramprasad, Rampyare s/o Tapeswar Gram Ganeshpur
				420	Government	Non Agriculture	0.016	Nahar
				492	Private	Agriculture	0.046	Aniruddh s/o Lakkhan, Kishor, Sarveshwar s/o Indradev Gram Pakadkura Tah- Sadar Gorakhpur, Digri, Udaybhan, Brinda, Lal Pratap s/o Gabbu, Abhyanand s/o Laxman, Omprakash, Sadhusaran s/o Ramsewak, Ramlal s/o Gopi, Dhulpatari s/o Yogi & Motichandra
				496	Private	Agriculture	0.008	Rambilas etc.
				497	Private	Agriculture	0.005	Vikram, Baliram s/o Shivnath Gramwasi
				498	Private	Agriculture	0.007	Ramsanehi, Mithai, Fulbadan s/o Sitaram Gram Rampur Thohrauna, Umalal, Moti s/o Jattan Gram Dumari Malav
				499	Private	Agriculture	0.048	Chandraban, khublal, Beglal, Dinesh s/o Ramashare, widow Dhanmati w/o Ramashary Gram Sukrauli, Ghurahu s/o Tufani, Rambali, Harihar, Surendra s/o Rameshwar, Kedar s/o Ramsingar, Prem, Moti Lal s/o Mattan Gram Dumari Malav, Ramjit, Lalji, Ashok (P)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				500	Government	Non Agriculture	0.015	Junior High School
				516/ 632	Private	Agriculture	0.005	Sudama and Bajrangi and Rammakshatra and Ramhit and Dinesh s/o Neur Gramwasi
				546	Government	Non Agriculture	0.005	Abadi
				547	Government	Non Agriculture	0.034	Banjar
				548	Government	Non Agriculture	0.078	Abadi
				565	Private	Agriculture	0.065	Gautam s/o Ramadhar, Rampyare, Ramchandra, Ramashankar s/o Hira Lal Gramvasi, Mahatam Mithai, Bhagwat s/o Nebulal Gram Badhaya Buzurg, widow Savitri Devi w/o Ramashankar Gramwasi, Chandrika, Ramesh Chand s/o Vridhhi Chand Gram Badhaya Buzurg, Chandrika Dattak s/o Kanhaiya, Bik
				578	Private	Non Agriculture	0.015	Chandraprakash and Mahendra and Satyendra s/o Rampyare and Musmat Safi Devi w/o Rampyare and Ramhujur and Subash s/o Vishvnath Gramwasi
				610	Government	Non Agriculture	0.020	Abadi
				612	Private	Agriculture	0.028	Kailash, Kedar s/o Raja, Omprakash, Bachcha Urf Suresh Sakalu Gramvasi, Ishwar, Prahlad s/o Ramdhan Gram Rayanpur, Motichandra, Ganesh s/o Harhangi Gramvasi, Ramgovind s/o Rambali Gram Lehani, Ramadhar, Ramawadh, Ramkawal, Lalji s/o Ramsan Gramwasi Jharkhand
			(6) Bishampur Urf Thuthi	230	Government	Non Agriculture	0.024	School (Junior high school)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				231	Private	Agriculture	0.013	Gabbulal s/o Shivprasad, Shankar, Pradumman, Chandrabhan s/o Motilal Musmat Jadi Beva Motilal, Mahendra s/o Srinivas, Musmat Lachi w/o Srinivas, Arun Kumar(Adult), Ashok Kumar(Minor) 15 Year Sa. Mata Sawy, smt. Sumitra w/o Kalpnath Gram Badhaya Buzurg, Harivanish s/o Ramlagan Gram Pipra Humel, Adi
				234	Government	Non Agriculture	0.005	Rasta
				235	Private	Agriculture	0.016	Indrajit, Ramjit, Surendra, Ravindra, Virendra, Harindra s/o Awadhu Gram Mahadanpur Sihuniya, Khaderu s/o Sukhari Gramvasi, Gulab, Vijai, Dhurai, Laxman s/o Parmeshwar Gram Semari Maheshpur, Farukh s/o Rahamtullah Rahim s/o Haji Gram Awarawa, Moti s/o Baldev Gram Mahadanpur Sihuniya, Ramdulare s/o Gauri Gramvasi, Sarafuddin(Adult), Abbas, Masaluddin(Minor) 15 & 11 Years Sa. Mu. Jaiwun nisha Mata s/o Rahim Gram Awarawa, Jaigovind s/o Wakil Laldhar, Sanjay (Adult), Nitesh (Minor) 8 Years, Sa. Mu. Kalawati Devi (Mata) s/o Ramkewal (Pautra) Musmat Kalawati Beva Ramkewal(Badhu), Mehar s/o Birkahan, Jawahar, Nandlal s/o Jagdhar Gram Mahadanpur Tihuniya
				236	Private	Agriculture	0.006	Bablu s/o Nurulhasan Khan Gramvasi
				237	Private	Agriculture	0.005	Ramji Singh s/o Shivraj Gram Lehani, smt. Kaushilya Jije, Ramdinesh Gram Savna Laxman
				238	Private	Agriculture	0.006	Ramanand s/o Kamla Singh Gram Patani
				239	Private	Agriculture	0.006	Ramnaresh s/o Jagat Narayan Gram Patani, Chandrabhan, Khublal, Veglal, Dinesh s/o Ramashare, Musmat Dhanmati Beva Ramashre Gram Dumari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				240	Private	Agriculture	0.004	Ramji, Rambelas, Ramdulare, Raghunath s/o Sunraman Gram Patani
				241	Private	Agriculture	0.006	Ramawatar s/o Sunraman Gram Patani
				257	Private	Agriculture	0.035	Bhagauti s/o Baburam, Sukhdev Singh, Foolbadan Singh, Amar Singh s/o Ramsiri Gram Rampur Maharath
				271	Private	Agriculture	0.043	Ramdulare s/o Ori, Parasnath s/o Laxmi Gram Sukrauli, Omprakash s/o Dhoorpati, Gopal s/o Kamal Gram Pipta Humel & Rajkumar s/o Bhola Gram Dumari Malav, Ramesh s/o Chhedi Gram Rudhopur
				278	Government	Non Agriculture	0.001	Nali
				280	Government	Non Agriculture	0.001	Ramdarash & Ramjatan & Rajendra & Harendra & Arjun s/o Jiut & Musmat Bhagmani Beva Jiut Gramwasi
				299	Private	Agriculture	0.015	Kedar, Ramadhar, Sadhare s/o Bhaggan Gramwasi
				303	Private	Agriculture	0.008	Gulab s/o Purnwasi Gram Mishrauli, Ramprasad, Bihari s/o Badohi Gramwasi
				305	Private	Agriculture	0.080	Dukharan s/o Murat, Rajeshwar s/o Ramnagina, Peshkar s/o Dukh Haran, smt. Kalawati Jauje Mukhtar Gramwasi, Premsagar s/o Ramnawal Gramwasi, Vikram s/o Shivnath Gram sukrauli, Gulab, Vijaylal s/o Jiut Gram Gidaha Dhanha, Hareram, Harekrishan(Minor) 11& 8 Years Sa. Mu.Kabutari Mata Saway s/o Mevalal, smt. Kabutari Beva Mevalal, Ramashray s/o Gajadhar Gram Dumari Malav

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				308	Private	Agriculture	0.047	Jawahar, Nandlal s/o Jagdhar Sa. Mahadanpur Sihuliya, Badriprasad, Saini s/o Basant Prasad Saini Gram Basgaon Dist- Gorakhpur, Janardhan, Dindayal, Vijaynarayan s/o Damodar Gram Naumunda, Virendra s/o Vishundev Gramwasi, Vivek Singh s/o Kamlesh Kumar Singh, Abhinav Kr. Singh s/o Savendra Kr. Singh Gram Gidaha Dhanaha, Ramharakh, Chandrabhan, Babban, Tahasildar Urf Sudhir s/o Shyamsundra Gram naumunda, Suresh s/o Jiut Gramwasi, Motichandra s/o Ramlakhan, Lalji, Ramgati s/o Shyambali Gram Naumuda
				311	Private	Agriculture	0.050	Smt. Dulari w/o Rudal, smt. Renu Pandey w/o Sudhir Kumar smt. Sumitra w/o Srikant Badhaya Buzurg, smt. Shanti Devi w/o Rambelas Gram Dumari Malav, smt. Israwati Devi Jauje, Puranchandra Gram Hata, smt. Shanti Devi w/o Jawaharlal Niwasi Gram Sukrauli, Vishvkarma s/o Vanvasti Gram Pipra Hugel, Sitaram s/o Bhagwat Gram Basgaon Ha. Mu.- Sukrauli, Premlal, Motilal s/o Mattan Gram dumari Malav & smt. Laxmina w/o Ramprit
			(7) Pipra Urf Titla	68	Private	Agriculture	0.012	Nijamuddin, Samsuddin s/o Idan Gramwasi, smt. Chandrawati Devi w/o Ganeshdatt, smt. Kiran Devi w/o Kamleshdatt Sa. Pipra humel smt. Lachi Devi w/o Ramayan Sa. Mundera Khadi
				69	Private	Agriculture	0.012	Nabi s/o Sahadat, smt. Sumitra Jauje Gomal Gram Kishori Devi w/o Laldhari Sa. Pipra Humel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				70	Private	Agriculture	0.012	Parikhan Chauhan s/o Pancham Chauhan Gram, Radheshyam s/o Bhola Gram Dumari Malav, Dhruvchand, Motichand, Premchand s/o Rambilas Gram Sukrauli, smt. Ramji Jauje Parikhan Gram Pipra Humel, Mo. Sharif Ansari s/o Katwari Ali Sa. Pona Son Basrasa Tapp- Rajdhani Tah. & Dist- Gorakhpur
				71	Private	Agriculture	0.012	Madan, Ramjatan s/o Khedan Gramwasi, Ramasare s/o Sri Bhagwat Gram Rampur Sohrauna, smt. Gita Devi w/o Virendra Prasad Niwasi Gram Mundera Khaki
				72	Private	Agriculture	0.011	Sri Bhagwat & Srinivas s/o Charitar & smt. Dhanesha w/o
				74	Private	Agriculture	0.034	Sitaram, Kodai, Chhotelal s/o Vishvnath, Surendra s/o Vyapari Gram, Ramesh, Mohan s/o Thakur Prasad Lal Gram Sahar- Gorakhpur, Alinagar, Rajaram s/o Nebhu, smt. Hafijun Nisha w/o Alisher Sa. Pipra Hussain
				83	Government	Non Agriculture	0.003	Gandak Nahar
				92	Private	Agriculture	0.010	Suresh Chandra, Mahesh Chandra s/o Badari Narayan, smt. Saraswati w/o Brijbihari Gramwasi Jangal Dumari, Doyam, Tah-Khuthal, Parg Haweli, Km. Archana d/o Bihari Gram, Sahar- Gorakhpur, Mu. Alinagar, Jaiprakash, Prabhunath s/o Munshi Gramwasi, Banwari s/o Ramnath Gram Bardwallia, Sri Narayan s/o Lalbachan, Mantu(Minor) 5 Years Sa. Shakuntala Mata Saway s/o Vinod, smt. Shakuntala w/o Vinod Gram Mundera
				209	Government	Non Agriculture	0.010	Navin Parti
				210	Government	Non Agriculture	0.011	Abadi
				216	Government	Non Agriculture	0.003	Rasta

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				298	Private	Agriculture	0.230	Chhotelal, Shivshankar s/o Ramdhani Sa. Mundera Khagi, smt. Sumitra Devi w/o Jaiprakash Sa. Paduri, Durgawati Devi w/o Gorakh Gram Kurmauta, Ramsurat s/o Musai, Shivshankar, Ramesh s/o Ramji, smt. Bechna Devi w/o Ramsurat, Dhanushdhari, Tarkeshwar, Bharat, Jagat s/o Khaderi Sa. pipra Humel, Harinarayan, Brijnarayan, Surendra, Ashok s/o Ramashray, Shiddu s/o kashi, Ramnaresh, s/o Dhupai Sa. Mundera Khagi, Ramdev s/o Ramkishun Gram Padari Gaura, Ramdas Singh s/o Khunkhun Singh Gram Madarsan, Ramji s/o Vindhyachal, Ram Sumer s/o Chandi Sa. Lehani, Tah- Binduar, Shivhari, Devi Prasad, Suryabhan, chandrabhan s/o Chokat Gram Mahadanpur Sihuliya, smt. Bipraji w/o Tejbahadur Gram Samodhar, Tola-Kanchanpur, Ha.Mu. Sukrauli, Gulab s/o Muneshwar Sa. Dumari Malav, Lallan Sharma s/o Dhamu Gramwasi
				312	Private	Agriculture	0.022	Suresh Chandra, Mahesh Chandra s/o Badari Narayan, smt. Saraswati w/o Brijbihari Gramwasi Jangal Dumari, Doyam, Tah-Khuthal, Parg Haweli, Km. Archana d/o Bihari, Gram Sahar- Gorakhpur, Mu. Alinagar, Varis Ali s/o Asik Ali Gramwasi
				313	Private	Agriculture	0.035	Adya s/o Lallan, Rambriksh & Sudarshan s/o Rajaram, Ramkripal, Ramayan, Indrajit, Vijayi s/o Bihari Gram, Badami w/o Shivcharan, smt. Sumitra w/o Haricharan Gram Vishunpur Urf Thuthi, Lalchand, Harishchand, Dipchand s/o Jiut Gram Naumunda, Tarkeshwar s/o Khaderu Gram Pipra Humel, Harishchandra s/o Jiut Sa. Naumunda, smt. Kailashi Devi w/o Rambriksh Gram Pipra Urf Titla

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				314	Private	Agriculture	0.097	Dhanushdhari s/o Punwasi Gramwasi, Ramashare, Madan, Ramesh s/o Haridwar, Singari Devi Jauje, Murarilal Gram Sukraulli, Gyan, Ramashankar, Dhrup s/o Fulan Gram Sona Parashuram urf kakwal Dist- Deoria, Reshma Devi w/o Ram Mu- Sharma Gram Dumari Malav, Parnila w/o Nagendra, Kaulashi Devi w/o Nandlal, Pavitri Devi Jauje Lorik, Mahesh, Dinesh, Govind, Yogendra s/o Kashiram Gram Dumari Malav, Ramdhyan, Akshaybar s/o Thag Gram Chaknarayan, Mangal s/o Ramlagan Sa. Rampur Sohrauna, Jagat s/o Bhikhu Sa. Mudera Khagi, Punam Devi w/o Omprakash, Sa. Mahuava Khurd, Tah- & Dist- Gorakhpur
				334	Government	Non Agriculture	0.017	Gandak Nahar
				336	Private	Agriculture	0.078	Gena s/o Jitan, Angad, shailesh s/o Munib, smt. Maina Devi w/o Udaybhan, Brijraj s/o Bindeshwari Gramwasi, Idris, Mahboob s/o Sudhi, smt. Mira devi w/o Dinesh sharma Sa. Dumari Malav, Basantpur, Bihari, Bigan s/o Jira Gram Ghortap, Bandhan s/o Pasram, Akshaylal s/o Sattan, Punwasi s/o Narayan Gram Dumari Malav
				425	Government	Non Agriculture	0.009	Abadi
				426	Private	Agriculture	0.020	Ramesh, Mohan s/o Thakur Prasad Lal Gram Sahar Gorakhpur Mukam Alinagar
				427	Private	Agriculture	0.074	Raghubir, Mahabir, Rampyare, Kishundhari s/o Udhav Gram
				453	Government	Non Agriculture	0.058	Navin Parti
				456	Government	Non Agriculture	0.010	Abadi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				459	Private	Agriculture	0.021	Kailash, Prakash, Ramniwas s/o Nirmal, smt. Barsati Devi w/o Nirmal Gram, Vijayi s/o Vanshlal Gram Mahadanpur Sihuliya
				461	Private	Agriculture	0.024	Rajesh S/o Paltu, Ajit, sujit s/o Ramdas, Lalmati widow Samharu Gramwasi
				474	Government	Non Agriculture	0.040	Banjar
				339/ 585	Private	Non Agriculture	0.074	Radha Girls I. College, Telephone Exchange etc.
				429	Government	Non Agriculture	0.004	Chahat
				475	Private	Agriculture	0.005	Lalji s/o Rampratap and Ramchandra s/o Hansha and smt. Katora Devi w/o. Ramdulare and Subash and Sarvan s/o Billar and Rajwanta Devi w/o Ramkawal Sa. Dumri
			(8) Dumari Malow	450	Government	Non Agriculture	0.002	Chak Road
				459	Government	Non Agriculture	0.004	Nali
				460	Private	Agriculture	0.030	Ramjatan, Tapai s/o Parmeshwar Niwasi Dhadha Buzurg
			(9) Dhadha Buzurg	322	Private	Agriculture	0.075	Arun Shankar Singh, Babu Bhimshankar Singh Gramwasi, Sudhir Kr. s/o Raghubansh Kr. Gramwasi
				323	Private	Agriculture	0.160	Dhananjay Kr. Singh, s/o Raghubansh Kumar Gram Jamhare Dist- Naurangabad (Bihar) Halmukam Gramwasi
				342	Private	Agriculture	0.062	Babubhimshankar Singh s/o Bhagauti Singh Gramwasi
				343	Government	Non Agriculture	0.028	Banjar
				344	Private	Agriculture	0.055	Chanmati w/o Rambelas, Thagai s/o Jagrup, Suresh, Shriram s/o Ramdhari, Ramnayan s/o Sarup, Sundar, Mundar s/o Sinku Gramwasi
				345	Government	Non Agriculture	0.003	Pokhari
				357	Private	Agriculture	0.068	Musmat Bareli Beva Bipat Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				358	Private	Agriculture	0.045	smt. Durgawati w/o Laxman Sa. Dhadha Buzurg
				359	Private	Agriculture	0.046	Ramsamujh s/o Bhagelu Gramwasi
				361	Private	Agriculture	0.053	Ramdas s/o Indar Gramwasi, Jokhan s/o Ramdayal, Musmat Munga Betwa Ramdas (Wife) Nominee
				362	Government	Non Agriculture	0.008	Rasta
				370	Government	Non Agriculture	0.003	Chakmarg
				373	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
				511	Private	Agriculture	0.074	Nagesar s/o Kalika Gramwasi, Madanlal, Ratanlal, Ramgopal s/o Mahadev Gramwasi, Asmahar Hal Mukam Dhadha Buzurg, Ramashankar, Dayashankar, Kripashankar s/o Shridhar, Harishankar s/o Adityanath Gramwasi
				525	Private	Agriculture	0.095	Siddhu, Buddhu s/o Patiram, Bujhawan s/o Vanshi, Ram Suresh, Ramnaresh, Rampravesh s/o Motilal, Hira, Prahlad, Milu s/o Girdhari Gramwasi, Muvendra, Upendra, Sutendra s/o Bipin Bihari Gramwasi, Rajbali s/o Babban Gramwasi, Kailash s/o Surapdev Vill- Manpur Hall, Hata, smt. Jaibun Nisha w/o Waris Ali Sa. Telgawa, smt. Indrawati Jauje Ramasam, smt. Chandrawati Jauje Karori Vill- Patani, Buddhu, Thakuri, Tulasi s/o Santu, Sunil Kumar, Anil Kr., Devanand s/o Shankar, Mahendra, Ramnarayan s/o Harihar Gramwasi, Ramji s/o Mannu Gramwasi, Ramashankar, Dayashankar, Kripashankar s/o Shridhar, Harishankar s/o Adityanath, Tapendranath Nikhas s/o Nirmal Chand Gramwasi, Omprakash, Ramvinod Mall, Srinivas Mall, Harivindar Mall s/o Ramawadh Mall Gramwasi, Silling Land

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				525 / 1575	Government	Non Agriculture	0.061	Abadi
				528	Government	Non Agriculture	0.017	Abadi
				531	Private	Agriculture	0.031	Nagesar s/o Kalika Gramwasi, Mukesh Narayan s/o Parag Gramwasi, Ramdhikar s/o Parag Gramwasi, Ramashankar, Dayashankar, Kripashankar s/o Shridhar, Harishankar s/o adityanath Gramwasi, Srikrishn s/o Munnar Gramwasi, Trayambak s/o Parag Gramwasi, Ramchandra s/o Vanshi Gramwasi, Sudhakar s/o Vanshi Gramwasi
				532	Private	Agriculture	0.010	Thagai s/o Ramadhar vill- Dhadha Khurd, Maina Devi Jauje Patrika Vill- Rampur Soharauna
				617	Government	Non Agriculture	0.003	Nali
				651	Private	Agriculture	0.024	Kamakhya Narayan s/o Vasdev Vill Hata
				652	Government	Non Agriculture	0.012	Banjar
				655	Private	Agriculture	0.061	Shivaji Chand s/o Ramkishor Chand Narehrigadh Dist- Gorakhpur Hata Mu. Dhadha Buzurg
				674	Private	Agriculture	0.044	Radheshyam s/o Satyanarayan Gramwasi, Umashankar, Ajay Kr., Haridwar s/o Ramanand Mahe beva Radheshyam w/o Bagish
				703	Private	Agriculture	0.002	Tilakdhari, hira s/o Kanta Jauji, Jaiprakash s/o Palakdhari, Jaiprakash s/o Palakdhari Gramwasi
				707	Private	Agriculture	0.019	Ramsurat s/o Bhagauti s/o Mundrika(Son) Dhananjay Kr. Singh s/o Raghubansh Kr. Vill- Jamhare Dist-Naurangabad (Bihar) Ha. Mu.Gramwasi
				708	Private	Agriculture	0.030	Bhagauli, Narvada s/o Tappi Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				723	Private	Agriculture	0.030	Arun Shankar Singh, Babu Bhimashankar Singh Gramwasi, Srimaran s/o Nadu, Awadh Bihari, Indrasan, Kailash, Laxman s/o Baburam, Bhishmpitamah s/o Balbhadr Vill- Karmaha Ugrasen
				727	Private	Agriculture	0.040	Buniyadi, Tapase, Sadhu s/o Nepal, Surjit s/o Vijay Bahadur (Minor). Sadhu Valayat Sadhu (Father) (Hakiki) Mahendra Sri Bhagwat s/o Tapasi Feku s/o Samful Gramwasi
				733	Private	Agriculture	0.042	Nagmati w/o Rambelas, Thagai s/o Jagrup, Suresh Sri Ram s/o. Ramdhari, Ramnayan s/o Rup Gramwasi
				736	Private	Agriculture	0.010	Autar s/o Gopi Gramwasi
				737	Private	Agriculture	0.015	Pauhari s/o Bhulai Gramwasi
				740	Private	Agriculture	0.020	Bechan s/o Chauthi Gramwasi
				743	Private	Agriculture	0.032	Babulal, Gulli s/o Ramlagan, Mishri Singh, Ramkishor Singh s/o Shivraj, Ramlal, Kodai, Ramsewak s/o Vanshi, Gulab s/o Jamuna Gramwasi, Mukhtar Singh, Ramneti Singh s/o Ramchandra Sa. Rohua Machhar Gapn
				746	Private	Agriculture	0.031	Pauhari s/o judawan Gramwasi
				747	Government	Non Agriculture	0.060	Nali Gull
				903	Private	Agriculture	0.050	Ramnaresh s/o Ramawadh gramwasi, yogendra, Bhagwan, Rameshwar s/o Ramkishun Gramwasi Gramwasi, Girdhari, Bhabhuti s/o Gobari, Singhasan, Anant s/o Banwari, Ramsanehi, Ramnaresh, Ramganesh s/o Bhagauti Gramwasi, Baldev s/o Lalchand Gramwasi, Bhola s/o Gopal Gramwasi, Ramgovind s/o Jiyan Gramwasi, Hari Prasad s/o Sukai Gramwasi, Silling Land, abadi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				947 / 1566	Government	Non Agriculture	0.002	Bashir and Bakridan s/o Doma and Kismat and Najir and Kharid s/o Jaan Mohammad and Manjur and Bhulan s/o Sabbul and Wahid s/o Dil Mohammad and Hadish and Majid and Hamid and Rasid s/o Balli, Jabbudin Widow Lal Mohammad Gramwasi
				951	Private	Agriculture	0.002	Durga s/o Mangnu, Kukur s/o Chokat, Bhaddar s/o Daulat and Ram Surat s/o Algu and Surybhan, Ramdulare, Sanjay s/o Algu,
				954	Private	Agriculture	0.017	Hariprasad, Mithai Prasad s/o Chandrabali Gramwasi
				1372	Government	Non Agriculture	0.020	Nahar
				1409	Private	Agriculture	0.004	Bhagwan s/o Baji Munsu, Bhabhuti, Kamla s/o Sutradhari Gramwasi, Sukdev, Jogi, Gopal, Rajbanshi, Budhai, Ramkewal s/o Mishri Ramhansh, Ramraksha s/o Sukai, Somari, Pichadi s/o Laxman Niwasi Gram
				1412	Government	Non Agriculture	0.012	Abadi
				1155	Government	Non Agriculture	0.005	Dinanath Singh s/o Devi Singh Gramwasi
				739	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
			(10) Dhadha Khurd	541	Government	Non Agriculture	0.003	Nali
				684	Government	Non Agriculture	0.004	Sukai, Rupai s/o Ramrup Gramwasi
				725	Private	Agriculture	0.080	Babubhimshankar Singh s/o Bhagauti Singh Gramwasi
				727	Private	Agriculture	0.050	Vaniyadi, Tapase, Sadhu s/o Nepal, surjit s/o Vijay Bahadur (Minor) s/o Sadhu Valayat Sadhu(Father) (Hakiki) Mahendra sri Bhagawat s/o Tapasi Feku s/o Samful Gramwasi
			(11) Tharuadih	288	Private	Agriculture	0.058	Tunpun, Thugun, Sukai s/o Sunder Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				348	Private	Non Agriculture	0.008	Bhrigunath, Chandrakant s/o Ramdas, Gama, Rajendra, s/o Brijram, Triveni, Hira prasad, Kashi s/o Indrasan, Bhagauti s/o Ramsevak, Ramnaresh s/o Kuber Gramwasi, Nali
				354	Government	Non Agriculture	0.028	Rasta
				355	Private	Agriculture	0.115	Rupai s/o Chander, Ramnaresh, Mahatam s/o Keshi Gramwasi, Santoshchand s/o Chandrika Niwasi Laxmipur, Smt. Kevli W/o Bindhayachal, Smt. Laxmina W/o Rajendra, Smt. Motisra devi W/o Chhedi Gramwasi, Smt. Reshma Devi Jauje Surendre Singh, Suresh s/o Banshi Mishra Niwasi Dhadha
				358	Private	Agriculture	0.053	Ramhans, Mahesh, Banwari, Jagadish s/o Devnandan, Hinanath, Sumant s/o Mohan, Smt. Hawanti W/o Mohan Gramwasi, Bandhan, Jalan s/o Ramhans, Rampyari Bewa Ramhans Gramwasi
				359	Private	Agriculture	0.077	Bhagirathi s/o Vishwanath, Smt. Kevli Devi W/o Sri Vidyaman Singh Gram Tharuadih, Setwan, Sudama s/o Bandhu, Suresh Madhesiya, Mohan Madhesiya, Pramod Madhesiya s/o Jay Kisun Madhesiya Niwasi Sonbarsa
				361	Private	Agriculture	0.039	Budhu, Ranglal, Rambilas s/o Bindeshwari, Surendra, Sanjay s/o Baitali, Smt. Devraji W/o Baitali Gramwasi
				362	Government	Non Agriculture	0.030	Kali Asthan
				363	Private	Agriculture	0.016	Kamla Prasad s/o Ramraj Niwasi Hata, Smt. Simirekha Devi W/o Kripanarayan Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				367	Private	Agriculture	0.048	Smt. Kaujariya W/o Hiravan Gramwasi, Ramchander, Balicharan s/o Ramgas (Son Waris), Smt. Lumti Urf Lumti Jauje Rampyare sakin Chaturchan, Dubri s/o Ramlagan; Bhawat s/o Lohar, Chandrika s/o Ramnath, Laxuman, Srinarayan, Hariram s/o Hiraman Gramniwasi, Smt. Indrawati Devi W/o Chulji Niwasi Hata
				371	Government	Non Agriculture	0.085	Banzar
				289	Government	Non Agriculture	0.020	Rasta
				327	Government	Non Agriculture	0.050	Navin Parti
				328	Government	Non Agriculture	0.006	Chak Road
				329	Private	Agriculture	0.045	Bhagirathi s/o Vishvnath, smt. Kewali Devi w/o Sri Vindhyaachal Singh Vill- Tharuadih Ka Naam Bataur Bainamedar S. No. Ankit Hai
				330	Private	Agriculture	0.035	Smt. Kalawati Devi W/o Hira, Smt. Vijay Laxmi W/o Kanhaiya Lal Niwasi Gram Hata, Chandresh, Ramesh s/o Srikant Niwasi Gram Hata
				342	Government	Non Agriculture	0.060	Khalihan
				1145	Private	Agriculture	0.115	Jitan Lal s/o Rajkishor Lal, Vindhawasani Lal, Mahatam Lal s/o Bhagwati Lal, Lalit Kumar s/o Suresh Narayan Lal, Amarnath Lal s/o Jagdish Narayan Lal, smt. Sona Devi w/o Ashok kumar Niwasi Gram Baghnath
				1146	Private	Agriculture	0.030	Jitan Lal s/o Rajkishor Lal, Vindhawasani Lal, Mahatam Lal s/o Bhagwati Lal, Lalit Kumar s/o Suresh Narayan Lal, Amarnath Lal s/o Jagdish Narayan Lal, smt. Sona Devi w/o Ashok kumar Niwasi Gram Baghnath

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1167	Private	Agriculture	0.008	Ramnaresh s/o Suryabali, Ramsuhag s/o Kumar, Parsan, Manager s/o Mukhtar, smt. Jagi w/o Mukhtar Gramwasi
				1170	Private	Agriculture	0.024	Bechu, Radheshyam, Ghanshyam s/o Ranidhi Gramwasi
				1171	Private	Agriculture	0.042	Satyanarayan, Shivdhar, Satyadev s/o Shital, Ramchandra s/o Sukhdev, Ramdas s/o Kishun, Ravindra, Harindra, Virendra s/o Shidhar, Ramnayan s/o Gagu Gramwasi
				1172	Private	Agriculture	0.049	Satyanarayan, Shivdhar, Satyadev s/o Shital, Ramchandra s/o Sukhdev, Ramdas s/o Kishun, Ravindra, Harindra, Virendra s/o Shidhar, Ramnayan s/o Gagu Gramwasi
				1173	Private	Agriculture	0.064	Risheshwar, Suresh, Rajesh s/o Sarayu, Bhrigunath, Ganesh, Dinesh s/o Narvada, Jamuna, Chandrika, Chandrabhan, Chandramani, Udaybhan s/o Ramdev, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Vijay Kumar, Saraswati, Akhilesh (Minor) 13 Years Sa. smt. Sunaina (Mother) s/o Mahendra, smt. Sunaina w/o Mahendra Gramwasi, Jagdish, Jairam, Awadhesh, Sanjay, Dhananjay s/o Jamuna
				1177	Private	Agriculture	0.032	Rampati Urf Ramakant s/o Dipai, Ravindra Bahadur s/o Ram Nakshatra, smt. Vilashi Devi w/o Ramnakshatra Vill- Rampur Gaunariya, Mahatam Urf Harishankar s/o Akshaybar Vill- Rampur Gaunariya, Chirai w/o Ramdaras Vill- Chigauna, Chhotelal, lallan s/o Harisharan Vill Dharmauli, Ramdev s/o Parmeshwar, smt. Gayatri Devi w/o Sitaram, Radhe Verma s/o Dalsingar Sa. Vikram Vishunpur
				1181	Private	Agriculture	0.025	Lalit Kumar s/o Suresh, Narayan Lal, Amarnath Lal s/o Jhdish Narayan Lal, Ashok Kumar s/o Dayashankar Lal Vill- Baghnath

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1182	Private	Agriculture	0.025	smt. Kunti Singh w/o Narendra Singh Sa. Baguiya Harkul Mukam Tharuadih and smt. Fulraji Devi w/o Ramashankar and smt. Mariyam Nisha w/o Hakim Vill-Sirsiya Pandey and Amarnathlal s/o Jagdish Narayanlal Vill- Baghnath
			(12) Baghnath	71	Private	Agriculture	0.071	Rambaks, Mahavir s/o Saraju, Rajendra Prasad s/o Rampyare, Vishnu Dayal, Mukhtar s/o Ram Lare, Lalji s/o Ram Jatan Vill-Tharuadih
				72	Private	Agriculture	0.050	Rambaks, Mahavir s/o Saraju, Rajendra Prasad s/o Rampyare, Vishnu Dayal, Mukhtar s/o Ram Lare, Lalji s/o Ram Jatan & Parma & Thagai Prasad & Ramprasad s/o Brijbhusan Vill- Tharuadih
				73	Private	Agriculture	0.080	Parma Prasad, Thagai Prasad, Ramprasad s/o Brijbhusan Vill Tharuadih
				77	Private	Agriculture	0.063	Narsingh s/o Paramhansh Vill-Tharuadih smt. Amrawati Devi w/o Onkarnath
				80	Government	Non Agriculture	0.001	Nali
				84	Private	Agriculture	0.040	Omprakash s/o srichand, smt. Gayatri Devi w/o Kedarnath, smt. Kiran devi w/o Lala Prasad Sa. Madanpur, Ha. Mu.- Hata, Sadhana Jaiswal d/o Gaya, Sa. siswa, Maharajganj Ha. Mu- Hata
				93	Private	Agriculture	0.130	Asgar Ali s/o Gulmohammad Vill-Padari, Gulab, sriniwas, Mohanlal s/o Ramchandra, Bunela Singh Sujit Singh s/o Chandrabali Sa. Arjundiha Tah- Katura, Vishvnath s/o Shivlochan Gramwasi, lalji s/o Jiut, Shankar, Radheshyam, Chunnilal s/o Balli
				134	Government	Non Agriculture	0.072	Pashu Aspatal
				137	Government	Non Agriculture	0.026	Dak Bangla(Government), Rajkishor s/o Chhaibar Vill-Baghnath

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				138	Private	Agriculture	0.018	Pradip Kumar, Brijesh, Pramod, Anand Kumar s/o Jitanlal(Son), smt. Radhika Devi w/o late Jitanlal, Vindhywasanilal, Mahatamlal s/o Bhagwatilal Gramwasi, Vishunjit, Vinod Kumar s/o Suryanarayanlal, Ashok Kumar, Manoj Kumar s/o Hriday Narayanlal, Amarnath s/o Jagdish Narayanlal Gramwasi, Dayashankar lal s/o Vindhyachalal Vill- Mundera Lala
				139	Private	Agriculture	0.020	Lalit Kumar s/o Suresh, Ramanlal, Amarnath s/o Jagdish narayan lal Gramwasi, Dayashankar lal, Vindhyachal lal Vill- Mundera Lala, smt. Lalita Devi w/o Dipak Prasad Sa. Vishunpura Singhpur
				140	Private	Agriculture	0.032	Lalit Kumar s/o Suresh, Narayanlal, Amarnath s/o Jagdish narayan lal Gramwasi, Dayashankar lal, Vindhyachal lal Vill- Mundera Lala, Shailesh Kumar, Virendra Kumar s/o Ramji, Ajit Kumar s/o Shivpujan, Upendra Kumar s/o Krishn Ji Gramwasi, smt. Shyama Devi w/o Ganesh Prasad, Dinanath s/o Dwarika Gramwasi
				152	Private	Agriculture	0.020	Jaut Devi w/o Balibhaddar, Prabhunath s/o Chandar Singh Vill-Hata, Kishorilal s/o Suryabali, Nebulal s/o Mahadev, Harilal s/o Jagannath Vill- Kiswa, smt. Basmati w/o Kashi Vill- Rampur Buzurg, Shyambihari s/o Nar Singh Yadav Sa. Purahawa Tapp-Parwarpar
				154	Private	Agriculture	0.050	Bechan, Mahendra s/o Chhangur, Mangal s/o Shiv Tahal Gramwasi Smt. Akali Devi W/o Hira Prasad Sa. Tharuadit, Awadesh Ti. S/o Ramdaras Ti. Niwasi Pipra Ti., Smt. Premshila Devi w/o Shrikant Singh Gram Belwa, Suresh Kumar s/o Sri Kishun Niwasi Hata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				155	Private	Agriculture	0.030	Smt. Anari Devi w/o Shankar Sharma Vill- Rampur Buzurg Hall. Mukam- Hata, smt. Vimla Jaiswal w/o Krishnmohan Sa. Deoria, Hal. Mukam- Baghnath, smt. Kanti Tiwari d/o Jamuna Tiwari, Ramvilas, Rampyare, Ashok Kumar s/o Shyamlal Gramwasi, smt. Gena Devi w/o Hirawan Singh s/o srinath Singh Sakin- Baghnath, Gehan Singh s/o Salikh Singh Sa. Chariyav, Hal. Mukam- Baghnath, Ramawati Devi w/o Sudama Singh Vill- Sahwagpur
				158	Private	Non Agriculture	0.196	Ashok Kumar, anil Kumar, Amit Kumar s/o Ramshish Lal Gramniwasi Sudhai, Brijmohan s/o Mahavir and Kishor and Uttam and Babulal s/o Chokat and smt. Prabhawati w/o Umesh and Merun Nisha w/o Mehendi Hasan Gramniwasi and smt. Vidyawati w/o Kuber Vill- Siswa Hal Mukam Hata, Aniruddh s/o Baliraj Gramwasi and Ramprवेश and Keshavlal and Rampramod s/o Bholi Sa. Bheswa smt. Durgawati Devi w/o Diwakar Pandey and smt. Gangotri Devi w/o Hajarilal and smt. Sunaina Devi w/o Suryabhan and smt. Prabhawati Devi w/o Algu Rao Sa. Mishra Dhadha smt. Gulabi Devi w/o Lalji Gramwasi smt. Gulaicha Devi w/o Kripashankar lal Upadhyay Gramwasi Jagdish s/o Manrup, Ramji, Ramharakh, Hariom s/o Komal Smt. Lakhi w/o Komal Gram Rampur Buzurg Smt. janha w/o Moti, Banhu, Mannu s/o Chokat Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Smt. Tara devi, Sri Bhagwat Gram Rampur, Parasnath s/o Ghurhu Gram Dhadha khurd Smt. Fula Devi w/o Ramrati Gramwasi, Vishv Pratap, Shambhu Pratap, Kamalesh Pratap, Ajay Awaysk, Age. 15 Year Sa. Smt. Premlata s/o Ramesh, Smt. Premlata w/o Ramesh Gram Radhiya Deoria, Virendra prasad s/o Surendra prasad, Paramhans, Umashankar s/o Lawatu Chandrabhan, Chandrashekhar, Umesh chand s/o Surjun, Chandrika, Upendra, Nagendra s/o Smt. Ughra Urf Indrawati w/o Durjan Niwasi Arjun Dihan Smt. Badami Devi w/o Ramjendra, Smt. Asharfi Devi Sabjit Gramwasi, Bachhan s/o Khurkhur, Shukhi chand, Gulab chand s/o Shyam lal, Ramesh kumar s/o Mala Prasad, Harishchandra s/o Vishun Gram Kaheg Dist- Baliya, Markandey, Arvind kumar, Brijesh kumar, Bagish kumar s/o Shyambihari Gram Kurmauta, Ramasare, Sundar, Rampravesh, Ramnaresh s/o Baburam Gramwasi,</p> <p>Smt. Ramkali w/o Umashankar Gram Ahirauli Tuladas, Smt. Savitri Devi w/o Shyam Bihari gram Sukrauli, Ramasare, Sundar prasad, Ramnaresh s/o Baburam Gramwasi, Rampravesh s/o Bhola, Rajesh, Sanjay, Arvind s/o Hira, Tara Devi w/o Harhangi, Gauri Shankar, Ramashankar, Anil, Sunil, Chhatthulal s/o Ram Govind (son) Dharmendar, Vivek s/o Girijashankar (son) Smt. Anari Devi Girija shankar Gramwasi</p>
				183	Private	Non Agriculture	0.015	Smt. Kailashi w/o Kailash Prasad. Gupt
				184	Private	Agriculture	0.010	Ramawati Devi w/o Ramgovind Vill- Tharuadih, Gaurishankar, Ramashankar, Anil, Sunil, Chhathulal s/o Ramgovind, Dharmendra, Vivek s/o Girja Shankar, smt. Kalra Devi w/o Girja Shankar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				195	Private	Agriculture	0.025	Ashok Kumar, Anil Kumar, Amit Kumar s/o Ramshish Vill- Sudhai, Omprakash, Manoj Kumar s/o Moti, Ramashankar, Ramraksha, Ramneti Singh s/o Mishri Singh Vill- Vishunpura, Lilawati Devi w/o Ramjit Vill- Moti Pakar Kabil Saha Tah- Silpul Vilayati Devi w/o Laxman, Gopal s/o Bagedan Gramwasi, Ramashare, Pradumn s/o Bhandari Vill- Dhadha Khurd, Mohan, Subash s/o Rambriksh Vill- Katlawa, Budhuram, Ramadhar, Kewal, Aniruddh s/o Shaklu Vill- Khajwa, Viten Lal, Sohan Lal, Sonu, Chandrika s/o Purnwasi
				195 / 873	Private	Agriculture	0.010	Omprakash s/o Moti Gramwasi
				195 / 874	Private	Agriculture	0.005	Mishri s/o Madhav Vill- Vishunpura
				196	Private	Agriculture	0.070	Kailash s/o Dukhi Vill- Hata, Rampat, Ramvachan, Ramprasad s/o Baijnath Vill- Bhagwanpur, smt. Vasmati Devi w/o Kashi Vill- Rampur Buzurg, Chandrabhan s/o Chillar Vill- Karaj, smt. Munna Devi w/o Rambachan, Vill- Dhadha Buzurg, Ramashankar s/o Dharam, smt. Prabhawati Devi w/o Ramashankar, Rajendra (adult) Rajesh (Minor) 16 Years Sa. Mu. Indrawati (Mother) s/o Mishra Jai Shree Ramkishor, Sri Bhagwat s/o Durbal, Kailash s/o Saryu, Rambhawan s/o Mohar, Jaishree, Ramawatar s/o Murat Gramwasi
				197	Private	Agriculture	0.042	Kanhaiya and Manik and Sukul and Prahlad and Indrajit and Dinanath (Minor) Wali mata saway s/o Jagu and Vijay Pratap and Chandra pratap s/o Gajadhar Singh and Lalbabu and Premchandra s/o Rambali Vill- Vishunpura and Badru Nisha w/o Sakin Ali, subhawati w/o Prashiddh Narayan Bali s/o Mahavir Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				198	Private	Agriculture	0.100	Hira Rangi s/o Narayan, Chandbali, Thagai, Musmat Nisha, Islam, Saudagar, Sher Muhammad, Muhammad, Rafik, Feku, Ambika Singh, Hiranman, Babu Lal Singh, Sahab Singh, s/o Surjan Singh, Sa. Rampur Mishra, Anil Kumar Singh s/o Lallan Singh, smt. Lilawati widow Lallan Singh, Sharis Singh s/o Mukhtar Singh, Smt. Surati Devi w/o Mukhtar Singh, Jagannath s/o Shyamlal Vill- Laxmipur, Prasiddh Narayan s/o Tilakdhari Vill- Pipra, Tah- Parwarpar, Shankar Prasad, Radheshyam, Chunnilal s/o Bali, Vindhawasani s/o Chhedilal Vill- Piprasin, Tah-Sandhi, Mustak Ahmed, Ajaj Ahmed, Nishar Ahmed, Sharfraj Ahmed, Sampit Ali ansari Gramniwasi, Rangi s/o Narayan, Ramesh, Sanjay, Arvind s/o Hira Vill- Haripur, smt. Subhawati Devi w/o Prasiddh Narayan Vill- Pipra Post- Sukrauli
				199	Private	Agriculture	0.016	Amika Singh, Wahiraman Singh and Babulal Singh and Sahab s/o Surjan Singh and Anil Kumar Singh s/o Lallan Singh and smt. Lilawati Devi w/o Lallan Singh and Shakti Singh s/o Mukhtar Singh and Surati w/o Mukhtar Singh Vill- Rampur and Rambriksh and Ramraksha s/o Badari and Amarnath and Vijay Pratap s/o Ramratan Niwasi Gram Tharuadih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				201	Private	Agriculture	0.013	Ramsakal and Ganga and Omprakash s/o Vanshi and smt. Ghurla and Vanshi and Moti s/o Dhanraj and Sitaram s/o Raghur Vill- Mundera, smt. Kalawati w/o Ranjit, Chhedi and Narsingh s/o Dukh Haran Vill- Madaraha and Abdul Ajij and Valayat Hussain and Ali Mohammad s/o Roja Vill- Pudwa, smt. Mantri Devi w/o Baburam and smt. Sunaina Devi w/o Ramprit Vill- Hata and Jalaluddin s/o Surjan Vill- Lalipar and smt. Vimla Devi w/o Umesh vill- Ayrachauri Hal Mukam- Baghnath and Ramnarayan and Prem Narayan s/o sitaram and Samogar and Sudhir singh s/o Ramashray Singh Vill- Barwa
				204	Private	Agriculture	0.013	Banhu, Mannu s/o Chokat, Lalbachan, Shraavan, Nebulal, Vijay, Vikau s/o..... Gramwasi, Rajkishor Mishra s/o Chhaiber Mishra Niwasi- Hata, Sanhu Ramawadh s/o Chauthi Gramwasi, Rajkishor s/o Chhaibar Gramwasi
				213	Private	Agriculture	0.042	Anuruddh s/o Baliraj and Ramvilas, Dinanath and Raghunath s/o Sundar, smt. Tija Devi w/o Lal Bahadur Vill- ahirauli and smt. Vimlawati w/o Omprakash Vill- Hata and Kishori Devi w/o Vushvnathlal Vill- Mukundpur and Banka s/o Ramdhari and Chandrabhushan and sanjay and Vikas and Subodh s/o Chandrika and smt. Shanti Devi and Sumitra Devi w/o Chandrika Vill- Narayanpur and Ali Mohammad and abdul Kayum s/o Niyamtulla Sa, Piprahia and Salman and Amir Minor Age 10 and 7 Years Guardian Musmat Musfgutufut Mother Sen s/o Abdulla s/o Intjam Niwas Saga Hal Mukam- Hata and smt. Kushniawati

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				223	Private	Agriculture	0.020	Bagis datt, Vishvnath s/o Yamuna, Satyanarayan s/o Rampyare Gramwasi, Vindhawasani s/o Chhedilal Vill- Piprasi Tapp- Sadi
				226	Government	Non Agriculture	0.166	Development Dept.
				228	Private	Agriculture	0.050	smt. Badami Devi w/o Sukhnandan vill- Dhanakhar smt. Meera Devi w/o Premchandra Vill- Hata, Awadhipati w/o Ramashankar, smt. Lila Devi, Jai Jairam, Rampyare, smt. Ramsingari Devi, Jai Jaishivshankar Vill- Sabana, Parashuram, smt. Prabhawati Devi, smt. Vimla Devi d/o Jaishankarlal, Nalkup
				248	Government	Non Agriculture	0.181	Nahar Colony
				252	Government	Non Agriculture	0.004	Nala
				256	Private	Agriculture	0.024	Ramdasharath, Ramraksha s/o Sukai Vill- Dhadha Buzurg, Dayalal, Ravindra, Chhotelal s/o Bhim, Shivmangal, Sriram, Balram s/o Shyamacharan, smt. Gunraji w/o Shyamacharan Vill- Tharuadih
				260	Private	Agriculture	0.063	Mahatam s/o Rambali Gramwasi, Kailash s/o Lagan Vill- Tharuadih, Shamsuddin, Munsapaf s/o Ahmad Vill- Piprawal(Siwan), smt. Kabutari w/o Radheshyam, satyanarayan s/o Rekha, Omprakash s/o Ramdhari Gramwasi, Rajman Prasad s/o Badri Prasad Vill- Mishra Dhadha, Punwasi s/o Babulal Vill- Narayanpur, Satyanarayan s/o Rekha, asarfi s/o Siri Niwasi Gram Sidhawal
				475	Government	Non Agriculture	0.038	Nahar
				229	Government	Non Agriculture	0.002	Nali
				203	Private	Agriculture	0.004	Ramsakal and Ganga and Omprakash s/o Vanshi etc.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(13) Deoria	30	Private	Agriculture	0.010	Bachcha Singh, Ravindar Pratap Singh, Madan s/o Kamta, Brijnarayan s/o Jaimangal, Purushottam, Yogendra s/o Suryanarayan (Grandson) Tejbahadur, Vijay Bahadur s/o Raghunandan, Narsingh s/o Maharaj, Amarjit, Yudhishtir, Vinod, Pramod s/o Dilraj, Shambhu, Trubhuwan s/o Bhagwat, smt. Chandraprabha Singh, Smt. anita Singh d/o Parashuram, Rajkishor, Dhruv narayan s/o Sahabjada, Amar, Chandrashekhar, Aniruddh, Subash s/o Banshbahadur, Lalbahadur, Rangbahadur s/o Babban Gramwasi, Akhilesh s/o Vijay Bahadur, Anil Singh s/o Ramprasad, smt. Asha w/o A. Madan Gopal s/o Basudev
				32	Private	Agriculture	0.006	Satyanarayan Urf Satydev Urf Pauhari, Shailendra Kumar, Sanajay Kumar s/o Rajdhari Gramwasi, Sriram Prasad s/o Sudin Sa. Rampur Pautawa, smt. Asmawati Devi w/o Shatrughan sa. Mundera, smt. Asma Bibi Jauje Muhammad arif Chhammekha Sa. Hata
				36	Private	Agriculture	0.013	amar Singh, Chandrasekhar Singh Subash Singh, Aniruddh s/o Vanshbahadur Singh Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				111	Private	Agriculture	0.028	<p>Shanti Jauje Rajnarayan Vill-Patani, smt. Parameshwari Jauje Ramlal Kedia Niwasi Hata, Jugul Kishor, Govind s/o Babulal, Radheshyam, Bhola Shankar, Indrakumar, Rajesndra Kumar s/o Rambala (Sons), smt., Fulmati Jauje Gaya Gramwasi, Shivshankar, Harishankar s/o Vishvnath, smt. Mayadevi w/o Vishvnath, Vijaynath, Ranmnath, Baijnath, Raghunath s/o Ganga Niwasi-Hata, Smt. Kanti Devi Jauje Omprakash, Smt. Chandra kala devi w/o Pradip kumar Niwasi Dhadha, Akhilesh Kumar, Shatish Kumar (Minor) 12 Years Guardian smt. Kamla Devi (Mother) w/o Buddhilal, Kamla Devi w/o Buddhilal, Ramkishun s/o Yamuna Vill- Hata, Chandramati, Rambihari s/o Komal, Chandramaul s/o Rajdev, subash s/o Lalbachan, Radheshyam Kedarnath s/o Narayan, Kaildev,</p> <p>Srikishun s/o Babulal Gramwasi, smt. Gayatri Devi w/o Gorakh Prasad Vill- Hata, Shaukat s/o Prahlad, Mohammadin s/o Chandrabali Vill- Rampur, Mishri, asharfi Jauje, Raghaw Singh Vill-Raiganj Hal. Mukam.- Majahana, Mumtaj, Imtiyaj, Ashish, Siraj s/o Abdul, smt. Akhiya w/o Abdul Gramwasi, Girija, Nebulal, surendra s/o Gaya Gramwasi</p>
				227	Private	Agriculture	0.016	Tara Devi Jauje Gobind, Premlata Devi Jauje Babulal Sa. Hata, Narbdeswar s/o Parmanand Niwasi Hata
				245	Private	Agriculture	0.032	Krishnmurari, Gita Devi Widow Hariram Vill- Hata, Krishnmurari Nathani, Bharat Lal Vill- Hata
				246	Private	Agriculture	0.034	Krishn Murari, Gita Devi widow Hariram Vill- Hata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				249	Private	Agriculture	0.042	Bishesar, Vishvnath s/o Parana Vill- Hata, Lalbachan, Parabhansh s/o Kamla, Vashishth, Managar s/o Vibhuti, ayodhya s/o Ramnakshatra, Abhishek s/o Vanshahadur, smt. Nirmala Devi w/o Vansh Bahadur Gramwasi
				131	Private	Agriculture	0.036	Road P.W.D., Shivshankar and Harishankar s/o Vishvnath and smt. Maya Dei w/o Vishvnath and Vijaynath and Baijnath s/o Ganga Vill- Hata
				133	Private	Agriculture	0.035	Shivshankar, Harishankar s/o Vishvnath, smt. Mayadevi w/o Vishvnath, Vijaynath, Ramnath, Baijnath, Raghunath s/o Ganga Vill Hata
				134	Private	Agriculture	0.028	Shivshankar, Harishankar s/o Vishvnath, smt. Mayadevi w/o Vishvnath, Vijaynath, Ramnath, Baijnath, Raghunath s/o Ganga Vill Hata
				135	Private	Agriculture	0.010	Ramashray Singh s/o Moti Mall, Amar Singh, Chandra shekhar Singh, Vashudev Singh, anuruddh Singh Vanshahadur Singh Gramwasi
				137	Private	Agriculture	0.008	Rampyare s/o Gopal Gramwasi
				138	Private	Agriculture	0.008	smt. Jokhana Jauje Narvdeshwar Gramwasi
				139	Private	Agriculture	0.016	Madan Gopal Singh, Darpal Singh s/o Basudev Singh Vill- Sirsiya, Tah- Bachhauili, Saraswati Devi Jauje, Ramashray Singh Vill-Barwa Khurd
				140	Private	Agriculture	0.020	Suresh Prasad s/o Pauhari Vill- Gopalpur, Narvdeshwar s/o Parmanand Vill- Hata
				142	Private	Agriculture	0.020	smt. Sudami Devi Jauje Sitaram Vill- Mujahana Rahim, Srinivas, Sriram s/o Harishankar Gramwasi
				143	Private	Agriculture	0.016	Bramhanand, Vishnu Kumar, Rajesh Kumar, Vinod Kumar, Pramod Kumar s/o Thagai Gramwasi
				144	Private	Agriculture	0.047	Ramashankar s/o Chanbali, Makhanlal s/o Mangal Vill- Hata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				150	Private	Non Agriculture	0.020	Komal s/o Tirthraj and Nagendra and satyendra and Bhupendra and Shailendra s/o Chandrabhushan and Gorakhnath s/o Vikram Gramwasi
				152	Private	Agriculture	0.012	Kamla s/o Trithraj, Nagendra, Satyendra, Bhupendra, Rajendra s/o Chandrabhushan Gramwasi
				153	Private	Agriculture	0.003	Islam s/o Sadalli, Abdullah, Safiullah, Javed, Masari, Mu. Rafik s/o Samullah, smt. Jaitun Nisha w/o Samiullah
				154	Private	Agriculture	0.003	Pramod Kumar, Manoj Kumar, Vinod Kumar, Manoj Kumar, Sanjay Kumar s/o Dwarika Prasad, Jagdish Prasad, Rajesh Kumar s/o Babulal Vill- Hata
				155	Private	Agriculture	0.012	Jawahar s/o Algu, Chandrika, Suresh s/o Hansa Sing Vill- Sirsiya, Singhasan, Rambhawan s/o Alakh Gramwasi Santosh Kumar s/o Jainarayan Gramwasi, Rambilas, Prahald s/o Madan- Vill- Gavnar
				160	Private	Agriculture	0.001	Rampyare s/o Chokat vill- Hata, Chandramati, Rambihari s/o Komal, Chandramaul s/o Rajdev, Subash s/o Lalbachan, Radheshyam, Kedarnath s/o Narayan s/o Kapildev, Srikishun s/o Babulal Gramwasi
				161	Private	Agriculture	0.010	Karanrup s/o Sadhave Vill- Paikauli, Tirthraj s/o Suchit, Nautan Hathiya Garh, Chandramati, Rambihari s/o Komal, Chandramaul s/o Rajdev, Subash s/o Lalbachan, Radheshyam s/o Narayan, Kapildev, Srikishun s/o Babulal Gramwasi
				169	Government	Non Agriculture	0.002	Pokhari
				* 230	Private	Non Agriculture	0.024	abdullah s/o Akubali Vill- Hata, Tara Devi Jauje Govind and Premlata Jauje Babulal Vill- Hata, Ramashare and Pradumman s/o Bhandari Vill- Belwania
				231	Private	Non Agriculture	0.016	Pramod Kumar, Vinod Kumar, Manoj Kumar, Sanjay kumar s/o Dwarika Prasad Vill- Hata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				162	Government	Non Agriculture	0.001	Chhawar
				166	Government	Non Agriculture	0.002	Way
			(14) Hata Khas	286	Private	Agriculture	0.004	Jawahir, Sahabjada, Yogendra, s/o Ramanand vill- Rampur Mishri
				287	Private	Agriculture	0.023	Madanlal, Chamanlal s/o Vishvnath, Amna Khatoon d/o Imanulhak Gramwasi, Jawaharial, Sahabjada, Yogendra s/o Ramanand Singh
				297	Private	Agriculture	0.013	Fakare Alam s/o Mu. Kasim Khan Gramwasi, Rabiya Khatoon w/o Abdul Hak Vill- Hata, Ramakant s/o Bandhu Urf Banhu Vill- pipra
				298	Private	Non Agriculture	0.031	Srinath Sanskrit Degree College, Hata
				329	Private	Agriculture	0.091	Kailashi, Falmani w/o Gaya, Badari, Ramchandar s/o Bhagwan Gramwasi, Markandey s/o Rambihari Vill- Patani, Ramdayal s/o Ramprasad
				332	Private	Agriculture	0.009	smt. Johra w/o Iqbal, Israwati w/o Kuver Bhandari, Anil Kumar, Sunil Kumar, Nagmani s/o Vishvnath, Dhruvchand, Motichandra, Premchandra s/o Rambelas Vill- Sukrauli, Kedar, Umesh, Jaisingh, Vijay Bahadur s/o Badari Lal muni s/o Lagan Vill- Laxmikund, Achhaibar s/o Khelawan Gramwasi
				341	Private	Agriculture	0.007	Mo. Kasim s/o Mo. Yusuf Gramwasi
				372	Private	Non Agriculture	0.018	Akhilesh Kumar s/o Prithvi Charan Vill- Hata, Sudama s/o Vishvnath Sa. Raidhan Deoria, Swaminath s/o Guptar Vill- Pagara, smt. Shivraji w/o Chandrika, smt. Malti Devi w/o Mundrika Vill- Vikram Vishunpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				373	Private	Non Agriculture	0.033	Shyambihari s/o Chirkut, Sangat Prasad, Sriprasad, Premnarayan, Shyamnarayan s/o Ramdhani Gramwasi, Tetara Devi w/o Kailash Vill- Deoria, Usha Devi w/o Khaderu Prasad Vill- adhar Chhapra, Imtyaj ahmad s/o Sher Abdul Gaffar Sa. Haraiya Tappa- Bhatani Dist- Deoria, Jaimul Nisha w/o Vali Muhammad Amin, Mo. Sagir s/o Amin Vill- Pipra
				349	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				499	Government	Non Agriculture	0.048	Nahar Gandak
				523	Private	Non Agriculture	0.123	Rameshaware Urf Katwaru s/o Ramkishun Gramwasi
				528	Government	Non Agriculture	0.006	Nahar
				1	Private	Agriculture	0.057	Jairam, Ramnarayan, Ramchandra s/o Gurudayal Gramwasi
				2	Private	Agriculture	0.038	Jairam, Ramnarayan, Ramchandra s/o Gurudayal Gramwasi, Madanlal, Radheshyam, Ghanshyam, Krishn Murari, Vijay Kumar s/o Gulab Gramwasi
				7	Private	Non Agriculture	0.036	Jahid ali s/o Murtaja Hussain Sa. Dumari Malav, Ali Mohammad, Abdul s/o Niyamat Ullah Vill- Piprahiya, Ayub Khalid Khan, Mo. Amin Khan (Minor) Astullah Vill- Madar Balia, Hata Khas, Noor Fatima Urf..... Vishvnath, Vijaynath, Ramnath, Baijnath, Raghunath s/o Chhathu Prasad s/o Baldev, Manju Devi w/o Raghunath Gramwasi, Shankarlal s/o Dwarika Prasad, Yashodanand s/o Ramchandar, snt. Kamladani w/o Ramchandar Vill- Patani
				248	Private	Agriculture	0.015	Abdul s/o Yakub Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				267	Private	Agriculture	0.024	Malwar s/o Ramautar Vill- Paikauli, Haji Jahid Ali Khan s/o Mitthu, Rijwanullah Khan, Jamatullah Khan, Niyamtullah, Shafiullah, Wasiullah Khan s/o Hafij jahid Ali Gramwasi, Haj Jahid Ali Khan s/o Siddhu, Rijwanullah, Amanullah Khan, Niyamtullah, Shamiullah Khan, Wasiullah Khan s/o Jahjid Ali Khan Vill- Hata
				269	Private	Agriculture	0.096	Durga Prasad s/o Nakchhed Gramwasi
				271	Government	Non Agriculture	0.004	Chakmarg
				272	Private	Agriculture	0.045	Chandrapat s/o Kapildev, Santosh Prasad, Shivam (Minor) 11 & 7 Years Guardian Mithilesh (Mother), Ramnaresh Gramwasi, smt. Kaushilya w/o Bramhanand, smt. Gujrati w/o Triveni, Rakesh Singh, Rajesh Kumar Singh s/o Buddhi Singh Vill- Soniya Mundera
				276	Private	Non Agriculture	0.045	Champa Devi w/o Rajdev, Nijamuddin. Kasim Ali, Nasiruddin, Sakir Ali, Isram, Musahar Ali Gramwasi, Abadi
				277	Private	Non Agriculture	0.035	Jairam s/o gurudayal, Anil Kumar s/o Ramnarayan, Savitri Devi w/o Ramchandra Gramwasi, Harilal s/o Guchan Vill- Sukrauli, Mohan Prasad s/o Chillar. Vill- Dhadha Biuzurg, Dharmdev Kumar, Jitendra Kumar s/o Gulab vill- Bhiswa, Bandhu Prasad s/o Badari Asan Vill- Arjun Dumari, Champa Devi w/o Gorakhnath Vill- patani, Motilal, Hiralal, Nandlal s/o Kishor, smt. Shushila devi Kishor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				284	Private	Non Agriculture	0.015	Udashi w/o Girija Shankar Vill- Barwa Chhattar Das, Aniruddh Prasad, Rajendra Prasad, Ravindra Prasad s/o Sahdev, aniruddh s/o Sahdev, Nagesh, Kauleshar, anil Kumar, Rajesh, Dinesh s/o Ramdev Gramwasi, Jyotish, Keshwar, Lalbachan s/o Jamuna, Ramashankar, Jangbahadur s/o Triveni, Ramnaresh, Lalbahadur, Lalji s/o Bhagwat, Jiyana w/o Durga Prasad Gramwasi, Babulal, Devlal s/o Vanshi Gramwasi, Vinod Kumar, manoj Kumar s/o Jairam Gramwasi, Abadi
				1321	Government	Non Agriculture	0.050	Narvdeshwar s/o Parmanand Gramwasi, Guteli s/o Bahuran, Hadish, Mo. Din s/o Safayat vill- Pipra Kapoor, Munir, Muharan Ali Hussain, Mo. Islam s/o Nsim Gramwasi, Patimullah s/o Abdul Hafij, Srikant, Sriram, Devendranath, Shivshankar, Vachaspat s/o Ramdev, Bhrigurasan, Foolbadan, Ramashish s/o Pasram, Ashok s/o Jagarnath, Ranjit s/o Prahlad Gramwasi, Sudama, Bhagat, Aniruddh s/o Basdev, Nahar Gandak
				1126	Private	Agriculture	0.010	Mo. Mustkim, Mo,skim Mustfa Ahmad s/o Khul Gramwasi, Jagharnath, Dinanath, Kapileshwar s/o Vindhyaçal Vill- Pakrauli, Malti Devi w/o Ramchandra Gramwasi
				236	Government	Non Agriculture	0.004	Pokhari
				343	Government	Non Agriculture	0.002	Nali
				379	Government	Non Agriculture	0.003	Executive Engineer U.P. Power Grid Corp. Deoria
				1125	Private	Agriculture	0.005	Sanjay kumar s/o Vishun Gramwasi
			(15) Sonbarsa	108	Government	Non Agriculture	0.049	Way

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				110	Government	Non Agriculture	0.004	Chakmarg
				118	Government	Non Agriculture	0.004	Chakmarg
				119	Government	Non Agriculture	0.081	Abadi
				120	Private	Agriculture	0.040	Thagai , Chauthi s/o Baldev Gramwasi
				164	Government	Non Agriculture	0.026	Nahar Gandak
				175	Private	Agriculture	0.013	Ashok s/o Keshwar Gramwasi
				184	Private	Non Agriculture	0.003	Sriram s/o Chaturi, Piyare, Jawahar s/o Ramnarayan, Ramdhani s/o Mahavir, Feku, Vijay Bahadur, Ramgopal, Ramsamujh, Santosh s/o Raksha, Vilabh, Mansha, Kailash s/o Jagarnath, Chhakkilal s/o Sitaram, Kripa Shankar s/o Jaigovind Gramwasi
				201	Private	Agriculture	0.032	Thagai , Chauthi s/o Baldev Gramwasi
				203	Private	Agriculture	0.016	Thagai , Chauthi s/o Baldev Gramwasi
				204	Private	Agriculture	0.090	Ramnaresh, Chandrabhyan s/o Ramlal Gramwasi, Gangasagar, Bajinath s/o Gobari, Rimati Laxmi Jauje Rajaram Vill- Dadan Bhatani, Rajendra, Surendra, Dhirendra, Satyendra s/o Udaybhan
				205	Private	Agriculture	0.016	Mevalal, Bhrigunath s/o Shyamnarayan
				213	Private	Agriculture	0.036	Devnath, Jagarnath s/o Ramautar Vill- Paikauli, Srikrishn, Mahima s/o Ramlal(Son)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				217	Private	Agriculture	0.080	Vasanti Devi w/o Mahendra Shukla Vill- Samogar, smt. Vimla Devi w/o Ashok Kr. Mani Vill- Patani, Chokat s/o Mangal, Anuruddh, Ramesh Kumar s/o Chokat Prasad Sakhjawan, Surendra s/o Jaikaran, Gauri s/o Shyamsundar, Vill- Rampur Mishri, Nirmala Devi w/o Bholanath Gramwasi, Chandrabhan Mani s/o Shivshankar Tripathi Vill- Patani, smt. Premlata Devi w/o Babulal Vill- Hata, Bhabhuti s/o tirathi, Sukai, Ghanshyam, Wakil s/o Gativir Gramwasi, vinod, Manojnath s/o Shukdev Sharma Valayat (Father) Vill- Naurangiya
				219	Private	Agriculture	0.045	smt. Amari Jauje Bhagwat, smt. Kailashi Jauje Vikram Vill- Paikauli, Kishor Prahalad, s/o Feku, Chokat, Lallan, Daroga, Kapildev, Kailash s/o Maharauj, Gabbu s/o Ramagya, Mevalal, Innar, Rambelas, Dindayal s/o Parikhan, Kamlesh s/o Kanhai, Bhagwat s/o Shivmangal, Ramnain., Rajendra, Ramjit, Sarvjit s/o Vikrama Vill- Pamauli
			(16) Paikauli	17	Private	Agriculture	0.067	Keshwar s/o Ramdev Ramnarayan, Mithai, Bankelal s/o Rampati, Kailashnath, Kedar Prasad, Dasharath s/o Nageshar, Sudarshan, Mahatam s/o Jagdev Gramwasi, Umesh s/o Ramchandra, Radheshyam, Pauhari, Gopal, Brijesh, Dinesh s/o Sudama, smt. Khelanti w/o Sudama
				21	Private	Agriculture	0.028	Prabhawati Devi w/o Hira

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				22	Private	Agriculture	0.048	Sharda Prasad s/o Chokat, Kailash, Kapildev s/o Maharaj, Kisan Shikshan Sanshthan Hata, Arivind, Ramesh, Shambhu s/o Daroga, Gabbu, Ramagya, Prahlad s/o Feku, Kishor, Prahlad s/o....., smt. Adalati Devi w/o Sukkhu Vill-Patna Mishrauli, Tufela (Adult), amir Ahmad, Jalpedar Ahmad (Minor) 12 & 11 Years Guardian Jamaru Nisha s/o Gaulab Hussain Vill- Siswa
				23	Private	Agriculture	0.032	Lalbachan, Ramayan s/o Patiraj, Bhikai s/o Triveni Rambhawan, Ramkishor, Ramdarash s/o Vikau, Bhabhuti s/o Tirathi, Mahatam s/o Rameshar, Sukai, Ghanshyam, Wakil s/o Mativar, smt. Vidya w/o Dinesh Singh Vill- Mujahana Rahim
				41	Private	Agriculture	0.060	Kedar, Newas Urf Ramniwas s/o Ganga, Vanshi s/o Mahadev Gramwasi, Omprakash Singh, Vinod Singh s/o Rampati Singh Vill Piparahi Bharkulwa
				42	Private	Agriculture	0.056	Kedar, Newas Urf Ramniwas s/o Ganga, Vanshi s/o Mahadev Gramwasi
				51	Government	Non Agriculture	0.008	Chakmarg
				53	Private	Agriculture	0.029	Gudar Rai s/o Munni Rai, Ramdaud Rai s/o Jagdev, Ramawati w/o Shambhu, Sandhya w/o Omprakash Gramwasi
				58	Private	Agriculture	0.025	Munshi, Devan s/o Chandar, Tufani s/o Ramjas Gramwasi, Vindeshwari s/o Chhedhi, Ratan, Chandra, Awadhesh, Anil, Santosh, Niraj s/o Jangbahadur Vill- Hata, Vindeshwari, chhedhi..... Vill Patana, Sri Shrawali, smt. Krishnawati w/o Amerika, smt. Soniya w/o Awadhesh Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				63	Private	Agriculture	0.018	Gudar Rai s/o Munni Rai, Ramdaud Rai s/o Jagdev, Gramwasi Ratanchandra, Awadhesh Kumar, Anil Kumar, Santosh Kumar, Niraj Kumar s/o Jangbahadur Gramniwasi Hata
				64	Private	Agriculture	0.016	Mahatam s/o Jagdev Gramwasi
				73	Private	Agriculture	0.009	Babban, Chandrabhan s/o Chandrika, Munni
				75	Private	Agriculture	0.095	Babban, Chandrabhan, Chandrika s/o Brija Gramwasi
				76	Government	Non Agriculture	0.004	Chakmarg
				96	Private	Agriculture	0.060	Chhattar s/o Sitaram Gramwasi
				97	Private	Agriculture	0.080	Rampyare, Munshi s/o Baburam, Jaigovind s/o Baburam, Radheshyam Siyaram gramwasi
				98	Government	Non Agriculture	0.080	Main Road
				100	Private	Agriculture	0.096	Kapildev, Krishnbihari, Jagdish, Ramdish s/o Bhagwat Gramwasi
				104	Government	Non Agriculture	0.040	Navin Parti
				105	Private	Agriculture	0.008	Bhabhuti s/o Chhangur, Indrasan s/o Shyamraj, Narsingh, Ruddal, Ramprit, Jita s/o Rajju, Narsingh Gramwasi
				249	Government	Non Agriculture	0.148	Abadi
				250	Private	Agriculture	0.020	Srikrishn Mahima s/o shyamlal, Devlal s/o Autar, Ramdas, Ramharakh, Ramrekha s/o Ramdular, smt. Janki Devi w/o Ramharakh, Prem, Indrajit s/o Lalman Gramwasi
				251	Private	Agriculture	0.020	Ramdas s/o..., smt. Janki Devi w/o Ramharakh, Ramrekha s/o Ramdular, Prem, Indrajit s/o Lalman Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				253	Private	Agriculture	0.055	Lalbachan, Ramayan s/o Patiraj , Bhikhi s/o Triveni, Musmat Motiya Beva Raja, Chhatthu, Omprakash s/o Bhagauti, smt. Pipra Devi w/o Bhabhuti, sukai, Ghanshyam s/o Manivar, Rambhawan, Ramkishor, Ramdarash s/o Bikau, Mahatam s/o Rameshwar, Rambhawan, Ramkishor, Ramdas s/o Vikau, Ramdhani s/o Vikram, sharda Prasad s/o Chokat, Lallan, Kapildev, Kailash s/o Maharaj., arvind, Ramesh, Shambhu s/o Daroga, Kamlesh s/o Kanhai, Parikhan s/o Raghbir, Gabbu s/o Ramagya, Haribansh s/o Tilakdhari, Ramayan, Rajendra , Rajendra, Ramjit, s/o Vikram, Harishchandra, Jaigovind, Shailesh s/o Bhagwat, Kishor, Prahlad s/o Feku, Rampyare, Munshi, Jaigovind s/o Baburam, Chhattar s/o Sitaram, Kapildev, Krishnbihari, Jagdish, Ramjit, s/o Bhagwat, Mithai Singh s/o Vindhychal, Chhedi s/o Ramlaxan, Ayodhya, manager, Doodhnath, Autar, Ramdarash s/o..... smt. Gyanti Devi w/o Ramharakh, Ramrekha s/o Ramdular, Prem, Indra jit s/o Lalman Vinod Kumar, Durgesh s/o Ramdhani Gramwasi
				255	Government	Non Agriculture	0.055	Navin Parti
				256	Government	Non Agriculture	0.026	Navin Parti
				272	Private	Agriculture	0.025	Khedaru s/o Ratan Gramwasi, Ramashish Kumar Gramkwasi
				273	Government	Non Agriculture	0.008	Main Road
			(17) Chhapra Bhagat	114	Private	Agriculture	0.044	Chandi s/o Ramjas, Ramnagina, Ramniwas, Wakil s/o Rampati Gramwasi
				115	Private	Non Agriculture	0.010	Chandi s/o Ramjas, Ramnagina, Ramniwas, Wakil s/o Rampati Gramwasi
				117	Private	Agriculture	0.065	Vishvnath, Ambika, Chandrika s/o Ramlakhan Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				119	Private	Non Agriculture	0.259	Vishvnath and Ambika and Chandrika s/o Ramlaxan and Ramayan s/o Vindhyacl and Mukhut s/o Lotan and Dwarika and Chandraban s/o Ramnayan and amarjit s/o Rampyare and Kedar s/o Lakhan etc.
				120	Government	Non Agriculture	0.004	Way
				123	Private	Agriculture	0.005	Rajendra, Nandlal, Mukhlal, Ramlal s/o Thakur Gramwasi
				128	Government	Non Agriculture	0.002	Navin Parti
				130	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				136	Government	Non Agriculture	0.010	Play Ground
				180	Government	Non Agriculture	0.003	Nali
				125	Private	Agriculture	0.008	Rambriksh and Ramharakh and Rampyare and Rajkishor s/o Jamuna
				127	Private	Agriculture	0.007	Jagdish Mishra s/o Benishankar
			(18) Pagra	795	Private	Agriculture	0.018	Nandkishor, Gopal Nathani s/o Krishnmurari Nathani
				798	Private	Agriculture	0.015	Fainath s/o Lalbihari Gramwasi
				799	Private	Agriculture	0.040	Santraj s/o Chandar, smt. Gayatri Devi w/o Jawaharlal, smt. Naintara w/o Ramji Prasad Vill- Pipra Kothi, Hira s/o Ramdev Vill- Dharmauli
				801	Private	Non Agriculture	0.008	Nali
				1010	Government	Non Agriculture	0.004	Nali
				1066	Private	Agriculture	0.042	Nathuni s/o Jag, smt. Beli Devi Jauje Rampratap Gramwasi
				1069	Private	Agriculture	0.015	Chandrika s/o Bhrigurasan Gramwasi
				1070	Private	Agriculture	0.014	Algu s/o Bhrigurasan
				1071	Government	Non Agriculture	0.003	Chakmarg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1072	Private	Agriculture	0.054	Ramratan s/o Shyamsundar Gramwasi, Ramawadh s/o Budhan, Hibali s/o Kalicharan Gramwasi Pagra
				1078	Private	Agriculture	0.036	Ramlakhan Gramwasi
				1083	Private	Agriculture	0.094	Rajendra s/o Ramlal, Hariवंश s/o Sitaram Gramwasi
				1085	Government	Non Agriculture	0.053	Banjar
				1089	Private	Agriculture	0.135	Purnwasi s/o Devraj, Gorakhnath, Virendranath s/o Vikram Vill- Hata, Virendra Kumar s/o Rambriksh Vill Masauli, Rameshwar, Radheshyam, Ramsakal, Bhagirathi s/o Vishvnath Vill- Hariharpur, Vimla Devi w/o Hansnath vill- Ramnagar, Prabhunath s/o Chandar Gramwasi
				1148	Private	Non Agriculture	0.058	Aniruddh, Baburam, Subash s/o Vikram Vill- Parwa Khurd, Ramakant s/o Babulal. Markandey s/o Birbas Gramwasi, Jalan Ispat Suppliers Managing Director Jugul Kishor Jalan s/o Jhuthalal Birring No. 10 Gorakhpur
			(19) Chak Narayan	279	Government	Non Agriculture	0.011	Primary School
				281	Government	Non Agriculture	0.097	Road
				324	Private	Agriculture	0.030	Moti s/o Guptar Gramwasi
				326	Private	Agriculture	0.050	Ajay Bhadur, Vijay Bahadur, Abhay Bahadur s/o Mishri Prasad, Indrajit s/o Hiranman Gramwasi
				343	Government	Non Agriculture	0.085	Chaknarg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				385	Private	Agriculture	0.032	Hari, Lalbachan s/o Ramautar, smt. Kaushlya Beva Mangal Vill-Lohepar, Shivnarayan, Ra.nsamujh s/o Maula, Shivpujan, Radheshyam, s/o Ramagya, Sitai s/o Thakur, Ramsewak, Rampal, Shivpal s/o Ramashray, Darshan s/o Prasiddh, Parashuram Urf Hira s/o Shivraj, Ramsamujh s/o Jagdev, Subhkaran s/o Doodhnath, Prabhunath, Arjun s/o Shubhkaran Vill- Chhapara Bhagat
				394	Private	Agriculture	0.053	Musmat Dulari Beva Bramha, Jairam, Ramnaresh, Suresh, Narvada s/o Vishun, Sudama, Kalika s/o Fagu, Lakhan, Hari, Dayashankar, Omprakash, Jaiprakash s/o Kamla, Gulab s/o Ramraj, Shivraj s/o Birja, Nebulal, Jethu s/o Mishri, Ramdaras, Ramgyan, Ramdhyan s/o Ambika, Bhu Putari Beva Khedu, Sharda s/o Suraj Mani, Bhabhuti s/o Bechu, Ramakant s/o Baburam Vill-Chhapra Bhagat
				404	Private	Agriculture	0.068	Musmat Dulari Beva Bramha, Lakhan, Hari, Dayashankar, Oprakash, Jaiprakash s/o Kamla, Gulab s/o Ramraj, Shivraj s/o Birja, Nebulal, Jethu s/o Mishri, Ramdarash, Ramgyan, Ramdhyan s/o Ambika, Sharda s/o Suraj Mani, Bhabhuti s/o Bechu, Ramakant s/o Baburam Vill- Chhapara Bhagat, smt. Vidya Devi w/o Ramkrishn Singh Vill- Sahabajpur, Ramawadh s/o Narayan, Chhotelal, Nanhelal, Jaiprakash, Sandip (Minor), Layat Dukhran s/o Dukhran Vill-Chhapara Bhagat, Subash s/o Safal nij Gramwasi
				405	Private	Agriculture	0.020	Paras s/o Bhagan
			(20) Dharmauli	143	Government	Non Agriculture	0.048	Khanta
				144	Government	Non Agriculture	0.008	Nala Kurna

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				157	Government	Non Agriculture	0.101	Khanta
				142	Private	Non Agriculture	0.003	Ramchandra, Ramjeet, Kailash s/o Chokat, Suryabhan, Udaybhan, Dayaram s/o Badri, Padam, Niranjan Nawalig age 15,12, Year Mosmat Fulmati Mata s/o Omprakash, Sunder, Mulai s/o Katbaru Gram Chapra Bhaghat
				163	Private	Non Agriculture	0.020	Chandrasah Kumar, Hemwanti, Madan, Ravi Narayan, naval Kumar s/o Jagadish Narayan Niwasi Chapra Bhagat
				164	Private	Agriculture	0.050	Ramlakshan s/o Mithai Gramwasi
			(12) Piprahi Bharkulwa	11	Government	Non Agriculture	0.085	Road Khanti
				37	Private	Agriculture	0.036	Ramsurat, Sitaram Shyam Bihari, Santraj s/o Parsuram, Goga s/o Lallan Gram Niwasi
				42	Government	Non Agriculture	0.023	Banjar
				73	Private	Agriculture	0.013	Ramdulare s/o Kmta, Ramashare, Chandrashekhar s/o Rajbanshi Gramwasi, anil, Ajay, Vinay s/o Ramadhar, smt. Kalawati Devi w/o late Ramadhar, Harendra, Nagendra, Rajendra, Raghwendra, Satyendra, Mahendra s/o Brijnarayan, bhupendra Kumar (Minor) 12 Years Guardian widow Lilawati (Mother) s/o Yogendra Gramwasi, Bhola, Ramyadi s/o Gabu, Chandrabhan s/o Munni, Mahajan s/o Pargas, Widow Gulabi Beva Mabatam, tirthraj s/o Rajdhari Gramwasi, smt. Sanju Devi w/o Vansh Gopal s/o... Gramwasi Sakrauli, Pramansh, Raghunath s/o Khaderu, Baijnath, Umashankar, Shankar, Ramashankar s/o Jhengat Vill- Sirsiya, Katwaru s/o Ghurahu, Ramawadh, Shankar, Dinanath s/o Santdev, Ramkishun, Jiyawan s/o Tilakdhari, Ramjit, Chandrabhan, Kailash, Rambelash s/o Sukhraj,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Harilal, Ramlakhan, Dharendra s/o Kshatradhari, Rambriksh s/o Ururao Gramwasi, Ghanshyamlal, Jaiprakasa Lal, dindyal, Arvind Lal, Arun Kumar s/o Bhagwat, Desh dipak, Mukesh Lal, Diwakar Lal s/o Raghunath Lal, Narsingh Lal s/o Hira Lal, Subhash chandra, Raghvendra, Rakesh s/o Gangasaran, Vijay, Pradip, Rajiwar Jan s/o Prabhunath Gramniwasi, Ranjit, Rajkishor, Ramdev, Prabhunath s/o Wanshraj, Sanjay, Jagdish, Omprakash, Shambhu Saran s/o Radhakishun,</p> <p>Vindhyachal s/o Randaur Gramniwasi, Bhagirathi, Laxuman s/o Jamuna, Shivpujan, Ram Singh s/o Ram prasad, Ramayan, Munshi s/o Rampat, Rangyan Singh, Jairam Singh, Virendra singh s/o Rampat, Ramvelas s/o Jwala, kedar s/o Shital, Vijay, Sanjay, Satyendar Nabalig Age. 16 Year Sa. Smt. Jitna Mata s/o Ambika Niwasigram, Sukai s/o Ramswarup, Shyamsundar, Ashok kumar s/o Ramawadh Sudama, Rajkes, Ramnaresh s/o Ugrah Gramniwasi, Babban, Jagbahadur s/o Maharaj, Harishchandra s/o Ram singar, Smt. Dhuradevi Widow Ramsingar, Vishvnath, Rambharos s/o Buddha, Pateshwar, Manoj s/o Devraj, Ganesh, Gomati s/o Halikaran, Sanjiv, Sury pratap Nabalig Age. 12 Year Sa. Mu. Lilawati devi s/o Ramnakshatra, Mu. Lilawati devi Widow Ramnakshatra, Mu. Sirjami Widow Pujan, Bhiv murat s/o Dev Nanm Niwasigram</p>
				85	Government	Non Agriculture	0.002	Khalihan
				98	Private	Agriculture	0.069	Rambriksh & Sewak s/o Sukai Gramwasi
				103	Government	Non Agriculture	0.061	Khalihan
				104	Government	Non Agriculture	0.068	Kabristan, Khalihan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				105	Private	Agriculture	0.035	Parvag Jahsan, Tarveg Hasan, s/o Mo. Hanif, Muneshwar s/o Sukai Gramwasi. Pokhari
				109	Government	Non Agriculture	0.016	Abadi
				180	Government	Non Agriculture	0.013	Road
				195	Private	Agriculture	0.025	Khaderus s/o Vindhyachal, Rajdev s/o Bachchu Gramniwasi, Ramdulare s/o Kamta, Ramashare, Chandrasekhar s/o Rajbanshi Gramwasi anil, Ajay, Vinay s/o Ramadhar, smt. Kalawati Devi w/o late Ramadhar, Babban, Jagbahadur s/o Maharaj, Harishchandra s/o Ram Singar, Vishvnath, Rambharos s/o Buddhu, Pateshwar, Manoj s/o devraj, Ganesh, Gomati s/o Balikaran, Sanjiv (Adult) Suryapratap (Minor) 12 Years Guardian Lilawati Devi s/o Ramnakshatra, widow Lilawati Devi Beva Ramnakshatra, Widow Sirjami Beva Pujan, Bhiv Murat s/o devnanm Gramwasi, Ramjirawa s/o Jaggu, Vishvnath s/o Bhagauti, Lallan s/o Baburam, Kapildev, Grahama s/o Bachchu Vill- Sirsiya, Bhola, Ramyadi s/o Gabbu, chandrabhan s/o Murni, Mahajan s/o pragas, Mu. Gulabi Widow Mahatam, Tirathraj s/o Rajdhari niwasi Gram Sanju devi w/o Bansh gopal Niwasi Gram Sukrauli, Bhulai, hansa, Indrasan s/o Bachha, Feku, Arjun, Raghuvir, Paras s/o Banka Niwasigram Devnarayan s/o lachhan, Jangi, Sitaram, Sriram s/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Ramlakhan, Prahlad s/o Chhedilal, Jaichand, Shyambihari s/o Sheshmani, Singhn s/o Parsuram, Smt. Badami w/o Ramugrah Sa. Mudrashsan Patti hal mu. Gramwasi, Indrasan, Prahalad s/o Judawan Niwasigram Sirsiya, Smt. Kalawati devi w/o Late Ramadhar, Digvijay singh, Chandra pratap singh, Ravi pratap singh s/o Rajkishor, Dhirendra, Ramashankar, Rajendra s/o Sahdev, Nirudhh, Surendra, Gorakhnath s/o Ramprasad, Jitendra s/o Ramsurat, Achhiwar, Vishnu pratap, Jatashankar, Nagendra s/o Ramawadh, Siraj wa., Ashish, Ajit Nabalig Age. 15,12 Year Sa. Smt. Vimala devi (Mata) s/o Subash, Rajesh, Dinesh s/o Sharda, Vijay Bahadur lalmohan, Vinod, Durgesh s/o Bake bihari, Murli Manohar s/o Wasdev, Jagdish, Omprakash singh, Shambhusharan, Sanjay kumar singh s/o Radhakrishn, Pradip kumar, sudhir kumar s/o Ravindra singh mu. Smt. Sumitra devi Widow Ravindra singh Gramniwasi, Nahar
				196	Government	Non Agriculture	0.105	Road Khanti
				197	Private	Agriculture	0.006	Rudrapratap, Ramsewak s/o Munni, Jaikaran, Jairam, vinod Kumar s/o Rudra Pratap Gramniwasi
				198	Private	Agriculture	0.046	Rudrapratap, Ramsewak s/o Munni, Jaikaran, Jairam, vinod Kumar s/o Rudra Pratap Gramniwasi
				68	Government	Non Agriculture	0.003	Road
				99 / 365	Private	Agriculture	0.031	Nali
			(22) Muzahana Hetim	262	Private	Agriculture	0.033	Amarnath, Vijay Kumar s/o Ramadhar, Ramchandra s/o Pallu Gramwasi
				263	Government	Non Agriculture	0.073	Road Khanti
				264	Private	Agriculture	0.020	Akshaybar, Muneb s/o Chhedil Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				265	Private	Agriculture	0.005	Gopal, Ramsurat, Ramdulare s/o Ramsubhag Gramwasi
				267	Private	Agriculture	0.007	Gopal, Ramsurat, Ramdulare s/o Ramsubhag Gramwasi
				268	Private	Agriculture	0.006	Gopal, Ramsurat, Ramdulare s/o Ramsubhag Gramwasi
				269	Private	Agriculture	0.006	Gopal, Ramsurat, Ramdulare s/o Ramsubhag Gramwasi
				271	Government	Non Agriculture	0.001	Way
				273	Private	Agriculture	0.100	Durgesh Pal Singh, Munna Singh, Rajkumar Singh, Krishnnarayan Singh s/o Brijesh Pal Singh Gramwasi
				275	Government	Non Agriculture	0.040	Road Khanti
				276	Private	Agriculture	0.037	Jagdish, Ramadhar, Arjun s/o Maukhud, smt. Kaushalya Devi w/o Mukut Gramwasi
				285	Government	Non Agriculture	0.010	Way
				286	Government	Non Agriculture	0.002	Nala
				289	Government	Non Agriculture	0.021	Silling
				292	Private	Agriculture	0.032	Shailendra Pal Singh, Pawan Pal Singh Urf Vikram Pal Singh, Jagany Pal Singh s/o Anag Pal Singh Gramwasi
				293	Private	Agriculture	0.005	Shailendra Pal Singh, Pawan Pal Singh Urf Vikram Pal Singh, Jagany Pal Singh s/o Anag Pal Singh Gramwasi
				295	Private	Agriculture	0.028	Shailendra Pal Singh, Pawan Pal Singh Urf Vikram Pal Singh, Jagany Pal Singh s/o Anag Pal Singh Gramwasi
				296	Government	Non Agriculture	0.024	Road Khanti
				299	Private	Agriculture	0.024	Riyasat, Kamliwan s/o ahmed, Abdul s/o Chhinkaj Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				308	Private	Agriculture	0.010	Imrit, Ramanand, Motilal s/o Vishvnath, Ajay Kumar, Vijay Kumar s/o motilal, Kundan, Srayu (Minor) 15, 11, 13 Guardian smt. Amrawati Devi (Mother) w/o Santosh, smt. Amrawati Devi w/o santosh, Pramod s/o Ramchandra, smt. Sumitra Devi s/o Ramchandra, Ramawadh s/o Ramdhari Gramwasi
				311	Government	Non Agriculture	0.013	Way
				334	Government	Non Agriculture	0.018	Khalihan
				337	Private	Agriculture	0.032	Amrit, Motilal, Ramanand s/o Vishvnath, Ajay Kumar, Vijay Kumar s/o Motilal, Indan, Saryu (Minor) 15 & 13 Years, Guardian smt. Amrawati Devi w/o Santosh, Pramod s/o Ramchandra, Ramawadh s/o Ramdhari Gramwasi
				362	Government	Non Agriculture	0.037	Gull
				363	Government	Non Agriculture	0.032	Road
				367	Private	Agriculture	0.036	Sahid s/o Junrati, Rajjat s/o Jaan Mohammad, smt. Jalusa Nisha w/o Shahid Vill- Mujahana Hetimpur, Ravil s/o Tufani Gramwasi
				368	Private	Agriculture	0.100	smt. Subhawati w/o Ramnaresh Vill Pipraha, Ramharsh Prasad, Sunil Kumar s/o Kamla Vill- Patrawali, Vishram, Bhuteli, Ramshakal s/o Rajdhari, Khaderu s/o Ramlal Gramwasi, Nebulal, Shravan s/o Dewdatt Vishvkarma, smt. Fulwasi Devi w/o Kedar Singh Vill- Sahabajpur, Ganesh Tiwari s/o Dip Meranan Tiwari Vill- Sahajpur, Kedar s/o Jamuna Vill- Sahaver Patti
				372	Government	Non Agriculture	0.023	Banjar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				373	Private	Agriculture	0.110	sardar Singh, Badari s/o Salik, Udaybhan, Rajaram, Rajkumar s/o Sadarasi Gramwasi
				377	Private	Agriculture	0.130	sardar Singh, Badari s/o Salik, Udaybhan, Rajaram, Rajkumar s/o Sadarasi Gramwasi
				391	Government	Non Agriculture	0.024	Khad Ka Gaddha
				400	Government	Non Agriculture	0.020	Abadi
				406	Private	Agriculture	0.012	Vinod Kumar, Arvind Kumar s/o Chandradev Gramwasi
				407	Private	Agriculture	0.036	Vinod Kumar, Arvind Kumar s/o Chandradev Gramwasi
				409	Private	Agriculture	0.045	Shailendra s/o Anang Pal s/o Grijesh Pal s/o Lalbahadur, Arvind Kimar, Chandra Pratap Narayan Singh s/o Bansh Gopal Gramwasi
				410	Private	Agriculture	0.057	Sukhram Vishram s/o Jagdev, Ramdev s/o Baudh, Gabbu s/o Dalsingar
				412	Private	Agriculture	0.050	Sukhram s/o Jagdev, Ramdev s/o Baudh Gramwasi
				294	Private	Agriculture	0.005	Shailendra Pal, Pawan Pan Urf Vikrant Pal, Gagan Pal s/o Anang Pal Gramwasi
				345	Private	Agriculture	0.003	Sahid s/o Jumrati, Rajjat s/o Jaan Mohammad, smt. Jalusa Nisha w/o Shahid Vill- Mujahana Hetimpur
2		Kasaya	(1) Bhainsaha	490	Government	Non Agriculture	0.150	Nadi, Gandak
				692	Private	Agriculture	0.025	Ramashankar, Jagat Narayan Sakim Chakdeiya, Ramashankar, Jagat Narayan Sakim Chakdeiya
				693	Private	Agriculture	0.016	Rampravesh s/o Mulli Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				694	Private	Agriculture	0.180	Nagina, Pudina s/o Indra, Rajmangal s/o Mahangu Vill-Hetimpur, Muhammad Arif s/o Ghorahu, smt. Sufi Karnam w/o Ujjiyar Nisat Machhalidadan, Aftab Alam s/o Munsu Vill- Kheleri Patti, Ramchandra s/o Ramsurat, Vill-Pidiyapar, Rampravesh s/o Haridwar Gramwasi, Kripashankar s/o Devta Pandey Vill- Sautan Hasiyagadh, smt Saroj Pandey d/o Mahanth Vill- Chigaditandm, Ramesh, Hari s/o Shivnath, Devendra Singh s/o Sampat Singh, Gramwasi, smt. Vimla Devi, Ramdhan, smt. Kumkum Devi w/o Vijay Pratap Vill- Chandauli, Ramdhan s/o Shravan Kumar, smt. Indrawati Devi w/o Subashchandra Vill- Karmauli, Ramsewak s/o Somari Vill- Paikauli, Mahuadih, Ramsewak s/o Sukhari Vill-Baidauli
				698	Private	Agriculture	0.140	Jasmel Singh s/o Bhaura Singh, Prabhu s/o Maheshi, Virendra s/o Banshraj, Ravindar s/o Bhagel, Mithai s/o Ramjas, Virvasan s/o Gobhi Gramwasi
				700	Private	Agriculture	0.061	Jasmel Singh s/o Bhaura Singh, Chhedi, Ramdev s/o Ramdhari, Lalbahadur s/o Kuber, Ramdev, Suresh s/o Shyamsundar Gramwasi smt. Ramdulari Devi w/o Mahendra Prasad Vill- Murera Chak, Umashankar s/o Lalbahadur Singh Vill- Sirsiya
				841	Private	Agriculture	0.044	Jokhu s/o Mahadev, Virendra, surendra s/o Chanbali, Gopal s/o Sitaram, Chhedi, Nagendra s/o Shyam, Hiralal, Jawaharlal s/o Rajdev Gramwasi
				842	Private	Agriculture	0.045	Narvdeshwar s/o Vanshraj, Omprakash Urf Khelawan s/o Ramautar, smt. Tilima w/o Ramautar Gramwasi, Suresh, Rakesh, Virendra s/o Darwani Vill-Majisaray Hal-Mu. Mujahana Hetima

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				843	Private	Agriculture	0.197	Chhedi, Ramdev s/o Ramdhari, Lalbihari s/o Kuber, Ramnaresh, Suresh s/o Shyamsundar Gramwasi
				858	Private	Agriculture	0.016	Suresh s/o Ravi, Lalbabu s/o Kashiram, Ganeshi s/o Hareram Gramwasi
				859	Government	Non Agriculture	0.002	Main Road
				861	Private	Agriculture	0.082	Chhamar s/o Chandbali Gramwasi, Chhamar s/o Chandbali Gramwasi
				862	Private	Agriculture	0.100	Kishora s/o Kailash, Sunita w/o Buddhiram Gramwasi
				866	Private	Agriculture	0.035	Mueali s/o Balikaran, Udaylal, Munna, Jaihind, Amit s/o Sharda Gramwasi
				900	Private	Agriculture	0.009	Munni s/o Raghu, Gangasagar, Vyas s/o Chandradev, Sharda, Vindhyachal s/o dhanni, Indrajit s/o Hira, Jitendra, Yogendra s/o Paras, Chhattar, Fularati Tarasingh s/o Jiyawal Gramwasi
				902	Private	Agriculture	0.027	Shravan s/o Paltan Gramwasi
				985	Government	Non Agriculture	0.007	Chakmarg
				1015	Government	Non Agriculture	0.036	Gaddha
				1017	Government	Non Agriculture	0.065	Navin Parti
				1022	Government	Non Agriculture	0.073	Navin Parti
				966	Government	Non Agriculture	0.005	Chakmarg
				1055	Private	Agriculture	0.053	Ramashankar, Shyamlal, Nanaki d/o Jaipal, Lakhu s/o Vishvnath, Ramashish, surendra s/o Gramwasi
				1655	Private	Agriculture	0.010	Prabhu s/o Maheshi, Basant, Shankar, Prasad, Govind Prasad s/o Kapuri, Devi Prasad, Lahari Prasad s/o Vaksh Gramwasi
				1656	Private	Agriculture	0.039	Shyamsundar s/o Rajbali Vill-Nautan Hathiyagarh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1660	Private	Agriculture	0.015	Rampyare, Bhawani s/o Mukhut, Sita s/o Jugal Gramwasi, smt. Parakhi Devi w/o Rameshwar, smt. Karani Devi w/o Chandrabhanu Singh Vill- Bhujauli, smt. Velari Devi w/o Mishrilal
				1661	Government	Non Agriculture	0.015	Banjar
				1664	Private	Agriculture	0.003	smt. Gena w/o Sriram Gramwasi, Lalmati Devi Jagdish Gramwasi, Musmat Musali Beva Idan, Rasul s/o Mool Gramwasi
				1666	Private	Agriculture	0.005	Hira, Ramnagna, Kanchan, Asharfi s/o Shivprasad, Amarnath, Sukdev (minor) 10 & 12 Years Guardian (Mother) Manbhawani s/o Ramchandrar, Manbhawani Beva Ramchandrar Gramwasi, Girdhari s/o Ramnath Gramwasi, Musmat Ramdei d/o Mahadev Gramwasi
				1667	Government	Non Agriculture	0.010	River Gandak
				1674	Government	Non Agriculture	0.030	Banjar
				1115	Private	Agriculture	0.060	Gorakh s/o Rajmangal Vill-Khansar
				1199	Government	Non Agriculture	0.002	Ramdaud s/o Khedu Gramwasi
				1203	Private	Agriculture	0.072	Diplal Prasad, Vanshi s/o Vikau, smt. Badhi w/o Bikau Gramwasi
				1205	Government	Non Agriculture	0.008	Khalihan
				1228	Private	Agriculture	0.019	Bhulan, Rambali s/o Abhiram, Beli w/o Harikishun Gramwasi
				1377	Private	Agriculture	0.065	Satyanarayan, Budhan, Ghusan s/o Diplal Gramwasi
				1385	Government	Non Agriculture	0.010	Way
				1446	Private	Agriculture	0.051	Kishor s/o Kailash, Sunita w/o Buddhiram Gramwasi
				1447	Private	Agriculture	0.032	Feku s/o Ramlal, Tufani s/o Vanshraj, Munshi s/o Golai, Mushi s/o Golai Gramwasi
				1450	Private	Agriculture	0.020	Shyamdev s/o Faujdar Gramwasi, smt. Kasturi Devi w/o Indramani Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1454	Private	Agriculture	0.032	Yogendra s/o Santu, Basant s/o Gunja Gramwasi, Saraju s/o Gajar, Ravindra Singh, Ramkripal Singh, Ramdhyan Singh, girish Singh s/o Mishri, smt. Lal Devi w/o Mishri Vill- Mahuadih
				1455	Government	Non Agriculture	0.039	Banjar
				1456	Government	Non Agriculture	0.010	Abadi
				1461	Government	Non Agriculture	0.015	Khalihan
				1463	Private	Agriculture	0.016	Dhaluri w/o Bharat, Prabhawati w/o Raghunandan Gramwasi
				1466	Private	Agriculture	0.018	Kamlakant, Ashok Kumar s/o Bhagauti Prasad Gramwasi, Virendra singh s/o Rambali Singh Gramwasi, Ramnaresh, Kamlesh s/o Rajdev Vill- Bhadari Dadan, Lalbahadur s/o Thumari Sakim, Sharnagadh Chakia, Ramchandra s/o Bhagwat Prasad Gramwasi, Manmochi, Mohan s/o Suman, Vishvnath s/o Ayodhya, Maharshiraj Gramwasi, Vishvnath, Ramrup s/o Ramsharan, Brijesh, Kalpna, smt. Fulvati Devi w/o Kamla, smt. Gangotri Beva Asharfi Vill- Pipari
				1467	Private	Non Agriculture	0.007	School
				1477	Private	Agriculture	0.022	Kedar s/o Gaya, gomati s/o Badari Gramwasi, Alakhdev s/o Kali, Chandrasekhar s/o Badhai, Shivprasad Singh, Baliram Singh, Yogendra Singh, Ravindra Singh s/o Alakhdev Singh, Shivpratap Singh, Bairam Singh s/o Mushi Singh, Srinarayan, Ranapratap singh, Chandrasekhar Singh s/o Nai Singh Vill- Sampur, Mahatam s/o Nageshwar Gramwasi, Way
				1483	Private	Agriculture	0.010	Chhedi s/o Awadhi Gramwasi
				1484	Government	Non Agriculture	0.050	Khalihan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1502	Private	Agriculture	0.026	Gangasagar, Nyas s/o Chandradev, Gramwasi, Ramashankar, Radheshyam, Ghanshyam s/o Ramanand Vill- Hadiyagadh
				1503	Government	Non Agriculture	0.020	Khalihan
				1522	Private	Agriculture	0.010	Bikau s/o Tapesnar, Mahesh, sumant s/o Ramchandra, smt. Sahodari w/o Ramchandra Gramwasi
				1536	Private	Agriculture	0.043	Mahdeiya w/o Chhotkan Gramwasi
				1532	Private	Agriculture	0.043	Suresh s/o Shankar, Ramlakhan Sahani s/o Ramnath Gramwasi
				1533	Private	Agriculture	0.036	Singhasan s/o Sahangu Gramwasi
				1568	Private	Agriculture	0.080	Subhawati Devi w/o Basudev Vill-Gatiya Mahpal Tapp- Indradev s/o Ramraj Gramwasi
				1571	Private	Agriculture	0.030	Chandrabali s/o Mohan Vill-Dumari
				1573	Private	Agriculture	0.020	Vidyadhar Mishra s/o Bramhdev Gramwasi
				1576	Private	Agriculture	0.025	Singhasan s/o Sahangu Gramwasi
				1577	Private	Agriculture	0.024	Vasant Kumar s/o Kapuri etc.
				1578	Government	Non Agriculture	0.197	Road
				1579	Private	Agriculture	0.027	Malhu and Ramprवेश s/o Laxan
				1580	Private	Agriculture	0.032	Bhagwat s/o Gajraj Gramwasi
				1614	Government	Non Agriculture	0.010	Way
				1636	Private	Agriculture	0.057	Shankar, Salik s/o Vindhychal Vill Pipari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1679	Private	Agriculture	0.048	smt. Sitani Devi w/o Shatrughan Gramwasi, Vishvnath Sampati Gramwasi, Sitaram Pandey, Rajendra Pandey, Rajeshwar Pandey, Ravindra Pandey s/o Ramratan Pandey Gramwasi, Tahir Hussain s/o Madina Gramwasi, Jagdish s/o Kumar, Parasnath s/o Bankeshwar, Ramnaresh, Dhananjay s/o Sharda, Dayanand s/o Dipchand Gramwasi. Lalji s/o Laxman Vill- Hetimpur, Rajendra Kumar. Narendra Kumar s/o Rampyare Singh, Gyanprakash Singh s/o Chaudhari Charan Singh Vill- Dumari, Rajkeshwar, Baburaj, Nagendra s/o Hare, Vill- Natahi Majiyagadh
				1683	Private	Agriculture	0.042	Shivpratap s/o Bakaru Das Gramwasi
				1694	Government	Non Agriculture	0.135	Abadi
				1698	Government	Non Agriculture	0.123	Banjar
				1485	Private	Agriculture	0.006	Ramdev and Ramesh & Munnu and smt. Rita Devi and smt. Rasula Devi and smt. Ramula Devi and smt. Rita Devi
			(2) Dumri	64	Private	Agriculture	0.006	Kali Prasad, Meghnath s/o Kumar, Rammesh, Ramrup, Subash, Sarvjit s/o Shyamlal Gramwasi
				68	Government	Non Agriculture	0.010	Shiv Pujan s/o Brahmdev, Ashok Kumar, Ajay Kumar, Santosh Kumar s/o Nand Kishor Niwasi Gram Sirsia, Nali
				69	Government	Non Agriculture	0.052	Chakmarg
				70	Private	Agriculture	0.038	Surendra, Omprakash s/o Ayodhya, Ramkailas, Rambharos s/o Baburam Niwasi Gram Bhujauli, Smt. Gulabi Devi W/o Sarda Yadav Niwasi Gram Pipri, Smt. Ramawati Devi W/o Ganesh Sakin Mahuari, Smt. Rambhasi Devi W/o Bishram Niwasi Gram Karbhaha Ugrasen Tehsil Dumri, Chakmarg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				71	Private	Agriculture	0.015	Smt. Beili Devi widow Shyamlal, Ramnaresh s/o Shyamlal, Rambharosh s/o Baburam Niwasi Gram Bhujauli
				74	Government	Non Agriculture	0.072	Shiv mandir
				92	Private	Agriculture	0.020	Bhan, Sunder s/o Sughan, Muraili s/o Shivratan Gramwasi
				94	Private	Agriculture	0.100	Firangi, Rangi s/o Ramlagan Niwasi Gram Bishambharpur, Smt. Fulwati jauje Banshraj Niwasi Gram Furkuchani
				95	Government	Non Agriculture	0.027	Road
				98	Government	Non Agriculture	0.042	Road
				99	Private	Agriculture	0.126	Sarda, Mahima, Smt. Manju Devi W/o Rampravesh Sakin Mandra, Pradeep, Ravindra s/o Ramdev, Srikesh Ray s/o Harikesh Ray Gramwasi, Smt. Dukhni Devi W/o Asambhav Niwasi Gram Pipra, Smt. Bachwi Devi W/o Makhanlal, Smt. Keshri devi W/o Sudarshan Niwasi Gram Sirsia, Bideshi Prasad s/o Sumri Prasad, Mandra Gramwasi
				103	Government	Non Agriculture	0.015	Bazar
				104	Private	Agriculture	0.042	Feku s/o Jakhar Gramwasi, Anil s/o Ramlakhi Niwasi Gram Mahuawa, Nasiruddin, Mainuddin s/o Habib, Gramniwasi Smt. Munni Devi W/o Ramnath Prasad Gramwasi, Ramdhani S/o Ganesh Niwasi Gram Parsauni
				208	Private	Agriculture	0.052	Narendra, Ravindra, Anand Pal s/o Rambharose
				209	Private	Agriculture	0.057	Surendra, Omprakash s/o Ayodhya, Ramkailas, Rambharos s/o Baburam Niwasi Gram Bhujauli
				211	Government	Non Agriculture	0.085	Abadi
				214	Government	Non Agriculture	0.008	Banjar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				220	Private	Agriculture	0.002	Surendra etc.
				227	Government	Non Agriculture	0.004	Nali
				229	Government	Non Agriculture	0.150	Surendra, Omprakash s/o Ayodhya, Rambilas, Rambharos s/o Baburam Niwasi Gram Bhujauli, Road
				230	Private	Agriculture	0.093	Hadish, Sahid, Salim s/o Faizal Gramwasi, Smt. Barsana Devi W/o Subas, Smt. Parwati Devi W/o Mohan Gramwasi
				233	Private	Agriculture	0.023	Bankeshwar s/o Devnarayan Niwasi Gram Bhujauli
		(3) Bishambharpur		392	Private	Agriculture	0.010	Vishwanath, Ramayan s/o Jangi Niwasi Gram Jhungwa
				393	Private	Agriculture	0.025	Sudama s/o Chandrabhushan Gram Jhungwa
				394	Private	Agriculture	0.080	Smt. Foolmati W/o Valister, Smt. Vijaya Sharama W/o Jay Narayan Sakin Haraiya jath Pakri, Gangarani, Smt. Rajkali W/o Gulabchand Sakin Pipri, Bhanupratap, Adya, rajesh s/o Baburam Gramwasi
				396	Government	Non Agriculture	0.003	Chakmarg
				398	Private	Agriculture	0.015	Satyanarayan, Sri Narayan, Surendra, Rajendra, Ravindra s/o Shivpujan Gram Bishunpur Bindwaliya
				423	Government	Non Agriculture	0.003	Nali
				424	Government	Non Agriculture	0.005	Way
				439	Private	Agriculture	0.012	Prahlad s/o Ramrup Jhungwa
				440	Private	Agriculture	0.012	Prahlad s/o Ramrup Jhungwa
				441	Private	Agriculture	0.075	Ramkishun s/o Ramlakhan Gram Jhungwa
				445	Private	Agriculture	0.040	Ramadhar s/o Mukhut Vahira Pandey, Moti Pandey s/o Shivpujan Gram Jhungwa
				446	Government	Non Agriculture	0.010	Chawar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				448	Private	Agriculture	0.004	Chandrika s/o Ramlagan Vill-Jhungwa
				451	Private	Agriculture	0.090	Maya Devi d/o Ramlal Sakin Kaseya
				452	Private	Agriculture	0.036	Ramanand, Sachidenand, Girijanand s/o Meur Gram Muzhana Hal Mukam Bishambharpur, Ramti, Ramdhari s/o Bachhu Niwasi Gram Jhungwa, Sobhilal s/o Rikhidev Niwasi Gram Paraskhar
				453	Private	Agriculture	0.032	Awadrani W/o Late Indrasan Tiwari Niwasi Mathiya Mishra, Harekishun s/o Bachhu Gram Jhungwa, Hira Pandey, Moti Pandey s/o Shivpujan Gram Jhungwa
				454	Private	Agriculture	0.029	Hira Pandey and Moti Pandey s/o shivpujan Gramwasi
			(4) Jhungawa	47	Private	Agriculture	0.045	Gulab and sudarshan and Amarjit s/o Ramjatan etc.
				49	Private	Agriculture	0.048	Kapildev s/o Dwarika Singh etc.
				53	Private	Agriculture	0.082	Madan s/o Vindhyachal, Bhola Girdhari etc.
				57	Private	Agriculture	0.040	Ramchandra s/o Nanku Gramwasi
				58	Private	Agriculture	0.030	Prahlad s/o Ramrup Gramwasi
				59	Private	Agriculture	0.025	Shivdhani s/o jiut etc.
				60	Government	Non Agriculture	0.020	Chakmarg
				62	Private	Agriculture	0.035	Devnath and Ramnath, Rajesh Kumar etc.
				64	Government	Non Agriculture	0.002	Way
				107	Private	Agriculture	0.003	Jaiprakash and Harindranath
				119	Private	Agriculture	0.010	Kedarnath Pandey etc.
				240	Government	Non Agriculture	0.006	Dhanushi s/o Angad etc.
			(5) Bishunpur Bindwalia	258	Government	Non Agriculture	0.021	Narendra Pratap Singh s/o Bhagwat Singh Gramwasi, National highway (Bharat sarkar)
				267	Private	Agriculture	0.160	Raghunandan s/o Tahal, Ramraj, Kanglu s/o Somari, Chokar s/o Shankar Gramwasi, Omprakash s/o Gorakhnath Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				365	Government	Non Agriculture	0.036	Road
				510	Government	Non Agriculture	0.013	Nahar Sichai Wibhag
				531	Government	Non Agriculture	0.014	Nahar Sichai Wibhag
				275 / 1560	Government	Non Agriculture	0.114	Aabadi, Inter College, Aabadi, Road
				711	Private	Agriculture	0.024	Awadh Kishore, Rajendra Prasad, Mithilesh Kumar, Arbind Kumar s/o Prajapati, Champa Devi W/o Rambriksh Gramwasi
				726	Private	Agriculture	0.012	Sammat s/o Kanhaiya Gramwasi
				727	Private	Agriculture	0.050	Rambriksh, Ramdhari s/o Jagdev Gramwasi
				728	Private	Agriculture	0.008	Bharosha s/o Sukhari Gramwasi
				770	Private	Non Agriculture	0.003	Harishchandra s/o Bharath
				772	Government	Non Agriculture	0.013	Aabadi Hostel Kushinagar
				774	Government	Non Agriculture	0.095	Aabadi Hostel Kushinagar
				776	Private	Agriculture	0.007	Ukititma Bikshu, Una Mishra, Bikshu Urf Gyaneshwar Shishyagan, Chandramani Bikshu Gram Bishunpru Bindwaliya, Ramadhar s/o Mukhut, Hira Pandey, Motil Pandey s/o Shivpujan, Jhagru s/o Ramlagan, Ramjatan, Durga, Sarda, Singhashan, Moran s/o Jhabbulal, Banke s/o Ramavtar, Thagai s/o Damri, Laxuman, Umapati, Umrao s/o Sabi, devdhari, Dwarika, Bhibhuti, Ramawadh s/o Babulal, Vikram s/o Jatta, Vishwanath, Ramayan s/o Jangi, Sudama s/o Chandrabhushan Niwasi Gram Jhungwa
				777	Government	Non Agriculture	0.009	Buddha Inter College Kushinagar
				794	Government	Non Agriculture	0.105	Aabadi, Inter College

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				798	Government	Non Agriculture	0.005	Banjar
				799	Private	Agriculture	0.006	Abadi, Inter College
				800	Government	Non Agriculture	0.064	Birsan s/o Chandrika, Harilal, Gandhi, Indradev, Ambika, Radheyshyam s/o Rajdev Gramwasi
				803	Private	Non Agriculture	0.005	Birsan s/o Chandrika, Harilal, Gandhi, Indradev Gandhi s/o Inardev Subash chandra rao s/o Jamuna rao
			(6) Gopalgarh	21	Private	Agriculture	0.076	Sadik s/o Chokat s/o Gulab, Nasaruddin s/o Bashir Ahmed Vill- Sabaya, smt. Kamlesh Devi w/o Jaiprakash Singh, Jairam narayan Vill- Sabaya
				24	Private	Agriculture	0.030	smt. Krishnawati Devi w/o Sharda Prasad Vill- Kasaya
				25	Government	Non Agriculture	0.007	Pokhar
				72	Private	Agriculture	0.032	Musmat Sabari Beva Udai, Sharda s/o Gulli Gramwasi, N. H. Road
				193	Private	Agriculture	0.006	Cheritable Trust, Vinay Kumar and Ashok Kumar and Jitendra Kumar s/o Bageshwari and Govindraj s/o Vishvnath, Vishnu Mohan Pandey and Krishnmohan Pandey and Pradip Pandey s/o Mastraj Pandey Gramwasi
				162	Private	Agriculture	0.003	Manager, Gudari, Vijay s/o Jhulan, Sonu (Minor) 15 Years Guardian Musmat Shanti Devi s/o Madan, Musmat Shanti Devi w/o late Madan Gramwasi, Mukhtar, Tahasildad, wakil s/o Thegu, Nawal Singh s/o Suryabali, Vanshraj, Kanta, Omprakash Narayan s/o Vanshraj Gramwasi
				391	Private	Agriculture	0.001	Gaurishankar s/o Gopal s/o shital Gramwasi, Lalchand, Balchand s/o Lakhan Gramwasi, Jagarnath Singh, Sampati Kr. Singh s/o Chandrabali, Kapildev, Kedar, Virendra s/o Gangadin Vill- Sabaya, Nali
				414	Government	Non Agriculture	0.005	Abadi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				450	Government	Non Agriculture	0.015	Banjar
				609	Government	Non Agriculture	0.012	Navin Parti
				610	Government	Non Agriculture	0.003	Chakmarg
				611	Government	Non Agriculture	0.034	Abadi
				414 / 1271	Private	Agriculture	0.015	Mangaru, Moti s/o Raghuvir Gramwasi
			(7) Abhinayakpur	149	Private	Agriculture	0.016	Vidarabh s/o Sukai Gramwasi
				150	Private	Agriculture	0.029	Rambali, Hira, Sita, Rajdev s/o Lalmani Gramwasi Rambali, Hira, Rajdev s/o Lalmani, Rajdev s/o Lalmani Gramwasi
				155	Private	Agriculture	0.029	Asalam s/o Gobari Gramwasi
				162	Private	Agriculture	0.037	Bechu s/o Mangaru Gramwasi
				170	Private	Agriculture	0.036	Asharfi, Shiv Balak s/o Kalicharan, Bhagirathi, Ayodhya, Indrajit s/o Vanshi Gramwasi
				189	Private	Agriculture	0.024	Lallan s/o Ramadhar Gramwasi
				196	Government	Non Agriculture	0.036	Marghat
				182	Private	Agriculture	0.242	Extra Agriculture Land, Banjar
			(8) Barwa	16	Private	Agriculture	0.008	Ramsewak s/o Chandrasur Gramwasi
				24 / 930	Private	Agriculture	0.008	Bechu Prasad s/o Bideshwari Gramwasi
				24	Private	Agriculture	0.016	Hasmat s/o Ishu Gramwasi
				26	Government	Non Agriculture	0.004	Nai Parti
				27	Government	Non Agriculture	0.020	Road
				154	Private	Agriculture	0.048	Ramfal, Ramesh, Narad. s/o Raghunath Gramwasi
				156	Private	Agriculture	0.025	amarnath Singh, Prabhunath Singh s/o Prahlad Gramwasi
				173	Private	Agriculture	0.035	Vashishthnarayan, Dharvidhar s/o Vidyadhar Gramwasi
				175	Private	Agriculture	0.008	Chakmarg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				358	Private	Agriculture	0.008	Nepal s/o Vanshi and Paras s/o Vindhyachal Gramwasi
				361	Private	Agriculture	0.030	Paras s/o Vasdev Gramwasi, smt. Maya Devi d/o Ramlal Vill-Salempur, Hal. Mukam- Kasaya
				365	Private	Agriculture	0.020	Udaynarayan, Vyas, Ramdayal s/o Ramkishun Gramwasi
				366	Private	Agriculture	0.020	Molajiy, Munsariy s/o Badri Gramwasi
				333	Private	Agriculture	0.310	Ramayan, Kashi, Setuwan s/o Suryabali Vill- Premwaliya, smt. Saraswati Devi w/o Ramayan Singh Vill- Kasya, Abdul Kayum s/o Mohammad Yunus, Anwajuha w/o Gulab Vill- Fazilnagar, Hal, Mukam- Barva Jangal, Ramadhar Singh s/o Ramlakhan Singh Gramwasi
				408	Private	Agriculture	0.015	Algu s/o Ramjit, Amar s/o Sarvan Gramwasi
				409	Government	Non Agriculture	0.001	Kramshah, Chakmarg
				411	Private	Agriculture	0.028	Dinanath, Shriram s/o Swami Gramwasi
				412	Private	Agriculture	0.020	Ramanand, Ramdev s/o Khedu Gramwasi
				414	Private	Agriculture	0.020	Ramchandra s/o Ramnagar Gramwasi
				415	Private	Agriculture	0.010	Bechu, Shankar s/o Lalmani, Ramashankar s/o Abhiraj Gramwasi
				416	Private	Agriculture	0.020	Chandravali, Shripat s/o Laxmi, smt. Ramlawati Devi d/o Vindhyachal Gramwasi, smt. Sangita w/o Rajendra Gramwasi
				417	Private	Agriculture	0.025	Amhmed, Rusman, samtullah, Shakir (Adult), Gulab Ahmed (Minor) 17 Years Guardian (Mother) Musmat Nasiva s/o Fatehmuhammad, Vismillah, Majid s/o Dhodha, Hasmat s/o Ishu Gramwasi
				748	Private	Agriculture	0.055	Radhakishun s/o Dukhi Gramwasi
				749	Private	Agriculture	0.020	Vijaymal s/o Somari Gramwasi
				751	Government	Non Agriculture	0.002	Nali, Kramshah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				855	Private	Agriculture	0.090	Amarnath s/o Rupai Gramwasi
				856	Government	Non Agriculture	0.003	Way
				857	Private	Agriculture	0.032	Nepal s/o Vanshi Gramwasi
			(9) Karmaini Premwalia	65	Private	Agriculture	0.033	Banka, Kanta, Bedanti s/o Bachcha, Singhasan s/o Mukhlal, Pramod s/o Brijlal, Ramayan, Kashi, Shretbari s/o Suryabali Gramwasi
			(10) Premwalia	77	Government	Non Agriculture	0.080	Navin Parti
				78	Government	Non Agriculture	0.020	Khalihan
				80	Government	Non Agriculture	0.005	N.H.
				83	Private	Agriculture	0.010	Banka etc.
				87	Government	Non Agriculture	0.021	abadi
			(11) Dhanaha Urf Malludih	153	Private	Agriculture	0.012	Banhi Devi w/o Motichand Vill- Deh, Fahiya Khatoon Jauje Yishu Gramwasi
				155	Private	Agriculture	0.240	Motila s/o Ramraj Gramwasi
				160	Private	Agriculture	0.053	Sukanth s/o Indrasan Vill- Harpur, smt. Lalmati Devi w/o Ramlochan Vill- Karmaini Premwalia, smt. Asharfi Devi w/o Bankelal Vill- Pipra, Hal. Mukam Gramwasi
				167	Private	Agriculture	0.005	Amrish Kumar etc. Rajnishwar and Rameshwar and Triveni and Narvada and Kamla Devi etc.
				183	Government	Non Agriculture	0.015	Banjar
				184	Government	Non Agriculture	0.032	Banjar
				185	Private	Non Agriculture	0.011	Sichai Department, Munna, Amerikan, Subash, Pradip s/o Singhasan, Shivpujan, Ramashankar s/o Gaya, Radha s/o Raghunath Gramwasi
				189	Government	Non Agriculture	0.002	Pokhar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				199	Government	Non Agriculture	0.040	Abadi
				208	Private	Agriculture	0.002	Laxmi s/o Triveni Gramwasi
				213	Private	Agriculture	0.067	Sinchai Depatment, smt. Fuliya Devi Vill- Dhanha Urf Malludih Gramwasi
				215	Private	Agriculture	0.015	Khudu s/o Gobardhan Gramwasi
				1066	Private	Agriculture	0.007	Ramdas s/o Mithailal Gramwasi
				1067	Private	Agriculture	0.020	Ramdas s/o Mithailal Gramwasi
				1296	Government	Non Agriculture	0.100	Abadi D
				1337	Private	Agriculture	0.030	Shivpujan s/o Shital, Damadi s/o Durga Vill- Gaura, Dist- Saran
				1491	Private	Agriculture	0.002	Rajnishwar and Rameshwar s/o Awadhesh, Triveni Singh and Rajdhari, Narvada Singh s/o Naubat Singh, Kamla Devi w/o Shyamsundar Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1493	Private	Agriculture	0.002	Rajnishwar and Rameshwar s/o Awadhesh Prasad Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1494	Private	Agriculture	0.003	Rajnishwar and Rameshwar s/o Awadhesh Prasad Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1495	Private	Agriculture	0.003	smt. Kamla Devi w/o Shyam sundar Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1496	Private	Agriculture	0.003	Triveni s/o Jatadhari etc.
				1497	Private	Agriculture	0.001	Narvada Singh s/o Naubat Singh Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1498	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				1502	Private	Agriculture	0.004	Shivpujan, Ramashankar s/o Gaya, Radha s/o Raghunath and Moti s/o Thakur and Munna and Amerikan and Pradip and Subash s/o Singhasann, Wajir s/o Gafur and Rojid s/o Dilmohammad Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar
				1503	Private	Agriculture	0.004	Wajir s/o Gafur and Rojid s/o Dil Mohammad Vill- Kudwa Urf Dilip Nagar etc.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1506	Private	Agriculture	0.007	suleman and Usman, Nasiruddin s/o Wajir etc.
				1507	Private	Agriculture	0.007	suleman and Usman, Nasiruddin s/o Wajir etc.
				1508	Private	Agriculture	0.004	Virendra and Girjashankar and Vivek and Chandan s/o Bhikham, Tara Devi w/o Bikhram, Shivnath and Dinanath s/o Ramdhari Vill-Andhya
				1509	Government	Non Agriculture	0.006	Virendra and Girjashankar and Vivek and Chandan s/o Bhikham, Tara Devi w/o Bikhram, Shivnath and Dinanath s/o Ramdhari Vill-Andhya
				1524	Government	Non Agriculture	0.002	Nali, Nahar, Tube Well
				1526	Private	Agriculture	0.015	Shivpujan and Ramashankar s/o Gaya etc.
				1527	Private	Agriculture	0.015	Shivpujan and Ramashankar s/o Gaya etc.
				1528	Private	Agriculture	0.011	Muhammad Ali s/o Sobrati, Raju Bin s/o Rasul Gramwasi
				1529	Private	Agriculture	0.005	Jamurati s/o Farjan Gramwasi
				1530	Private	Agriculture	0.035	Sheshnath and Nandlal s/o Rajmanagal and Chhathu and Vishvnath /o Shankar Gramwasi
				1571	Government	Non Agriculture	0.001	Main Road
				1572	Private	Agriculture	0.011	Baijnath and Jaiprakash s/o Shyamsundar Vill- Premwallia
				1504	Private	Agriculture	0.005	Shivpujan and Ramashankar s/o Gaya and Radha s/o Raghunath and Moti s/o Thakur, Munna, Amerikan and Pradip, Subash s/o Sinhasan Gramwasi.
				1505	Private	Agriculture	0.007	Suleman and Usman and Nasiruddin s/o Wajir etc.
				1612	Private	Agriculture	0.014	Mo. Ali, Ijrail s/o Kurban, Jumrati s/o Farjan, Yasin, Saukat Ali s/o Junum, Sahabuddin s/o Jalim, Alham s/o Abdul, Hanif s/o Jaan, Sultan s/o Mo. Said, Ishak, Latif s/o Saan, Vali Muhammad s/o Sukai, Tasir, Sakir, alauddin s/o Ishu Gramwasi
				1616	Private	Agriculture	0.030	Krishak Laghu Madhya Vidyalay Malludih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1618	Private	Non Agriculture	0.056	Krishak Laghu Madhya Vidyalay Malludih
			(12) Madhuria	105	Private	Non Agriculture	0.002	Ambika s/o Innar etc.
				137	Government	Non Agriculture	0.005	Silling
				182	Private	Agriculture	0.012	Laxmi Singh s/o Guchuk Gramwasi
				186	Private	Agriculture	0.049	Awadh Narayan, Gyanprakash s/o Chhedi, Ghosh, Manager, Mukhtar s/o Buddhiram, Musmat Jotiya w/o Buddhiram Mb. Smaraj, Sanjay, Rajiv, Rajan s/o Ramashankar, smt. Fulmati w/o Ramashankar, Munni. Shivnath s/o Chokat, Ramakant, Ramanand s/o Brija Vill- Dhunwalliya
			(13) Dhunwalia	109	Government	Non Agriculture	0.340	N.H. Raod
				194	Government	Non Agriculture	0.045	N.H. Raod
				160	Private	Agriculture	0.050	Fulena s/o Balchand, Ramashankar, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Bholai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhudhar, Dhruvdev Pandey, Prahlad Pandey, Vishvnath Pandey, Hemant Kumar Pandey s/o Bhagawati, Devraj, Rameshwar s/o Lalchandra, Gopal s/o Gorakh, Sanjay Kumar, Ganesh, Vijay s/o Durga, smt. Jhepati w/o Musafir, Madan Mohan s/o Chokat, smt. Lilawati w/o Bholai Vill- Jokwa Buzurg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				170	Private	Non Agriculture	0.005	Fulena, Laxami s/o Balchand, Ramashankar, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Molai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhuidhar, Madan mohan s/o Chokat Mu. Draupadi w/o Musafir, Bhagauti, Duvraj, Rameshwar s/o Balchand, Gopal s/o Gorakh, Sukhdev s/o Gauri, Vijay, Ganesh, Sanjay s/o Durga, Vill- Jokwa Buzurg etc.
				171	Private	Non Agriculture	0.010	Fulena, Laxami s/o Balchand, Ramashankar, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Molai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhuidhar, Madan mohan s/o Chokat Mu. Draupadi w/o Musafir, Bhagauti, Duvraj, Rameshwar s/o Balchand, Gopal s/o Gorakh, Sukhdev s/o Gauri, Vijay, Ganesh, Sanjay s/o Durga, Vill- Jokwa Buzurg etc.
				185	Private	Agriculture	0.085	Fulena s/o Balchand, Ramashanka, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Bholai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhuidhar, Dhruvdev Pandey, Prahlad Pandey, Vishvnath Pandey, Hemant Kumar Pandey s/o Bhagawati, Devraj, Rameshwar s/o Lalchandra, Gopal s/o Gorakh, Sanjay Kumar, Ganesh, Vijay s/o Durga, smt. Jhhepati w/o Musafir, Madan Mohan s/o Chokat, smt. Lilawati W/o Bholai Vill- Jokwa Buzurg
				111	Government	Non Agriculture	0.058	N.H. Raod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				122	Private	Agriculture	0.001	Krishn Chand Pandey, Prakash Chand Pandey s/o Rammurat Pandey, Vipul Kr. Pandey s/o Rameshchand Pandey, Ramnaresh s/o Chandrasekhar, Rajesh s/o Shivakant, smt. Kamla Devi w/o Shivakant, Satydev s/o Srinivas, Harishchandra s/o Ramharsh, Srinivas s/o Awadhbihari Vill-Madhuriya, Satudev Ram s/o Chokat s/o Satishchandra, Omprakash, Dharmendra s/o Chheddi Musmat Durgawati Devi w/o Chheddi, Anil Kumar, Sunil Kumar s/o Paramhansh Ram Musmat Subhashini w/o Paramhansh, Rahul, amit Kumar (Minor) 15 & 12 Years Guardian Musmat Suryamati (Mother) w/o Umeshchandra, Musmat Fursati w/o Umeshchandra
				128	Government	Non Agriculture	0.036	N.H. Raod
				142	Government	Non Agriculture	0.032	N.H. Raod
				149	Government	Non Agriculture	0.004	Navin Parti
				152	Private	Agriculture	0.008	Fulena s/o Balchand, Ramashankar, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Bholai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhuidhar, Dhruvdev Pandey, Prahlad Pandey, Vishvnath Pandey, Hemant Kumar Pandey s/o Bhagawati, Devraj, Rameshwar s/o Lalchandra, Gopal s/o Gorakh, Sanjay Kumar, Ganesh, Vijay s/o Durga, smt. Jhhepati w/o Musafir, Madan Mohan s/o Chokat, smt. Lilawati W/o Bholai Vill- Jokwa Buzurg
				158	Government	Non Agriculture	0.012	N.H. Road

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				159	Private	Agriculture	0.008	Fulena s/o Balchand, Ramashankar, Dayashankar, Shivshankar, Anand Kumar s/o Nandan, Madhav s/o Jhagaru, Panchanan, Bholai s/o Shubhnarayan, Ravindra s/o Bhudhar, Dhruvdev, Pandey, Prahlad Pandey, Vishvnath Pandey, Hemant Kumar Pandey s/o Bhagawati, Devraj, Rameshwar s/o Lalchandra, Gopal s/o Gorakh, Sanjay Kumar, Ganesh, Vijay s/o Durga, smt. Jhhepati w/o Musafir, Madan Mohan s/o Chokat, smt. Lilawati W/o Bholai Vill- Jokwa Buzurg
			(14) Jokwa Buzurg	294	Private	Agriculture	0.040	Rajkumar, Ramashish s/o Hira Gramwasi, Sitaram, Paras, Kashinath, Chaymurat s/o Lohawan
				295	Private	Agriculture	0.022	amina Khatun w/o Ajmul Hak Vill- Durwaliya, smt. Fulchari w/o sudama Vill- Semra Hardo, Ismile Ansari s/o Munebi Ansari Vill- Dhurwaliya, Jumman Ansari s/o Samsher Ansari Vill- Gajirivar, Vindhyaachal s/o Vanshi, Amarjit, Ramayan s/o Nandan Vill- Dhunwaliya, sulabh, Kanhaiya s/o Satyanarayan Gramwasi
				359	Private	Agriculture	0.017	Arati w/o Suresh, Jhagaru, Ramanand s/o Fagu, Shivji, Baburam, Tulsi s/o Ramdihal, Ramdeshi s/o Sahdev Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				365	Private	Agriculture	0.025	Ramraksha s/o Tilak Vill- Madhopur, smt. Kalawati Devi w/o Chandrabali Vill- Belhari, Prabhunath Singh, Ashok Kumar s/o Shankar Singh Vill- Kripa Patti, smt. Gyanti Devi w/o Subashchandra Vill- Kaula Mundera, Omprakash, Srinivas, Dharmendra, Shailendra s/o Surendra Pratap, smt. savitri Devi w/o Surendra Pratap Vill- Pipra Karanpur Hal. Muka.- Jokwa Buzurg, smt. Noorjahan Begam w/o Chhatthi Prasad Vill- Dehwa Patti, smt. Janki Devi w/o Ramashankar Jaiswal Vill- Shivpur Buzurg
				212	Government	Non Agriculture	0.050	Banjar
				214	Government	Non Agriculture	0.004	Way
				215	Government	Non Agriculture	0.007	Abadi
				263	Government	Non Agriculture	0.002	Way
				213	Government	Non Agriculture	0.022	Pokhari
				298	Private	Non Agriculture	0.003	Dhunai Rai s/o Mahendra Rai Gramwasi
				372	Private	Non Agriculture	0.005	Jagarnath s/o Jugul and Banka s/o Gatti and smt. Noorjahan Begam w/o Chhathu Prasad Gramwasi
				373	Private	Non Agriculture	0.006	Jagarnath s/o Jugul and Banka s/o Gatti and smt. Noorjahan Begam w/o Chhathu Prasad Gramwasi
				374	Private	Non Agriculture	0.007	Jagarnath s/o Jugul and Banka s/o Gatti and smt. Noorjahan Begam w/o Chhathu Prasad Gramwasi
				472	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar & Police Chauki
				489	Private	Agriculture	0.002	Mohan and Vikas s/o Ramnath and Vishvnath and Manoj s/o Lalpariksha, Khairu Nisha w/o Aliraja Vill- Laxmipur, smt. Badami Devi w/o Vindhychal and Shivprasad s/o Govind Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				493	Private	Non Agriculture	0.010	Narayan and Ramsaran s/o Indrajit Gramwasi etc.
				494	Private	Non Agriculture	0.002	Shivji and Baburam and Tulsi s/o Ramdihal Gramwasi
				491	Private	Non Agriculture	0.008	smt. Indu Devi w/o Ramprasad Gramwasi and Ramashankar and Dalsingar Vill- Fazilnagar and Sriram and Jagdish and Subash s/o Vishvnath and Kishundev s/o Tilakdhari etc.
				475	Government	Non Agriculture	0.010	Banjar & Nali
			(15) Amwa	50	Private	Agriculture	0.020	smt. Anjani Devi w/o Ramashish Vill- Saraiya Mahanth, Padari Gorakh s/o Chokat, Wakil s/o Adalat Gramwasi, Lalmati Devi w/o Parasnath Vill- Kanakpura, Vijaynath s/o Sitaram Vill- Haraiya, Mo. Mobin, Hasmat Ali Mo. Rafik s/o Doma Vill- awarawa Sofi Juj Total Belwa Dih, Kaushilya Devi w/o Shivji Vill- Dhaurahara, smt. Malti Devi w/o Ramchandra Vill- Kotwa Karjai, smt. Sahebana w/o Mutra Sahay ansari Gramwasi Mobin Thekulaiya
				156	Private	Agriculture	0.001	Ramashankar s/o Manrakhan Gramwasi and Sudama s/o Vindeshwari Gramwasi etc.
				478	Private	Agriculture	0.023	Sriram Singh, Subash, Jagdish, brijnarayaan s/o Laxmi Singh Vill- Sohand, Alok Kumar, Dipak kr. s/o Baliram Vill- Dhanaha
				479	Private	Agriculture	0.010	Ramashankar, Ramshagar s/o Manrakhan, Sudama s/o Vindeshwari Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				480	Private	Agriculture	0.016	Bunela s/o Harikishun Vill- Jokva Buzurg, smt Kalawati Devi w/o Chandradev Vill- Jokwa Khurd, Nagina s/o Sundar Vill- Jokwa Khurd, Ramlal s/o Pawan Gramwasi, Daroga, Munib, dhaneshar, Gopal s/o Ramprasad Vill- Jokwa Buzurg, Sudama sharma, Bramha Sharma, Jagdamba Sharma s/o Sukhari Vill- Ahaladpur, Chandrika Prasad, Chanchal Prasad s/o Ramdhari Vill- Sohng, smt. Kalawati Devi w/o Rajendra Gramwasi, Motilal s/o Bhagwat Vill- Saraiya Mahanth Patti, Ramlal s/o Gramwasi, Thagai s/o Babban Gramwasi, Satyanarayan
				481	Private	Agriculture	0.016	Chandrika Prasad, Chanchal Prasad s/o Ramdhari Vill- Sohng, smt. Kalawati Devi w/o Rajendra Gramwasi, Motilal s/o Bhagwat Vill- Saraiya Mahanth Patti, Ramlal s/o Babban Gramwasi, Thagai s/o Babban Gramwasi, Satyanarayan Saukhi, smt. Mira Devi w/o Mahadev Vill- Madhuriya
				482	Private	Agriculture	0.012	Sriram, Subash, Jagdish, Brijnarayan s/o Laxmi Singh, Yogendra, Vishvnath s/o Moti Chandra Vill- Navtan Haldi Tah- Chaura Badgaon, Pradip Kumar, Arun Kumar, Ashok Kumar s/o Sharda Prasad, Paramhansh, Ramprasad, Prabhunath, Munnar s/o Jhagaru Gramwasi
			(16) Pipra Razzab	53	Private	Agriculture	0.020	Mahatam, Narayan, Shankar, Sitaram s/o Sarju Gramwasi, Yasmin Begam s/o Allauddin Gramwasi
				284	Government	Non Agriculture	0.105	Pokhri
			(17) Garahia	473	Private	Agriculture	0.002	Mo. Matin Kuraisi, Basharuddin Vill- Pipra Rajjab, Khanti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				479	Private	Agriculture	0.002	Kamaluddin, Salauddin, Jalaluddin Vill- Pipra Rajjab, Gorakh s/o Somari Vill- Pipra Rajjab, Naim, Nasim, Shakil Ahmed, Shamim Ahmed s/o Nijamuddin Ali Vill- Kuchiya Mathiya
				870	Private	Agriculture	0.097	Sher Mohammad s/o Nathuni Sah Gramawasi, Dubari, Ramkripal s/o Puran Vill- Fazilnagar, Dubari, Ramkripal s/o Puran Vill- Fazilnagar, Ramchandra, Bhagauti s/o Mohan, Ramlotan s/o Bahadur Vill- Fazilnagar, Alim, Asim s/o Niyamat Vill- Mahuava, Mahabir, Raghubir s/o Jagarnath Sahu Vill- Fazilnagar, Ramashankar s/o Indradev Gramwasi, Sudarshan, Chhedi, Srikant, Hansraj, Jiv Bodh Vill- Fazilnagar, smt., Virbahadur w/o Jamuna Gramwasi, Navihasan s/o Shekh Immamuddin Gramwasi, Vismillah, Badis, Suman, Shahir s/o Kunkun, smt. Baukhi w/o Rajkarim Gramwasi, Vishvnath, Gohari, Brijnarayan, Ramashishi s/o Dharam Gramwasi, abadi
				877	Private	Agriculture	0.001	Amar, Ramdeni s/o Thakur Premkumar, Kaplesh, Vijay kumar s/o Vindhyachal, Parikshan, Gaya s/o Sukai, Rajaram s/o Babban, Virendra, Ramendra s/o Baliram, Kishori, Baliram s/o Kishundeve, Rambali, Subash, Hiralal s/o Sriram Jwahir, Lalbabu, Chhotelal s/o Bhagawan, Sabareji, Rameshwar singh s/o Shivpujan singh Gram Bhangrikar, Hajara Kahatur w/o Roj Mohammad Sakim Mahuawan
				895	Private	Agriculture	0.013	Abadi, smt. Shanti Devi Jauje Shyam Badal Vill- Bauragi Patti, smt. Ramparita Jauje Khenhar Vill- Tikampa, smt. Nagina Jauje Feku Gramwasi, Bewa Ramjas, Hamla s/o Rajbanshi Vill- Bakhari Turjappa, Rambali s/o Banda Vill- Fazilnagar, smt. Shanti Devi Jauje Daroga Vill- Pagra

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				871	Government	Non Agriculture	0.156	Abadi & Silling
				900	Government	Non Agriculture	0.032	Khanti
				906	Government	Non Agriculture	0.008	Nahar
				1028	Private	Built up	0.003	Suresh Prasad, Manoj Kumar, Vinod Kumar s/o Shankar Vill-Fazil Nagar
				1067	Private	Built up	0.023	Singhasan, Pauhari s/o Koleshwar, Swaminath s/o Vanshi, Rajdatt s/o Menesar, Shyamal s/o Chauthur Vill- Pipra Rajjab alamgir, Jakir Hussain s/o Amruddin
				896	Private	Agriculture	0.001	Matsraj and Ramgati and Ramnaresh s/o Srikrishn etc.
				909	Private	Agriculture	0.001	Ramdas s/o Raghubar Vill-Fazilnagar and smt. Nayanpati Devi w/o Radhakishun and smt. Gulabi Devi w/o Ramkishun and Vishvnath and Jagannath and Ramjit and Shivnath and Baljit and Naurangi Lal s/o Muni Singh etc.
				923	Private	Agriculture	0.003	Jainul, Awdin s/o Alimohammad
				1022	Government	Non Agriculture	0.227	Road
				1023	Government	Non Agriculture	0.077	Khanti
				1024	Government	Non Agriculture	0.190	Road
			(18) Fazil Nagar	387	Private	Built up	0.012	Chiranjivi, Ashok, Santosh s/o Arjun, Hanuman s/o Ramsubhag, Ramawati W/o Somprakash, Kailash, Omprakash s/o Sudarshan, Prahlad, Dirub, Kashi, Mohan, Triloki s/o Bujhawan, Premchand s/o Bandhu Gramwasi
				998	Government	Non Agriculture	0.004	Nahar
				998 / 1303	Private	Agriculture	0.002	Raghwadhar, Udaydhar s/o Keshavdhar, Vindhyachal Gramwasi
				1001	Private	Non Agriculture	0.005	Rajesh Kumar s/o Raghav Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1003	Private	Agriculture	0.048	Abadi), Onkar, Ramchandra s/o Yamuna, Kamlesh, Rajesh (Minor) 13 Years 6 months s/o Markandey Guardian smt. Gayatri Devi (Mother) Balig, Baliram, Janardhan (Minor) 13 Years & 11 Years Guardian Kalawati s/o Ramjit & smt. Kalawati w/o Ramjit, Laljit, Kedar s/o Birjhan Vill-Taruguniya, Ramayan s/o Baburam, Ramchandra s/o Sitaram Vill-Devpokhar
			(19) Kazipur Urf Belwa Chhathu	8	Government	Non Agriculture	0.012	Nala
				12	Private	Agriculture	0.115	Atma s/o Dhodha & Sudama s/o Laju & Ramadhar & Ramagya s/o Nathuni & Lakshaman s/o Shital Gramwasi Jarina Khatun w/o Shamsujjama Vill- Fazilnagar
3		Tamkuhi	(1) Bishunpura	102	Private	Agriculture	0.012	Smt. Jiyani w/o Bhikhari Adi Dhruv Narayan Adi, Sadak.
				103	Private	Agriculture	0.061	smt. Nojadi w/o Dhonhar, Vidyasagar, Janardan s/o Dhonhar Vill- Mataluchhapara
				118	Private	Agriculture	0.013	Gauri Shankar & Ganesh s/o Ganjeshwari Vill- Matluk Chhapar & smt. Binda Devi w/o Ramnaresh Vill- Gaura Dist- Gopalganj (Bihar) Hal Mukam- Fazilnagar & smt. Ramsuratia w/o Ramkishun Vill- Gaura Bazar, Gopalganj (Bihar) & Sahab Hussain s/o Noor Muhammad etc.
				119	Private	Agriculture	0.007	Dhruv narayan & Vanshidhar & Vijaynath & Vijay Bahadur s/o Shivpujan & Rajkishor s/o Malik Vill- Patiyahawa Urf Karjaha & Vinod Kumar, Akhilesh Kumar s/o Kedarnath Vill- Pipra Kanak, smt. Shivkumari w/o Amla & smt. Kalawati Devi w/o Gyanprakash Vill- Bolua Takia etc.
				120	Private	Agriculture	0.012	Balkhila s/o Mohar Vill- Tetraia & Rambharath & Ramchandra & Shivraj s/o Parsad Vill- Dodra & Sannaullah s/o Gani etc.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				121	Private	Agriculture	0.007	Balkhila s/o Mohar Vill- Tetraia & Rambharath & Ramchandra & Shivraj s/o Parsad Vill- Dodra & Sannaullah s/o Gani etc.
			(2) Ahladpur	511	Government	Non Agriculture	0.226	Gandak Kainal Department
				513	Private	Agriculture	0.030	Shavihilhasan, Vajiulhasan, Malihulhasan, Nafisulhasan, Hasibulhasan s/o ManjurHasan Vill- Belwa Chittu Urf Kajipur, Gandak Kainal Department
				514	Private	Agriculture	0.030	Shavihilhasan, Vajiulhasan, Malihulhasan, Nafisulhasan, Hasibulhasan s/o ManjurHasan Vill- Belwa Chittu Urf Kajipur, Gandak Kainal Department
				523	Government	Non Agriculture	0.062	N.H.
			(3) Deoria Bishundayal	173	Government	Non Agriculture	0.015	Nali
				180 / 1	Private	Agriculture	0.112	Mustafa & Ramtullah s/o Munsif Vill- Deoria Vishundayal
				180 / 2	Government	Non Agriculture	0.023	Gandak Kainal Department
				183	Government	Non Agriculture	0.028	Gandak Kainal Department
				187	Private	Agriculture	0.145	Mangaru, Mithai s/o Shyam Lal, Buddhu, Govind s/o Rangilal, Singhasan, Babulal, Bhiguraj s/o Pus Vill- Mahua, Gandak Kainal Department
				189	Government	Non Agriculture	0.050	Gandak Kainal Department
				192	Private	Agriculture	0.036	Manjur s/o Jaan Mo., Hitabulla, Nijamuddin, Hasamuddin, Sahabuddin, Riyajuddin s/o Mo. Aslam, Bhola Jin, Manjut s/o Jaan Mo., Mumtaj Ali Intyaj s/o Vajid Gramwasi, Gandak Kainal Department
				220	Government	Non Agriculture	0.096	Pokhri
				221	Government	Non Agriculture	0.040	Banjar
				222	Private	Agriculture	0.053	Gandak Kainal Department

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				158	Government	Non Agriculture	0.012	Sector Road
				193	Government	Non Agriculture	0.013	Kabristan
				200	Private	Agriculture	0.030	Shyamsundar s/o Ramakant, Rajeshwar s/o Bachcha Vill-Mahua, Habib, Rojid, Jahid s/o Noor Mo. Gramwasi, Shyamsundar s/o Ramakant, Rajeshwar s/o Bachcha, Radheshyam s/o Baldhila, Chandrika, Harishchandr s/o Vyas Mall Vill- Mahua Hakim, Rojid, Jahid s/o Noor Mo. Gramwasi
				202	Government	Non Agriculture	0.050	Gandak Kainal Department
				206	Government	Non Agriculture	0.061	Gandak Kainal Department
				211	Government	Non Agriculture	0.042	Gandak Kainal Department
				223	Private	Agriculture	0.012	Habib, Rojit, Wahid s/o Noor Mo. Gramwasi
				229	Private	Agriculture	0.002	Sitaeram s/o kunkun, Suresh, Virendra Kumar, Harendra Kr., Jogendra kumar, Upendra Kr., Suryanath s/o Gauri Shankar, Babunandan, Gorakh s/o Sriram Vill- Mahua
				231	Government	Non Agriculture	0.065	Shabbir Ahmed s/o Idris Gramwasi, Gandak Kainal Department
				245	Government	Non Agriculture	0.017	Ramchandra s/o Ramdas, Motilal, Srikishun s/o Ramsubhag, Pauhari s/o Narayan Vill- Mahua, New Parati, Gandak Kainal Department
				226	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
			(4) Mahuawan	482	Government	Non Agriculture	0.011	Pokhari
				519	Private	Agriculture	0.020	Rajhansh & Rajkumar Minor age 12 & 10 Years Guardian Musmat Fulwasini Devi(Mother) s/o Tarachand, Parasura, Harishankar s/o Thagai & Vijay Bahadur s/o Ramhit Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				520	Private	Agriculture	0.049	Savir Ahmad s/o Idrish Vill- Deoria Vishundayal
				521	Private	Agriculture	0.012	Anant s/o Parasnath Musmat Rajpati Devi w/o late Parasnath & Pawan Kumar, Pradip Kumar, Vikash Kumar & Vishyal Kumar Minor(Grandson) age 15, 11, 8, & 4 Years Guardian Manju Devi(Mother) self & Manju Devi w/o Rajnarayan
				522	Private	Agriculture	0.008	smt. Dulari w/o late Rajbali & smt. Pyari w/o Sagar Verma Daughters name Saved
				523	Private	Agriculture	0.015	Radhakishun, Ramchandra, Laxman & Bharat & Aniruddh s/o Ramdhyan, smt. Fulkuwari w/o late Ramdhyan
				1086	Private	Agriculture	0.032	Kamleshwar, Rajkishor, Harilal s/o Jawahar Prasad & Sanjay & Radheshyam s/o Ramashankar & Asharfi s/o Ramautar Gramwasi
				1087	Private	Agriculture	0.032	Dhrupdev s/o Ramnarayan & Musmat Lokna Widow Ramdev & Rajdev & Brisbhan s/o Ramlakhan Gramwasi
				1088	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar
				1089	Private	Agriculture	0.016	Banjar, Ramchandra & Satyendra & Devendra s/o Vishundev & Yogendra Prasad & Narendra Prasad & Vikan Prasad Tiwari s/o shankar Prasad Gramwasi
				1090	Government	Non Agriculture	0.008	Pokhari
				1097	Private	Agriculture	0.007	shankar Prasad s/o Risidev. & Ramchandra & Satyendra & Devendra s/o Vishundev Musmat Babuna Widow Sukhdev
				1149	Private	Agriculture	0.032	Rampravesh & Gyanprakash & Jatashankar s/o Dwarika Gramwasi
				472	Private	Agriculture	0.003	Ijhar s/o Bhulan & Sattar s/o Ali Hasan & Sarif s/o Madina & Islam & Hanif s/o Musaddi Gramwasi
				488	Private	Agriculture	0.004	smt. Bachchi w/o Aniruddh Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				524	Private	Agriculture	0.004	Rajhansh & Rajkumar Minor age 12 & 10 Years Guardian Musmat Fulwasini Devi(Mother) s/o Tarachand, Parasuram, Harishankar s/o Thagai & Vijay Bahadur s/o Ramhit Gramwasi
				524 / 1322	Private	Agriculture	0.005	Rajhansh & Rajkumar Minor age 12 & 10 Years Guardian Musmat Fulwasini Devi(Mother) s/o Tarachand Gramwasi
				1159	Private	Agriculture	0.035	Anant s/o Parasnath Musmat Rajpati Devi w/o late Parasnath & Pawan Kumar, Pradip Kumar, Vikash Kumar & Vishyal Kumar Minor(Grandson) age 15, 11, 8, & 4 Years Guardian Manju Devi(Mother) self & Manju Devi w/o Rajnarayan
				1169	Private	Agriculture	0.010	Ramsakal, Ramdars, Ramkishor s/o Jivdhan & Fulena & Fuleshar Urf Fulena s/o Hansraj & Jainarayan & Ramchandra & Ramakant s/o Shyamsundar & Ramnarayan s/o Sundar & Narima Widow Devraj Gramwasi
				1170	Private	Agriculture	0.016	Ramsakal, Ramdars, Ramkishor s/o Jivdhan & Fulena & Fuleshar Urf Fulena s/o Hansraj & Jainarayan & Ramchandra & Ramakant s/o Shyamsundar & Ramnarayan s/o Sundar & Narma Widow Devraj Gramwasi
			(5) Patherwa	30	Government	Non Agriculture	0.001	Navin Parti
				34	Private	Agriculture	0.003	Jagarnath, Bandhu, Mukhi, Laxan, Dukhi s/o Ramdhani & Shivnath, Sayudarshan, Singhasan s/o Jaddu, Parmesar, Chandradev, Surydev & Gamha & Ishwar Adult Indrasan, Omprakash s/o Dhaneshar Gramwasi
				125	Private	Agriculture	0.005	Ramlal s/o Ramesar & Mahanth s/o Khelawan & Chandrasekhar & Profesor & Premchandra s/o Nandan Gramwasi
				352	Private	Agriculture	0.002	Rajvanshilal s/o Mohar Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				357	Private	Agriculture	0.008	Raja s/o Dahar, Sakaldip s/o Dilar & Musmat Laxminiya Widow Guneshar & Dhanusdhari s/o Jaga & Ramdawan & Suresh s/o Buddhu & Subash & sherbahadur & Manager s/o Bunela & Kailash s/o Rangi Gramwasi
				447	Private	Agriculture	0.001	Tube Well, Nali & Irrigation Dept.
				448	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				450	Government	Non Agriculture	0.008	Navin Parti
				468	Government	Non Agriculture	0.288	Police Thana Patherwa
				499	Private	Agriculture	0.100	Arvind Kumar, Yogendra Kumar, Sanjay, Ajay & suman Kumar Minor, 14 Years Guardia Arvind Kumar(Brother) & Sunil Kumar s/o Rajeshwarilal Gramwasi, Parasnath Gupta s/o Tilak Gramwasi, Road N.H.
				503	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
				504	Private	Agriculture	0.004	Rasid Ahmad & Abdul Majid s/o Dilmuhammad & Taiyab s/o Suman Vill- Sahdauli
				358	Private	Agriculture	0.012	Raja s/o Dahar, Sakaldip s/o Dilar & Musmat Laxminiya Widow Guneshar & Dhanusdhari s/o Jaga & Ramdawan & Suresh s/o Buddhu & Subash & sherbahadur & Manager s/o Bunela & Kailash s/o Rangi Gramwasi
			(6) Rajwatia	80	Private	Agriculture	0.004	Nagina, Kanaiya, Ramjit, Indrajit s/o Kamala, Chanray s/o Mukhi Rai, Ramchandar, Rambilas, Virendra s/o Manager, Nathuni s/o Ramlakhan Rai Gramwasi, Ravi Prakash, Shivprakash s/o Harivansh Vill- Amarawa Khurd, smt. Rupa Devi w/o Kamla, Shivshankar (Minor) 12 Years Guardian Gyatri Devi(Mother) s/o Amla, smt. Gayatri Devi w/o late Amla Gramwasi, Chakdahawa Drain

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				81	Private	Agriculture	0.003	Jogindar Singh, Harindra singh, Upendra Singh (Minor) 12 Years Guardian smt. Ramawati Devi w/o Nagina, Vikram Rai, Sitaram Rai, Bunela Rai Ramashankar Rai s/o Dev Narayan, Jagat Lal, Lallan Rai s/o Ramparsan, Vijay Kumar, Ramautar (Adult), Shailendra Kumar (Minor), Guardian Raja Devi s/o Manager, smt. Radhika Devi w/o Manager, Harigovind, Jagbahadur, Harigovind s/o Jagbahadur(Nephew), Vijay Kumar, Ramautar (Adult), Shailendra Kumar (Minor) 12 Years Guardian Radhika Devi Manager w/o nandlal, Dharmendra, Santosh s/o Bhadeswar (Grandson) Gramwasi, Ravindra s/o Nanai Rai, Rasakhi Beva Suba Rai, Nanai s/o Ruchi Rai, Nandlal, Dharmendra, Santosh s/o Baleshwar Gramwasi
				82	Private	Agriculture	0.003	Adalat, Hargovind, Hakim s/o Mangal Rai, Sharda Rai s/o Thakur Das Gramwasi
				100	Government	Non Agriculture	0.006	Chakdahawa Drain Chaf Branch Kansh Taksan, Pokhari smt. Fulwasi Devi w/o Suryadev Rai & Satyanarayan s/o suryadev Rai, Jangbahadur s/o Rajbahadur, Jit Bahadur Rai s/o Bhajan Rai & Adalat & Harigovind & Hakim s/o Mangal Rai & Sharda Rai s/o Thakur Rai Gramwasi, Nali & Banjar
				117/ 1127	Government	Non Agriculture	0.024	Bachcha & Ramanand s/o Chandar Rai & Rajendra s/o Chhedi & Tahsildar & Mukhtar & Kedar s/o Paltan Rai & Manager s/o Gorakh Rai & Vanta s/o Dalbahadur & Nathu & Suresh s/o Suraj Dev & Ramadhar & Ramnaresh & Kapildev & Aniruddh & Vijay & Sarma s/o Bharoshi Rai & Vishun Rai & Kailash Rai s/o Sakal Rai & Maheshwar s/o Indal Gramwasi, Road N.H. Kasaya Tamkuhi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				131	Private	Agriculture	0.002	Kripa Ram s/o Mangal Rai Vill-Babhnauli
				195	Government	Non Agriculture	0.043	Banjar
				196	Private	Agriculture	0.028	Maharaj, Mahatam, Rajdhari s/o Benirai Gramwasi, N.H. Kasaya Tamkuhi
				199	Government	Non Agriculture	0.049	Abadi
				236	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar
				265	Private	Agriculture	0.008	Daroga, Manshi, Manager, Shambhu s/o Lakhudev Gramwasi
				274	Private	Agriculture	0.002	smt. Devpati w/o late Laxmi, Mukhlal s/o Shivratn, Surendra, Ramasare, Sharda, Mahesh, Ramashish, Ramchandra s/o Bachchan, Spikishun s/o Jhabbu, Shivpujan s/o Chunni Gramwasi
				278	Private	Agriculture	0.005	Bachcha, Ramanand s/o Chandram, Rajendra s/o Chhedi, Tahsildar, Mukhtar, Kedhar s/o Paltan Rai, Manager s/o Gorakh, Basanta s/o Dalbahadur, Natthu, Suresh s/o Suryadev, Ramadhar, Ramnaresh s/o Kapildev, Vishun Rai, kailash Rai, s/o Shankar Rai, Maheshwar s/o Indal Gramwasi, Sanjay Kumar, Ajay Kumar s/o Naresh Singh Vill-Mathauli, Bachcha Ram, Ramanand s/o Chandan Gramwasi
				280	Private	Agriculture	0.004	Rahamat s/o alisher Vill-Babhanauli
				467	Government	Non Agriculture	0.003	Banjar
				575	Government	Non Agriculture	0.004	Road N.H. Kasaya Tamkuhi
				574	Government	Non Agriculture	0.003	Banjar & Bhita
				573	Government	Non Agriculture	0.001	Pokhari
				111	Private	Agriculture	0.005	Bhikham s/o Chandar, Makun, Parashuram s/o Kali Prasad Gramwasi, N.H.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				112	Government	Non Agriculture	0.002	Road N.H. Kasaya Tamkuhi
				114	Government	Non Agriculture	0.006	Adalat, Hargovind, Hakim s/o Mangal Rai, Sharda Rai s/o Thakur Das Gramwasi N.H.
				115	Private	Agriculture	0.009	Bachcha, Rajdhari s/o Shital Rai, Basudev Rai s/o Ramlochan Gramwasi, N.H
				198	Government	Non Agriculture	0.005	Road N.H. Kasaya Tamkuhi
				237	Private	Agriculture	0.002	Bachcha, Ramanand s/o Chandar Rai, Rajendra s/o Chhedi, Tahsildar, Mukhtar, Kedar s/o Paltan Rai, Manager s/o Gorakh, Banta s/o Dalbahadur Rai, Nanhu, Suresh s/o Suryadev, Ramadhare, Ramnaresh s/o Kapildev, Anaruddh, Vijay Sharma s/o Bhagirathi Rai Vishun Rai, kailash Rai, s/o Shakal Rai, Maheshwar s/o Indal Gramwasi, N.H. Kasaya Tamkuhi
				576	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar
				577	Private	Agriculture	0.002	Daroga & Nandlal s/o Chandrabali & Rajeshwari & Ramashankar & Suresndra s/o Firangi Gramwasi
				578	Government	Non Agriculture	0.001	Adalat & Harigovind & Hakim s/o Mangal Rai
			(7) Mathauli	164	Government	Non Agriculture	0.005	Banjar
				166	Private	Agriculture	0.023	Jatashankar s/o Triveni Rai Vill- Babhanauli
				185	Government	Non Agriculture	0.016	Jalmagn Bhoomi Sichai Wibhag
				195/ 509	Private	Agriculture	0.040	Feku & Vikai s/o Prahlad & Musmat Matisari Widow Sitaram Gramwasi
				163	Private	Agriculture	0.002	Komal & Jhulan s/o Balrup & Shivnarayan & Harinarayan & Rambali & Bhushan s/o Sudarshan Vill- Babhanauli
				476	Private	Agriculture	0.017	Rajbahadur & Jabgbahadur & Jit Bahdur s/o Rambhajan Vill- Babhanauli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(8) Dumarbhar	83	Government	Non Agriculture	0.030	Shamsan
				84	Government	Non Agriculture	0.167	Pokhri
				92	Private	Agriculture	0.020	Musmat Marachhi Beva Chanar Vill- Bagahi
				117	Private	Agriculture	0.020	Ramkishor Rai s/o Ramsingh Rai Vill- Bagahi, Ram, chandar s/o Shivraj Gramwasi Radheshyam s/o Raghubar Gramwasi Shyamdev, Ramdev s/o Ramdhari Gramwasi Ramkishor Rai s/o Ramsingh Rai Vill- Bagahi, Chanardev, Bachcha, Suryavikram, Dharmraj, Indrasan s/o Gaya Rai Vill- Bagahi, Ramdhyan, Doodhnath s/o Sahodar Gramwasi List Bihar Drain
				118	Government	Non Agriculture	0.060	N.H. Kasaya Tamkuhi
				119	Government	Non Agriculture	0.038	Navin Parti
				127	Private	Agriculture	0.015	Sriram (Minor) 10 Years Guardian Saurasati(Mother) s/o Rajbahadur, Musmat Beva Rajbahadur Gramwasi
				237	Government	Non Agriculture	0.016	Banjar
				301	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				320	Private	Agriculture	0.010	smt. Rani Shahi s/o Suryapratap Shahi Vill- Aniruddhwa, Tah- Kasaya
				337	Private	Agriculture	0.080	Tufani, Rajesh s/o Vitandi, Umesh, Rajkishor s/o Tapesar Vill- Bagahi, harikishun s/o Girdhari Vill Bagahi, Srikishun s/o Paltan, Umesh, Rajkishor s/o Tapesar Gramwasi
				82	Private	Agriculture	0.044	Chanardev & Dharmraj & Indrasan s/o Gaya Rai Vill- Bagahi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				299	Private	Agriculture	0.008	Ramawadh s/o Tahkur, Birjhan s/o Ramdhan, subash, Vyas, Asharfi s/o vikram, Ramayan, Ramashish, Gorakh s/o hiranman, Ramkumari Beva Ramsakal, Ramashankar s/o Jangi Gramwasi
				300	Private	Agriculture	0.070	Ramawadh s/o Tahkur, Birjhan s/o Ramdhan, subash, Vyas, Asharfi s/o vikram, Ramayan, Ramashish, Gorakh s/o hiranman, Ramkumari Beva Ramsakal, Ramashankar s/o Jangi Gramwasi, smt. Laxminiya w/o Shiv Mangal, Ramnath, Fulena, Chhotelal s/o shivmangal Gramwasi, smt. Laxminiya w/o Shivmangal, Ramnath, Fulena, Chhotelal, s/o Shivmangal Gramwasi
			(9) Bagahi	477	Government	Non Agriculture	0.800	Road P.W.D. smt. Kalawati w/o Indrasan Rai, Nathuni & Rameshwar & Ramugrah, Ramchandra s/o Ramjit, Ramadhar s/o Vindeshwari Rai & Shiv Prasad Rai & Gorakh Rai s/o Udaynarayan Rai & Ramnarayan s/o Jainarayan & Vashisht Rai s/o Ramautar Rai & smt. Ramkali w/o Ramautar Rai, Ramakant s/o Mandil & Vishvnath Rai s/o Vikrama Rai & Banke Bihari & Umashankar Rai s/o Babban Rai & Santosh Rai & Ajit Kumar & Amit Kumar s/o Shakti Narayan Gramwasi
				478	Government	Non Agriculture	0.004	Abadi
				482	Private	Non Agriculture	0.200	Abdul Rahman s/o Bauk Sa. Deh Madhav rai s/o Suraj dev rai Gramwasi Mahatam s/o Bholu Sa. Mathiya Vill. Korya Nagina s/o Rajman Sa. Mirbihar, Nathuni s/o Algu Sa. Dumarbhar
				484	Private	Agriculture	0.005	Rajbanshi s/o Manager Vill-Koyarpatti, Chingi s/o Jatadhari Vill- Majhauwa
				485	Private	Built up	0.005	Shivgovind s/o Mahadev Vill-Koyarpatti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				490	Private	Built up	0.014	Ramdarash Rai s/o Ramkishun Rai Gramwasi
				491	Private	Agriculture	0.065	Ramadhari s/o vindeshwari Rai, Shiv Prasad Rai, gorakh Rai s/o Udaynarayan, Ramnayan s/o Jainarayan, Vashishth Rai s/o Ramautar Rai, smt. Ramkali w/o late Ramautar, Ramakant s/o Mandil, Vishvnath Rai s/o Vikrama Rai, Banke Bihari, Umashankar Rai s/o Babban Rai, Santosh Kumar, Ajit Kumar, Amit Kumar s/o Shakti Narayan Rai Gramwasi
				493	Government	Non Agriculture	0.060	Banjar
				494	Private	Agriculture	0.014	smt. Kalawati Jauje, Indrasan Rai Gramwasi, Harishankar Rai, Awadhesh Rai, Tejnarayan s/o Mahanth Gramwasi
			(10) Lawania	297	Private	Agriculture	0.026	Kapil Dev Ramchandra shivshankar Harishankar s/o Shobhi Gramwasi
				314	Government	Non Agriculture	0.005	Nai Parti
				315	Private	Agriculture	0.012	Jawahir Krishna s/o Dhari Gramwasi
				317	Private	Agriculture	0.040	Balli, Balistar s/o Nawami Gramwasi, Balli s/o Nawami Gramwasi, smt. Sita Devi w/o Shiv Prasad Vill- Bagahi
				492	Private	Non Agriculture	0.050	Jagarnath s/o Jiut Vill- Amarawa Buzurg, Janardhan, Parmanand s/o Suryanath Vill- Bagahi, Suresh Singh, Rambelash Singh s/o Sukhari Singh Vill- Koyar Patti, babban s/o Niladhar Vill- Thakuraha, Vira, Babban, Shankar s/o Nagu, Kailash s/o Veer Vill- Dhaurahar
				496	Government	Non Agriculture	0.025	Navin Parti
				504	Government	Non Agriculture	0.004	Nali
				507	Private	Agriculture	0.055	Gorakh s/o Gopal Gramwasi Vijay Narayan s/o Maldev Vill- Padari Raja

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				511	Government	Non Agriculture	0.006	Chakmarg
				519	Private	Agriculture	0.005	Govari Prasad s/o Inarmani Vill- Koyarpatti, Vijaymal s/o Garib Gramwasi, smt. Nandrani Devi w/o Banke Bihari Rai, smt. Panmati Devi w/o Shyam Bihari Rai, Vill- Majhauwa
				537	Private	Agriculture	0.020	Suresh, Shambhu, Kailash s/o Ramanand s/o Jagdev Gramwasi
				540	Private	Agriculture	0.030	Sitaram, Sriram, Bhola, Lulu, Sugeshwar s/o Bechu, Sama s/o Ramlaxan, Radha s/o bhagan Gramwasi, Sitaram, Hareram, Sriram, Jairam s/o Dukhi Vill- Naugava, Gorakh s/o Indrajit Rai vill- Padari Vishunpur Dayal
				305	Government	Non Agriculture	0.035	School
				309	Private	Agriculture	0.005	Lakhan s/o Parasad Gramwasi
				554	Private	Agriculture	0.005	Nathuni, Amarjit s/o Ganga Gramwasi
				556	Government	Non Agriculture	0.006	Banjar
				557	Government	Non Agriculture	0.016	Banjar
				508	Private	Agriculture	0.002	Smt. Kunti devi w/o Virendar Smt. Kamalawati w/o Rajendar, Kapil dev, Mahatam s/o Teju, Somari, Ramashish s/o Thakur, Rajendar s/o Nathuni, Virendar s/o Dinanath Gramwasi Smt. Prabhawati w/o Ramayan Niwasigram Baghi
			(11) Koyarpatti	5	Private	Built up	0.015	Harihar, Manager, Ramkeshwar s/o Isari Vill- Lawaniya
				7	Private	Built up	0.014	Majahar s/o Sudhan Gramwasi
				8	Private	Built up	0.014	Harilal s/o Devdhari Vill- Bharpatiya
				9	Private	Built up	0.030	Bharath s/o Ganga Vill- Lawaniya, Parasnath s/o Hotman Shah Vill- ahirauli
				12	Private	Agriculture	0.134	Shambhu, Kunjbihari s/o Amarjit, musmat Kalawati devi w/o Amarjit, Amarish s/o Dukhi Gramwasi, Kalawati devi w/o Nandlal, Nandlal s/o Ramjas Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				24	Private	Agriculture	0.200	Nahar, Shankar Ram, Narayan, Shiv Narayan, Mahesh, Jayut s/o Mannu Gramwasi
				25	Private	Built up	0.055	Chandar s/o Badari Gramwasi
				26	Private	Built up	0.010	Ramanaraya s/o Munnar Gramwasi
			(12) Bharpatia Raj	1	Government	Non Agriculture	0.008	Banzar
				2	Government	Non Agriculture	0.065	Nai Parti
				367	Government	Non Agriculture	0.282	Nahar, Ramsanchi, Ramashankar s/o Bhola, Rajdev s/o Ramprasad, Radha Kishun s/o Ramprasad, Radha Kishun, Rajendra, Hari Kishun s/o Ramdas, Devnarayan, Jayut s/o Ramprit Gramwasi
				368	Government	Non Agriculture	0.024	Nahar
			(13) Karimchak	19	Private	Agriculture	0.005	Kapil Dev & Mahatam s/o Teju Vill Lawaniya
				21	Government	Non Agriculture	0.002	Nali
			(14) Tamkuhi Raj	74	Private	Agriculture	0.057	Khajanchi, Adalat, s/o Sukhari, Chokar s/o Tarpai, Namigodhan s/o Tapeshar, Brikshan, Sukhari Gramwasi, Ramagya Gram Chhahu, hal Mukam Gram, Smt. Darpaniya, Jauje Baudhan, Gram Dhuriya, Smt. Dokani W/o Nandlal, Smt. Kuvri W/o Mohan Gramwasi, National Highway
				73	Private	Built up	0.005	N.H.
				75	Private	Agriculture	0.015	Dwarika s/o Ramagya Niwasi Gram Chhahu, hal Mukam Gramwasi
				84	Government	Non Agriculture	0.006	Navin Parti
				102	Government	Non Agriculture	0.003	Navin Parti
				152	Government	Non Agriculture	0.020	Abadi
				157	Government	Non Agriculture	0.001	Gaddha
				183	Government	Non Agriculture	0.012	Tahsil Bhavan Tamkujuraj ke Awasiy, Anawasiy, Thana Adi Hetu Surakshit

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				392	Private	Agriculture	0.019	Amrawati Devi W/o Ramkishore Gramwasi, Parsuram s/o Chokar Niwasi Gram Lav Kush paschim patti, Rajju o Raju s/o Rambilas, Smt. Gayatri Devi W/o Kanaihya Gram Village Andhya Khas
				394	Private	Agriculture	0.010	Jhapasi s/o Balli Vill- Tamkuhi
				416	Government	Non Agriculture	0.001	Chakmarg
				452	Private	Built up	0.004	Shivshankar, Ramashankar, Amarjit s/o Indar Prasad Gramwasi
				454	Private	Built up	0.004	Smt. Anita Tiwari W/o Rajkumar Tiwari Niwasi Gram Dahibhatta District Gopalganj
				455	Private	Built up	0.005	Smt. Draupadi W/o Krishnajeet Gramwasi
				458	Private	Built up	0.005	Jitendra, Upendra, Binay s/o Vishwanath singh Gramwasi
				459	Private	Built up	0.005	Javed s/o Abdullah Gram Khansam Tola District Gopalganj
				460	Private	Built up	0.012	Ramadhar Ray s/o Bindeshwari Ray, Ram Prakash, Gyan Prakash, Shriprakash s/o Ramadhar Niwasi Gram Baghi
				463	Private	Built up	0.007	Ravindra, Lalan s/o Kapildev, Prahlad s/o Bhadhar, Pramod Kumar s/o Bhukhan, Ramdev Prasad, Mohan Prasad s/o Vikku prasad Gram Balua, Samsher sahi, Vidyasagar s/o Rajdev Gram Naugawa, Adeshanusar Srimaan Na. T. Mu. N.
				471	Private	Built up	0.040	Sambhu s/o Jamuna, Sugriv s/o Tridev, Smt. Jayshree Devi W/o Ashok Singh, Uma s/o Saryu, Achhelal s/o Umeshwar, Sudama s/o mangal prasad Gramwasi, Arbind Kumar Mishra, Awadesh Mishra Niwasi Gram Singhaha, Dinanath s/o Chandradev Sakin Basdila Khurd
				724	Private	Built up	0.009	Sudam Prasad etc.
				725	Private	Agriculture	0.012	Pradhuman, Maksudan, Nagendra s/o Narayan, kailash s/o Hazari, Sambhu s/o Jamuna, Sugriv s/o Tridev, Jayshree Devi W/o Ashok, Uma, Kanta s/o Saryu, Achhelal s/o Umeshwar Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				730	Private	Built up	0.032	Aabadi
				732	Private	Non Agriculture	0.002	Abdul Rahman s/o Haji Khenhar Vill- Tamkuhi Road
				742	Private	Agriculture	0.015	Sriniwas Pathak, Ramsanukus Niwasi
				771	Private	Built up	0.015	Avnish, Rajnish, Binay s/o Bhupati, satish, sandeep, Yashwant, Narendra s/o Baccha, savitri Devi W/o Baccha, Smt. Sita W/o Bhupati Prasad Gramwasi, Abbas Ali S/o Navi Hussain Gram Pipra Razab, Badrul Huda s/o Farzan Sakin Nir Bihar, Jumman, Samiullah, Enullah s/o Rahtullah, Mahmood Usman, Tufani s/o Mubarak Niwasi Gram Hariharpur, Ramnarayan s/o Bhukhal Niwasi Gram Parsauni, Dinanath, Dhrup Prasad s/o Thakur Gram Bisunpura
				772	Private	Built up	0.025	Brijnandan s/o Ramnarayan Gramwasi
				774	Government	Non Agriculture	0.005	Tahsil Bhavan Tamkuhiraj ke Awasiy, Anawasiy, Thana Adi Hetu Surakshit
				846	Government	Non Agriculture	0.032	Road P.W.D.
				893	Private	Non Agriculture	0.020	Givind prasad Rai s/o Bharat Rai vill- Hariharpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				895	Private	Non Agriculture	0.020	Kalawati w/oDwarika Vill- Tamkuhi(129), Nitya Devi w/o Sudama Prasad(271), Ramprasad Lalbabau, Devi lal s/o Rajbansh Gramwasi(534), Radhakishun, Rajaram s/o Shyamlal Gramwasi, Ramshankar s/o Mangal gramwasi(540) Irsad ali, Nausad ali, Afatab ali s/o Samsad ali, Gobind prasad rai s/o Bharat rai Niwasigram Narhanwa Shukl Dist- Siwan Ha. Mu. Hariharpur, Surendra rai, Virendra rai s/o Nagina rai Smt. Shyam Sundari w/o Surendar, Vimlesh kumar s/o Makhanlal Sa. Sevarhi Smt. Laxmi devi w/o Hari prasad sa. Sewarhi Panna lal, Hari lal s/o Ramsundar, Vishvnath Mishra s/o Maharaj Mishra, Sandip, Mandip Nabalig Age. 17,15 Years s/o Chandramohan lal
				456	Private	Agriculture	0.005	smt. Draupati Jauje krishnji Gramwasi
				743	Private	Agriculture	0.014	premsingh, Ramnaresh, laxmi Nrayan s/o Raghunath Gramwasi, Vidya Prasad s/o bharat gramwasi, smt. Ramdei w/o Videshi vill- Bihar Buzurg
			(15) Hariharpur	1475	Private	Agriculture	0.057	Ishaq s/o Muhtaj Gramwasi
				1476	Private	Agriculture	0.016	smt. Jhuniya d/o Makhdum Sa. Deurava (Bihar), Majibullah s/o Alihussain Gramwasi
				1480	Government	Non Agriculture	0.008	Navin Parti
				1481	Private	Agriculture	0.016	Mo. Islam s/o Farjan Vill- Vishunpur Raja
				1503	Private	Agriculture	0.049	Vishmillah s/o Kitab
				1504	Private	Agriculture	0.044	smt, Kalawati Devi w/o Dev Sharrma Vill- Konhai Deoriya Inveast. Mentrsa Limited Office Jyoti Bhavan N.H. Road 28 Deoria Tamkuhi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1508	Private	Agriculture	0.109	Samsul s/o Mustafa, Abdulmanan, Valavsagir, Javed(Adult) Arsad (Minor) 15 Years Guardian Musmar Fatima Khatoon (Mother), Gramwasi
				1509	Private	Agriculture	0.012	Bachchan Shah s/o Jamuna Sah vill- Vishunpura dist- gopalganj Hal. Mukam, Gramwasi
				1512	Private	Agriculture	0.239	smt. Usha devi Agrawal Jauje Shyam Sundar Vill- Sewarahi
				1515	Private	Agriculture	0.004	Vishmillah s/o Kitab Miya Gramwasi
				1516	Government	Non Agriculture	0.065	Chakmarg
				1570	Private	Agriculture	0.002	smt. Afsana Khatun w/o Sarfuddin Vill- Laxmipur
				1576	Private	Agriculture	0.006	Tufani s/o Mubarak Gramwasi
				1577	Private	Agriculture	0.002	Khairu Nisha w/o Jafrul Alam
				1723	Private	Agriculture	0.016	smt. Usha devi Agrawal Jauje Shyam Sundar Vill- Sewarahi
				1724	Government	Non Agriculture	0.004	Navin Parti
				1799	Government	Non Agriculture	0.002	Sector Road
				1832	Private	Agriculture	0.024	Santsaran s/o Brijnandan Gramwasi, Santsaran s/o Brijnandan, smt. Lilawati Beva Raja Ram, nandlal s/o Ramdeni, smt. Tara Devi w/o Nandlal Vill- Sewarahi, Ramchannar s/o Sukdev, Mahangu s/o Raghunandan, Srikant, Sri Kishun s/o Manohar s/o Palata w/o Vinod Kumar Vill- Sewarahi, Baharan s/o trilochan Gramwasi, N.H. Road
				1833	Private	Agriculture	0.016	Santsaran s/o Brijnandan Gramwasi, Santsaran s/o Brijnandan, smt. Lilawati Beva Raja Ram, nandlal s/o Ramdeni, smt. Tara Devi w/o Nandlal Vill- Sewarahi, Ramchannar s/o Sukdev, Mahangu s/o Raghunandan, Srikant, Sri Kishun s/o Manohar s/o Palata w/o Vinod Kumar Vill- Sewarahi, Baharan s/o trilochan Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				49	Private	Agriculture	0.016	Suganti w/o Dipraj vill- Dhuria imiliya, Navin Parti, smt. Saraswati Devi w/o Suresh Narayan, Vill- Puraina Katya
				56	Private	Agriculture	0.035	Silling, Nasrullah s/o Shamsher Gramwasi, Doodhnath s/o rupan gramwasi
				57	Private	Agriculture	0.002	Sukurullah & Jipurullah & Faiyaj Ahmad s/o Alisher
				62	Government	Non Agriculture	0.012	N.H. Road
				63	Government	Non Agriculture	0.004	N.H. Road
				196	Private	Agriculture	0.005	Gyanprakash, omprakash, Jaiprakash s/o Baliram Gramwasi, Dasai s/o Bhola Gramwasi, smt. Karidan s/o Chhakauli Gramwasi, Mo. Nausad ali s/o Adalat, smt. Jigra Khatoon w/o Adalat Gramwasi, shambhu Jhamman Gramwasi, Musmat Laxmina d/o Chokat Gramwasi, Abadi
				197	Private	Agriculture	0.038	smt. Ramrati w/o Nathuni Prasad, Nandkishor, Hariom s/o Rajkishor smt. Jadawati Devi d/o Jagarnath w/o Rajkishor, smt. Radhika Devi w/o Ramnagina Singh, Prabhu s/o Ramnath, Sudama s/o Jamuna Vill- Tamkuhi
				489	Private	Built up	0.035	Anandsagar, yogendra, Jaiprakash, Preamsagar s/o Babu Ram, Vishvnath, Bachchan, Shambhu s/o Srikrishn, Vyas s/o Bahadur, Paras, Satyadev, Naresh s/o fulan Vill- Tamkuhi, Brannha Prasad s/o Nagesar Vill- Tamkuhi, sudama Prasad s/o Mugal Prasad Vill- Tamkuhi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				513	Private	Agriculture	0.040	Radhai Prasad s/o Ramdev Prasad Gram Mu. Jqniya Beva gopichand, Devi chand s/o Bulli, Keshav, Rajkumar, Uma s/o. Dobha, Ramprasad s/o Baharan, Bandhu s/o Mangal, Nagina s/o Tapesar, sukhal, Mannu s/o Lochan, baharan s/o Trilochan, Tufani, Dukhi (adult) jiut (Minor) 10 Years Guardian Musmat urmila Devi (Mother) s/o Rambandra, Lallan s/o Harihar, Mahangu, Ramraj s/o Raghunandan, Musmat Awatariya Beva Baburam, suresh s/o Gauri, Srikant, Srikishun s/o Manohar, Satyanarayan, Rajendra s/o Gulli Gramwasi Bhukhal s/o Raghunandan Vill- Tamkuhi
				526	Private	Agriculture	0.015	Mahatam s/o Fagu Vill- Tamkuhi, Kshatri s/o Kur Vill- Tamkuhi
				822	Government	Non Agriculture	0.024	Banjar
				856	Government	Non Agriculture	0.022	N.H.
				857	Government	Non Agriculture	0.005	N.H.
				858	Private	Agriculture	0.025	Ajayshankar Prasad Singh s/o Dr. Umashankar Prasad Vill- Laxmi Bagh N.h. Road
				1289	Government	Non Agriculture	0.017	N.H.
				1342	Private	Built up	0.010	Ramjanak s/o Ramdihal Gramwasi
				1343	Private	Built up	0.007	Girja s/o Ramswaroop, Nathuni s/o Jairam, Ramjanak s/o Ramdihal Gramwasi
				1419	Private	Built up	0.016	Akhtar Hussain, Mustak Ahmed, Sarfuddin s/o Manif Khan Gramwasi, Dinanath, Ramakant, Mohanlal, Murarilal s/o Motilal vill Bhatawaliya, Liyakat s/o Hanif, Mo. Yusuf s/o Ramjan, Munif s/o Ramjan smt. Laxmi devi, Beva Hari Prasad Arun Kumar s/o Makahnlal Vill- sewarahi
				1420	Private	Built up	0.006	smt. Dhanmati w/o Chandulal Vill- salemgarh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1421	Private	Built up	0.006	Shyam Picture Palace Vill- Hariharpur Owner Shyamsundar s/o Hariprasad, Panna Beva Makhanlal Vill- Sewrahi, Sarita Jauje Sikandar Gramwasi, Amin, Asgar s/o Nawab Abdul Sattar s/o Sabhan Vill- Tamkuhi, Arun Kumar s/o Makhanlal, Laxmi Devi Beva Hari Prasad vill- sewarah Abdul Sattar, Subhan Vill- Tamkuhi, Abdul Sattar, Subhan Vill- Tamkuhi
				818	Private	Agriculture	0.020	Saraswati Yadav w/o Ramesh Yadav, sugriv s/o Tridev Gramwasi, saraswati Yadav w/o Ramesh Yadav Vill- Deh, N.H. Road
				1427	Government	Non Agriculture	0.045	Way
				1837	Private	Agriculture	0.012	Babulal s/o Harinandan
				205	Private	Agriculture	0.003	Kishun s/o Vanshi, Feku s/o Jata, Virendra Pratap, Gopal & Savitri Devi w/o Sahdev Vill- Tamkuhi, Ramlal s/o Fuleshar, Samfi & Chhotelal s/o Balendar & Laichi Devi w/o Balendar, Santsaran s/o Brijnandan Vill- Tamkuhi
				1341	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
				1344	Private	Agriculture	0.003	Giriraj s/o Ramswarup & Nathuni s/o Jai Jairam & Ramjanak s/o Ramdihal & N.H.
				535	Private	Agriculture	0.004	Nisar Ahmad s/o Khenhar Vill- Tamkuhi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				813	Private / Government	Agriculture / Non Agriculture	0.020	Musmat Jonhiya Widow Gopichand, Devichand s/o Chulli & Doma s/o Jokhan & Ramprasad s/o Baharan & Bandhu s/o Mangal & Nagina s/o Tapesar & Sukhal & Mannu s/o Lochan & Baharan s/o Trilochan & Tufani & Dukhi Minor age 10. Years Guardian Musmat Urmila Devi(Mother) s/o Ramchandra & Ramchandra & Lallan s/o Harihar & Mahangu & Ramraj s/o Raghunandan & Musmat Atawariya Widow Baburam & Suresh s/o Gauri & Srikant & Srikishun s/o Manohar, Satyanarayan & Rajendra s/o Gulli, Ramakant s/o Ramrup Vill- Tamkuhi, Nahar, Parsauni Rajwaha, Mishrauli Drain, Nali
				1573 / 1978	Private	Built up	0.073	Samsul s/o Mustafa, Abdulmanan, Valalsagir, Javed(Adult) Arsad (Minor) 15 Years Guardian Musmat Fatima Khatoon (Mother) Gramwasi
			(16) Gazipur	2226	Private	Agriculture	0.032	Basdev s/o Gokhul, suryaballi, Ramautar s/o chhadhari, virla, Vishvnath s/o Baldev, mukhtar s/o Ramdev Vill, Semra Pargana-Kuadi Dist.- Saran Tamkuhi Salemgarh Road
				2239	Private	Built up	0.005	Gorakh s/o Bhagan, Harihar s/o Balistar s/o Chhathu, gopi, Krishn s/o Chandradev Gramwasi
				2240	Government	Non Agriculture	0.008	Tamkuhi Salemgarh Road
				2242	Private	Built up	0.002	Ganesh Prasad s/o Chokat Vill- Sewarahi
				2247	Private	Built up	0.005	Chandrashekhar, Baleshwar, Udaynarayan s/o Shidhari, smt. Sarali Devi w/o Shivdhari Vill- Parsauni Buzurg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2264	Private	Built up	0.020	Jokhu s/o shivnandan, Suchitm Rai w/o Anandprakash Rai Vill-Madhampur Buzurg, Kamla Rai s/o Vikrama Rai Gramwasi, Navihasan, Nabab, Sahabuddin s/o Mukhtar Vill- Hariharpur, smt. Rajanti devi w/o Chokat Vill- Tulsipatti, shivji s/o Moti, Bachcha
				2340	Private	Built up	0.012	jokhan s/o Shivnandan, Shivnandan s/o Kamla s/o Shivrati Gramwasi smt. Laxmina Devi w/o Shivji Vill-Tamkuhi Raj, Rajkumar s/o sumanat Vill- Ujay Dist- Siwan
				2342	Private	Built up	0.020	Kaushal s/o Sumant Vil- Ujay, shanti Devi Jauje Subash Rai Vill-Madhampur Buzurg, Radhasharan, Sitaram, Kashinath, Parasnatti, Chanmurat s/o Lohwan Vill-Puraina Kachaya, Nagina s/o Pataru Vill- Kabir(Siwan), Hal. Mukam-Sewarahi, Ganga s/o Chirkut Gramwasi
				2344	Government	Non Agriculture	0.051	Abadi
				2485	Private	Agriculture	0.002	Nijamuddin & Sukur Mohammad s/o Saral Gramwasi
				2486	Government	Non Agriculture	0.024	Way
				2499	Private	Agriculture	0.007	Osier Khan s/o Iqbal Gramwasi
				2514	Private	Agriculture	0.015	Dipraj, Banarasi, Suresh s/o Jaishree, Ramchandra s/o Satai Gramwasi
				2531	Government	Non Agriculture	0.006	Tamkuhi Salemgarh Road
				1733	Private	Agriculture	0.006	Chandrika, Ambika s/o Bhrigurasan Gramwasi
				1738	Government	Non Agriculture	0.006	Road
				2204	Private	Agriculture	0.002	Birla & Vishvnath s/o Baldev & Ramprit & Balistar s/o Suryabali Gramwasi
				2195	Private	Agriculture	0.020	Chandradev & Buneli & Shivmangal s/o Mukhlal Vill-Banwaria
				2506	Private	Agriculture	0.013	Road

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2227	Private	Agriculture	0.008	Nijamuddin & Sukur Mohammad s/o Saral Gramwasi
				2200	Private	Agriculture	0.090	Pujan s/o Rajbali & Baijnath & Harindra & Yogendra s/o Fuleshar & Nagina s/o Ramsubhag & Kapildev & Sukhdev & Bramhdev s/o Gujeshar Gramwasi
				2201	Private	Agriculture	0.081	Birla & Vishvnath s/o Baldev & Ramprit & Balistar s/o Suryabali Gramwasi
				2202	Private	Agriculture	0.004	Osihar Khan s/o Iqbal, Alim s/o Abdulrahim, ajialam s/o Abdulrahman, Ramshulah s/o Gulam Rasul Gramwasi
				2203	Private	Agriculture	0.024	Nijamuddin & Sukur Mohammad s/o Saral Gramwasi
				2205	Private	Agriculture	0.132	Osihar Khan s/o Iqbal, Alim s/o Abdulrahim, ajialam s/o Abdulrahman, Samshulhak s/o Gulam Rasul Gramwasi
				2213	Government	Non Agriculture	0.134	Osihar Khan s/o Iqbal, Alim s/o Abdulrahim, ajialam s/o Abdulrahman, Samshulhak s/o Gulam Rasul Gramwasi & Birla Vishvnath s/o Baldev & Ramprit & Balistar s/o Suryabali & Nijamuddin & Sukur Mohammad s/o saran Gramwasi, Chandradev & Buneli & Shivmangal s/o Mukhlal
				2229	Private	Agriculture	0.046	Osiyar Khan s/o Iqbal, Alim s/o Abdulrahim, ajialam s/o Abdulrahman, Ramshulhak s/o Gulam Rasul Gramwasi
				2230	Private	Agriculture	0.077	Maula Sarif & Navi Rasul & Babu Khan & Mumsarim s/o Hawaldar Khan Gramwasi
				2231	Private	Agriculture	0.077	Motilal & Nandlal s/o Jaddu & Gharbharan s/o Sukat Vill-Thakraha Tola Malahi Dist.-Champaran
				2232	Private	Agriculture	0.061	Birla & Vishvnath s/o Baldev & Ramprit & Balistar s/o Suryabali Gramwasi
				2233	Private	Agriculture	0.064	Dipak Kumar s/o Ramautar Vill-New Colony Deoria & Tamkuhi Salemgarh Road
				2234	Private	Agriculture	0.105	Chandradev & Buneli & Shivmangal s/o Mukhlal Vill-Banwaria

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2235	Private	Agriculture	0.214	Osiyar Khan s/o Iqbal, Alim, Ajialam s/o Abdulrahman, Ramshulhak s/o Gulam Rasul Gramwasi & N.H.
				2236	Private	Agriculture	0.036	Osiyar Khan s/o Iqbal, Alim, Ajialam s/o Abdulrahman, Ramshulhak s/o Gulam Rasul Gramwasi
				2237	Private	Agriculture	0.139	Johra Khatun Jauje Sohrab Vill-Berbahi
			(17) Madhopur Buzurg	391	Government	Non Agriculture	0.235	Abadi, Nahar, Khalihan
				772	Private	Agriculture	0.018	Ramjit s/o Rajkali Gramwasi
				773	Private	Agriculture	0.028	Musmat Janijirani w/o saral Rath Gramwasi, Baijnath Rai, Rajeshwar Rai s/o Yamuna Rai Gramwasi
				781	Private	Non Agriculture	0.026	Surendra Rai s/o Babulal Rai Gramwasi
				831	Private	Agriculture	0.023	Janardhan Pandey s/o Raja Gramwasi, Umakant, Ramakant, Bhageshwari s/o Rajendra Gramwasi
				1162	Government	Non Agriculture	0.011	Nahar
				1164	Private	Agriculture	0.026	Kukur, Budhai s/o Anant, Rogi, Dukhi s/o Tapasi Mitthi Baleshwar, Vikram s/o Jasani, Mangaru s/o Rodhar, Ramayan s/o Lautan Gramwasi
				1167	Private	Agriculture	0.012	Hridyanand s/o shitam Rai, smt.Prabhawati Devi Shivdhar, Ashish (Minor) 15 Years, Guardian Musmat Dharmshila(Mother) s/o Ganesh Gramwasi

1359 GI/06-26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1173	Private	Agriculture	0.020	Ramesh, Brijesh, Brinda, Rohit (Minor) 12,10 & 5 Years Guardian Smt. Mainawati Devi(mother) s/o Nageshwar, smt. Bhagawanta Devi w/o Nagendra, smt. Kiran w/o Harikesh, smt. Kamana Rai w/o Mahesh Vill- Thapeluwa Urf Dubauli Tah- Kasiya, Lallan Rai, Mahesh Rai s/o Bholan Rai, Baleshwar s/o Siddheshawari, Musmat Mainawati w/o Nagendra, Rakesh, Brijesh, vinay, Rohit s/o Nagendra Rai, Jivananand s/o Kamla s/o Sarvjit, Harendra Urf biran, Ramayan s/o Anad, Jitendra s/o Visheshar
				1174	Private	Agriculture	0.075	N.H. & Mohan Kumar and Durgesh Kumar & Devpujan Rai, Aklu Rai & Chhedi Rai s/o Dulam Rai & Suraj s/o Chhagaru Rai & Balistar Rai s/o Batai Rai & Manager & Durga s/o Chandradev Rai Musmat Matirani Widow Kanta Rai & Rudal Branhdev & Dwarika & Bunela s/o Khedan Rai & Musmat Resha Widow Gagan Rai Gramwasi, Hridyanand & Suresh s/o Shital Rai & Amrish, Anaruddh age 15 Years Guardian Musmat Dharmshila Mother s/o Ganesh Gramwasi
				1640	Private	Agriculture	0.007	Hiralal and Nandlal s/o Vanshi Vill-Deurwa Dist- Gopalganj(Bihar) and Janak s/o Manohar Gramwasi
				1646	Government	Non Agriculture	0.084	Tamkuhi Salemgarh Road
				1647	Government	Non Agriculture	0.030	Way
				1648	Private	Agriculture	0.007	Chandrabali Rai, Ram Iqbal Rai s/o Vishvnath Rai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1650	Private	Agriculture	0.004	Shivdhari Rai and Gandhi Rai and Jamuna Rai and Ramesh Kr. Rai s/o Ishwardhari Rai and Durga Rai, Yogendra Rai s/o sarju Rai Gramwasi, Dhruv Prasad, Kripa Shankar s/o Suryadev Rai Gramwasi, Sahdev Rai and Anruddh Rai s/o Sarjit Rai Gramwasi
				1651	Private	Agriculture	0.038	Chhathu s/o Isari, smt. Parvati Devi w/o Krishnbihari, smt. Renu Rai w/o Madsudan Gramwasi
				273	Private	Agriculture	0.034	Intkhaf Alam s/o Abdul Rahman Vill- Nagar Panchayat Sewarahi
				335	Government	Non Agriculture	0.039	Abadi
				336	Government	Non Agriculture	0.012	abadi Varg-6
				337	Government	Non Agriculture	0.064	Way
				338	Private	Agriculture	0.064	N.H., Banjar, Junior High school Jor Ehtnam District Board and Way, Puran Rai and subash Rai s/o Vishvnath Rai and Parasnath and Kedarnath and Jagarnath and Bajjnath s/o Rajdhari and Ramnaresh s/o Dip Rai and Hridaya Nand and suresh s/o Shital Rai and amrsh Minor Age 15 Years Guardian Musmat Dharmshila Mother s/o Ganesh Gramwasi KishundeV Rai and Ramdaud Rai and Hriday and Suresh and Ganesh s/o Shital Rai Musamat Sarpatiya Warish Widow Anant Rai Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				339	Private	Built up	0.008	Lallan Rai, Mahesh Rai s/o Jhulan, Baleshwar s/o Sidheshwari, Jivnandan s/o Kamla, Uday Rai, Devendra, Jitendra s/o Vishesar Rai, Ramanand Rai s/o Anant Rai, Vinod Kumar Sharma, Pramod Kumar s/o Satyanarayan Sharma, Ramesh, Brijesh, Vinay, Rohit s/o Nagendra, smt. Mainawati Devi w/o Nagendra, Kedar, Ramakant, Dinanath s/o Mangal Gramwasi, Fulan Rai, subash Rai s/o Vishvnath rai, Paras, Kedar, Jagannath, Baijnath s/o Rajdhari, Ramnresh s/o Dip Rai Gramwasi
				1175	Private	Built up	0.017	Abadi, Tamkuhi Salemgarh N.H., Mohan Kumar, Durgesh Kumar Rai, Devpujan Rai, anuruddh Rai, Chhedi s/o Bhulan Rai, suraj s/o Bhagan Rai, Balistar s/o Mahi Rai, Manager, Durga s/o Chandradev Rai, Kumari Kali Rani Beva Kanta Rai, rudal, Bramhdev, Dwarika, Bunela s/o Khedan Rai, Musmat Resa Beva Gagan Rai Gramwasi, Hridyanand Suresh s/o shital, Amrish 15 Years Guardian Musmat dharmshila (mother) s/o Ganesh Gramwasi
				1176	Private	Built up	0.020	Lallan Rai, Mahesh Rai s/o Jhulan, Baleshwar s/o Sidheshwari, Jivnandan s/o Kamla, Uday Rai, Devendra, Jitendra s/o Vishesar Rai, Ramanand Rai s/o Anant Rai, Vinod Kumar Sharma, Pramod Kumar s/o Satyanarayan Sharma, Ramesh, Brijesh, Vinay, Rohit s/o Nagendra, smt. Mainawati Devi w/o Nagendra, Kedar, Ramakant, Dinanath s/o Mangal Gramwasi
				1177	Government	Non Agriculture	0.005	Banjar
			18. Parsauni Buzurg	2987	Government	Non Agriculture	0.340	State Kainal Rajwaha Tamkuhi Raj, Salemgarh Rajwaha
				2990	Government	Non Agriculture	0.010	Banjar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2988	Government	Non Agriculture	0.028	Road
				2984	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar
			(19) Latwa Murlidhar	74	Private	Agriculture	0.001	Road
				174	Private	Agriculture	0.003	Road
				175	Government	Non Agriculture	0.005	Agriculture Land(Banjar)
				178	Private	Agriculture	0.020	Ganga s/o Namai, Ramdev, Ramchndra s/o Shivdhari, Chokat s/o Molhu Gramwasi Satyadev s/o Umashankar Rai Gramwasi
				262	Private	Agriculture	0.016	Rameshwar, Pahwari s/o Amarnath, Sanjay, Dhruv Manjesh s/o Kapildev Gramwasi
				269	Private	Built up	0.020	Sharda, Mahasare s/o Ramprasad Rai, Lallan, Kameshwar, awadhesh Kumar s/o Raja Rai Vill- Harihar Rai s/o Mangal rai Gramwasi
				270	Private	Built up	0.014	Kedar s/o Jhulan Rai, Ravindar, Upendra s/o Nagina Rai, Rajendra, Devendra s/o Khedu, Pauhari s/o Shivnadatt Gramwasi, Mangal Prasad s/o Isari Sahu Vill- Parsauni
				425	Private	Agriculture	0.005	Kapildev, Ramchandra, Ramdhyan s/o Shital Thakurai Gramwasi Basdila Buzurg
				426	Private	Agriculture	0.007	Chhedilal s/o Jhoril Vill- Khudra, Raghunath Rai s/o Jainarayan Rai Gramwasi, Subash Rai s/o Laxmi Rai Vill- Khudra
				438	Private	Built up	0.022	Tirthraj Rai s/o Nandrai Gramwasi smt., Radhika devi w/o Dev Sharma Vill- Latwajit
				444	Private	Agriculture	0.002	Navjiwan s/o Hadish, Musmat Katijiya Beva Suleman Gramwasi
				446	Private	Agriculture	0.005	Abdul Latif s/o Chokat Gramwasi
				487	Private	Agriculture	0.060	sriram Janki Temple Commeti
				488	Private	Agriculture	0.008	Dwarika ,Ranjit s/o Prahlad Rai Vill- Khudura
				524	Private	Agriculture	0.015	Ramadhhar s/o Sahodar Rai Gramwasi
				525	Private	Agriculture	0.006	Khedu Rai, Raghunath rai s/o Jainarayan Rai Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				526	Government	Non Agriculture	0.013	Nai Partu
			(20) Basdila Buzurg	431	Private	Agriculture	0.200	Kapildev, Ranachandra, Ram, dhyan s/o Shital Gramwasi
				465	Private	Agriculture	0.016	Vauhari, Kedar s/o Adalat Thakur, Paras Vahavkari s/o Balli, Sudama, Ramesh s/o Amila Nagendra s/o Kamauti Tanka s/o Indradev, Yogendra s/o Bunela Gaurishankar, Umashankar, Ramashankar s/o Ramsaware Kishori, Jaiprakash s/o Jagarnath, Vinay kumar Vav Bhim, Manoj kumar Empu(Minor) s/o Shivnath Guardian smt. Kanti Devi(Mother), Kanhaiya s/o Bramhdev, Rajendra, Ramnaresh s/o Shivpujan, amresh s/o Ramjit, Prabhunath, Manoj s/o Rajendra, Brijkishor, Omprakash Dinesh s/o Sudama Gramwasi
				468	Private	Agriculture	0.028	Ramsewak, Ramakant s/o Indradev Musmat Ramdulari w/o Indradev, Ramashray, Ramadhar, Rambabu s/o Suruj, smt. Mano Devi w/o suruj Gramwasi
				470	Private	Agriculture	0.035	Kedar s/o Jhulan Rai, Ravindar, Upendra s/o Nagina Rai, Rajendra, Devendra s/o, Khedu, Pauhari s/o Shivnadatt Gramwasi
				473	Government	Non Agriculture	0.005	Nali
			(21) Salemgarh	320	Government	Non Agriculture	0.008	Government Construction Road
				323	Government	Non Agriculture	0.002	Shankar s/o Kapildev Gramwasi
				324	Private	Agriculture	0.026	Ramashankar, Ramdayal, Vishun, Radha, Harihar s/o Ramraksha, Jangi, Bhikhi, Jangi, Kudan s/o Pragas Gramwasi, Raj Nirman Sadak
				329	Government	Non Agriculture	0.026	Government Construction Road
				330	Private	Agriculture	0.008	Musmat Devrajiya Beva Saraju, Shivraj s/o Dhanpati Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				356	Private	Non Agriculture	0.007	ghunar, Fagu, Dhodha, Nami s/o Sukhal, Musmat Devrajiya Beva Saraju, Shivraj s/o Dhanpati, Ramji s/o Gopal, Laxman, Ramprasad, Omprakash s/o Chandradev Gramwasi, Rameshwar Rai Sideshwari Rai Gramwasi, Abadi
				413	Private	Agriculture	0.032	Sahamat s/o Mosaheb, Kapil s/o Mohammad, Kasi s/o Rafi, Reyaj s/o Safir Gramwasi
				419	Government	Non Agriculture	0.072	Government Construction Road
				421	Private	Agriculture	0.005	Nathuni s/o Salhanat Gramwasi
				422	Private	Agriculture	0.054	Idrish s/o Mukhtar Gramwasi, Shamsul s/o Sahabddin Gramwasi
				449	Private	Agriculture	0.010	Aas Mohammad s/o Dost Mohaddam
				452	Private	Agriculture	0.026	Idrish s/o Mukhtar Gramwasi, Shamsul s/o Sahabddin Gramwasi
				453	Private	Agriculture	0.017	Samsul s/o Sahabddin Gramwasi, Rajkiya Nirman Road
				457	Government	Non Agriculture	0.105	Abaadi
				1379	Private	Agriculture	0.032	Ramjatan s/o Gulli Gramwasi
				1394	Government	Non Agriculture	0.005	Chakmarg
				1400	Private	Built up	0.105	Nasarullah s/o Asgar, Nurain s/o Dhodha, Abdul Jawar s/o Bam Bahadur, Raghav Ji, Dhruv ji s/o Daspatinath, Parichhan s/o Jagdev Gramwasi
				1406	Private	Built up	0.031	Ramautar, Buddhiram s/o Gudari, Jeli, Ramnaresh, Harishankar s/o Kishun, Shivji, Sharda s/o Vishun, Musmat Rukminiya Beva Munesar Gramwasi
				1413	Government	Non Agriculture	0.023	Government Construction Road
				3	Private	Agriculture	0.061	Ghunar s/o Sukhal Gramwasi
				4	Government	Non Agriculture	0.405	Harijan awas
				26	Private	Agriculture	0.057	Bechu s/o Subhag Gramwasi
				31	Private	Agriculture	0.004	Vishuni s/o Jaddu Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				32	Private	Agriculture	0.061	Vishuni s/o Jaddu Gramwasi
				37	Government	Non Agriculture	0.004	Chakmarg
				40	Private	Agriculture	0.010	Brijkishor, Omprakash, Dinesh s/o Sudama Vill- Basdila Buzurg
				252	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
				254	Private	Agriculture	0.052	Rajdhari s/o Nagesar Gramwasi
				309	Government	Non Agriculture	0.010	Government Construction Road
				517	Government	Non Agriculture	0.002	Banjar
				518	Government	Non Agriculture	0.002	Abadi
				944	Government	Non Agriculture	0.019	Khalihan, Bramhsthan
				948	Private	Agriculture	0.002	Harinarayan & Ramnarayan and Shyamnarayan and Badrinarayan and Kedar Narayan s/o Jugun Tiwari and Girjanandan and shyam Nandan and Jugun Tiwari, Ameshwari and Maheshwari s/o Mahavir Gramwasi
				949	Private	Agriculture	0.003	Shyamnarayan Tiwari s/o Jugun Tiwari Gramwasi
				975	Private	Agriculture	0.003	Subashchandra & Ramji s/o Chandan Lal and Pawan Kumar and Anil Kumar s/o Jugul Kishor Lal and Kaushal Kishor s/o Shivnandan Lal Gramwasi
				994	Private	Built up	0.015	Kanhaiya Nandan s/o Raghuvir Gramwasi
				1077	Private	Agriculture	0.002	Grahan s/o Harna Gramwasi
				1078	Private	Built up	0.030	Gopal s/o Dhodha Gramwasi
				1	Government	Non Agriculture	0.134	Silling
				318	Private	Agriculture	0.040	Jivan, Balkishun s/o Lakhan Gramwasi
				319	Private	Agriculture	0.004	Jivan, Balkishun s/o Lakhan Gramwasi
				331	Private	Agriculture	0.012	Prahlad s/o kosan, Kishuni, Rakdhari s/o Roshan, Feku, Singhasan, Fulena, Hira, Gena s/o Nathuni, Ramshankar, Ramhari Awayask Age. 9 & 5 Years Sa. Mu. Saraswati (Mata) s/o Chandrika Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				455	Private	Agriculture	0.016	Nathuni, Neur, Tufani s/o Suman, Hadis s/o Asraf, Sakir Ali, Savir Ali s/o Sadik, Raja s/o Rahman, Khijamuddin, Manudin, Jalaluddin s/o aliraja, Nawab, Savik Hussain s/o Halim smt. Hakimani Jauje Sadik Gramwasi, Raja s/o Rahman Gramwasi
				458	Private	Agriculture	0.004	Jati, Ramnaraesh, Harishankar s/o Ramkishun Gramwasi
				1380	Private	Agriculture	0.032	Dilu, Matwar, Khushi, sukhi s/o Gulam Hussain, Musmat Majidani, Munshi s/o Ramtali, Jagan s/o Hai, Valayat s/o Gudan, Khenhare, Dasai s/o Sihor Gramwasi
				1401	Private	Agriculture	0.100	Vikrama s/o Rajmanga Gramwasi
				8	Government	Non Agriculture	0.002	Chakmarg
				22	Government	Non Agriculture	0.004	Way
				253	Private	Agriculture	0.006	Jagroshan s/o Sohiti Gramwasi
				803	Government	Non Agriculture	0.030	Abadi
				1079	Government	Non Agriculture	0.080	Nahar
				960	Private	Agriculture	0.003	Bhola and Ramakant s/o Ramraj and Shamraj s/o Johar and Indradev and Mangal and Girdhari s/o Ramjatan and Kashi s/o Shyam Rao and Raghunandan s/o Manohar and Radha Shankar s/o Jagdev and Ramnaresh and Suresh and Harish and Vikrama and Harinath s/o Shivnandan Gramwasi
				945	Government	Non Agriculture	0.360	N.H.

[F. No. NHAI/40020/2/C-III/2002/Tech.-III/Kushi Nagar/3D/LA-159]

PRABHAKAR, Dy. Secy.